



# अबुआ आवास सबका आवास

## 20 लाख


जरूरतमंद परिवारों को **3 कमरों**  
का पक्का आवास

**1.28 लाख**  
से अधिक परिवार  
को प्रथम किस्त

**₹384 करोड़**  
डीबीटी के तहत  
हस्तांतरित

राज्य सरकार अबुआ आवास  
योजना के तहत **तीन कमरा,**  
**स्वच्छ रसोईघर एवं शौचालय**  
का निर्माण करेगी

रोटी और कपड़ा के बाद  
अब **पक्का आवास**  
उपलब्ध करा रही सरकार



श्री चम्पाई सोरेन  
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

## गिरिडीह लोस सीट से जेएमएम के मथुरा महतो होंगे उम्मीदवार !

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से विधायक मथुरा महतो जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। जल्द ही पार्टी की ओर से इसका औपचारिक एलान किया जाएगा। जेएमएम पार्टी सूत्रों का कहना है कि टुंडी विधायक मथुरा महतो को पार्टी की ओर से ये संदेश दे दिया गया है। पार्टी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मथुरा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। चार मार्च को कल्पना सोरेन के राजनीतिक पारी शुरू करने के वक्त भी मथुरा मंच पर मौजूद थे और जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह के दौरान एक्टिव नजर आए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जेएमएम की ओर से दिवंगत जगन्नाथ महतो उम्मीदवार बने थे जिसे आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने शिकस्त दी थी। इस बार होने वाले चुनाव में गिरिडीह में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि छत्र नेता खबरम महतो ने भी गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान किया हुआ है। मथुरा महतो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और दो बार वो मंत्री और तीन बार विधायक रह चुके हैं।

**क्या है गिरिडीह लोकसभा सीट की भौगोलिक स्थिति** : गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड का महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। इस



<b>आम चुनाव 2019</b>
<b>चंद्र प्रकाश चौधरी</b>
पार्टी : आजसू पार्टी
प्राप्त वोट : 648277
वोट प्रतिशत : 67 %
<b>पुरुष मतदाता</b> : 879561
<b>महिला मतदाता</b> : 769833
कुल मतदाता : 1649413
<b>लिकटलम प्रतिद्वंद्वी</b>
<b>जगरनाथ महतो</b>
पार्टी : झारखंड मुक्ति मोर्चा
प्राप्त वोट : 399930
हार का अंतर : 248347

क्षेत्र में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। इस संसदीय क्षेत्र में छह विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। यह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों घिरा से है। मुगल सम्राटों का इस क्षेत्र पर शासन रहा। यह क्षेत्र अबरख और कोयला जैसे खनिज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल पार्वनाथ भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता एवं वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु की जन्मस्थली इसी क्षेत्र में है।

# नशे की तस्करी पर लगेगी रोक

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड में नशे के सौदागरों और उसकी तस्करी को लेकर झारखंड पुलिस गंभीर दिख रही है। इस वाक्यत पुलिस ने एक स्पेशल प्लान बनाया है। योजना के तहत मादक पदार्थों के तस्करों के मनी ट्रेल की जांच कर किंगपिन तक पहुंचने की तैयारी कर ली गयी है। सीआईडी डीजी ने कई गाइडलाइंस जिलों के एसपी को भेजे हैं। **ऑनलाइन होता है लेन-देन** : झारखंड की राजधानी रांची समेत कई शहरों में ड्रग्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। नशों में जहर घोलने वाले इस धंधे में कई संफेदपोश भी शामिल हैं, जो पर्दे

के पीछे रहकर मादक पदार्थों की तस्करी कराते हैं। सीआईडी और जिला पुलिस की जांच में अब तक यह बात साफ हो चुकी है कि नशे की तस्करी के लिए नगद से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का प्रयोग किया जाता है। जांच में यह बात सामने आयी है कि नशे के तस्कर 90 प्रतिशत मौके पर पैसे की लेन-देन ऑनलाइन तरीके से ही करते हैं। ऐसे मेंसाफ है कि अगर गहराई से मादक पदार्थों के तस्करों के मनी ट्रेल की जांच की जाए तो इस धंधे में शामिल राज्य के भीतर और बाहर दोनों के ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है। **अकाउंट की जानकारी जुटा रही है पुलिस** : रांची रेंज के डीआईजी

## लोबिन ने अपनी ही पार्टी के सांसद विजय हांसदा के खिलाफ खोला मोर्चा

रांची। बरहट विधानसभा के भोगनाडीह में गुरुवार को झामुमो और विधायक लोबिन हेंब्रम समर्थकों के बीच झड़प की खबर आने के बाद लोबिन ने शुक्रवार को राजमहल सांसद विजय हांसदा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में विजय हांसदा नहीं जीतने वाले हैं। मैं इस सीट से दावेदार हूं, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे इस्तीफा मांगा जा रहा है। भला मैं इस्तीफा क्यों दूं। उन्होंने कहा कि अस्पताल बन गया तो सांसद क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। विजय हांसदा के इशारे पर कार्यकर्ताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। बैनर-पोस्टर को फाड़ दिया गया। लोबिन ने कहा कि प्रशासन का भी रवैया ठीक नहीं था। मालूम हो कि 6 मार्च को भी 300 बेड के अस्पताल के शिलान्यास को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने सरकार और सांसद विजय हांसदा के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। मालूम हो कि लोबिन हेंब्रम सरकार के विरोध में गुरुवार को अन्याय यात्रा निकालने वाले थे। भोगनाडीह से लोबिन हेंब्रम अन्याय यात्रा शुरू करने वाले थे। दोपहर करीब दो बजे लोबिन अपने समर्थकों के साथ भोगनाडीह जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान झामुमो समर्थकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

## झामुमो के डॉ सरफराज अहमद व मुंबई के बिजनेसमैन हरिहर ने खरीदा नामांकन पत्र

# बिजनेसमैन हरिहर महापात्रा के कारण राज्य में रोमांचक हुआ राज्यसभा चुनाव

## भाजपा ने अभी तक उम्मीदवार के नाम की नहीं की है घोषणा

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में डॉ सरफराज अहमद महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र खरीद लिया है। वहीं, भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। वैसे, धन कुबेर हरिहर महापात्रा ने नामांकन पत्र खरीद कर राज्य सभा चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि, महागठबंधन व एनडीए दोनों को एक-एक सीट जीतने के लिये आंकड़े मौजूद हैं। 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 21 मार्च को है। बताया जा रहा है कि महापात्रा किसी राष्ट्रीय दल के समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं।

गौरतलब है कि झारखंड में राज्य सभा चुनाव हमेशा से चर्चित रहा है। यहां हॉर्स ट्रेडिंग भी होता रहा है। पिछले कई चुनाव में यह



दृश्य देखने को मिला है। मालूम हो कि हरिहर महापात्रा मुंबई बेस्ट बिजनेसमैन हैं। स्पाइसजेट कंपनी में उन्होंने 1100 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा है। उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा भी राज्यसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने देश के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल के खिलाफ राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। राज्यसभा चुनाव के लिए 4 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। 11 मार्च तक चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की स्कूटनी की जायेगी। 14 मार्च को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। 23 मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

## राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा झामुमो का प्रतिनिधिमंडल

### सरना धर्म कोड, एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण एवं स्थानीय नीति को लेकर

रांची। झारखंड के महत्वपूर्ण मुद्दों सरना धर्म कोड, एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण एवं 1932 की स्थानीय नीति के विषय को लेकर झामुमो का 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड सरकार के गठबंधन के सभी सांसदों, मंत्री, विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहेंगे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इसको लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और समय देने का अनुरोध किया है।

## राज्यसभा चुनाव 2024 : सरफराज अहमद सोमवार को करेंगे नॉमिनेशन

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। गंडेय विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के पूर्व विधायक सरफराज अहमद को इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना लिया है। सरफराज अहमद 11 मार्च को नॉमिनेशन करेंगे। सरफराज अहमद को इस सीट में जीत हासिल करने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी] क्योंकि जेएमएम के पास 29 विधायक हैं। सरफराज अहमद ने कहा कि सोमवार को नॉमिनेशन करने का आखिरी दिन है, 11 से 3 बजे तक का ही समय है, इसलिए आखिरी दिन 11 मार्च 2024 को ही नॉमिनेशन करेंगे। इसको लेकर सीए को सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि हरिहर महापात्रा भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं।

## राज्य सरकार और इनलैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी के बीच हुआ एमओयू झारखंड में जल्द लगेगा इथेनॉल प्लांट

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। झारखंड में भी इथेनॉल प्लांट जल्द लगेगा। इसे लेकर झारखंड सरकार और इलैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी के बीच शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में एमओयू हुआ। एमओयू कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में पांच स्थानों पर इथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। इसमें पहला प्लांट सितंबर 2024 से उत्पादन कर शुरू कर देगी। सभी प्लांटों के लगने से राज्य में लगभग पांच हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इथेनॉल एक ग्रीन एनर्जी का स्वरूप



हरिहर मुंबई के बिजनेसमैन हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 4 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। 11 मार्च तक चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की स्कूटनी की जाएगी। 14 मार्च को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। अगर जरूरत पड़ी तो इन दो सीटों के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा व उसी दिन शाम को 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। **कांग्रेस से जेएमएम में आए थे सरफराज अहमद** : गौरतलब हो कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-झारखंड मुक्ति

मोर्चा गठबंधन में सीटों के बंटवारे में गंडेय विधानसभा सीट झामुमो के खाते में आई थी। उस समय सरफराज अहमद कांग्रेस में थे। बाद में उन्होंने झामुमो का दामन थाम लिया था। झामुमो ने उन्हें गंडेय से उम्मीदवार बनाया। चुनाव में सरफराज अहमद को जीत मिली थी, सरफराज अहमद पिछले लगभग 50 सालों से राजनीति में हैं और कांग्रेस में रहते हुए कई बड़े पदों पर सेवा दे चुके हैं। **गिरिडीह से भी रह चुके हैं सांसद** सरफराज अहमद अविभाजित बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। सरफराज अहमद के पिता डॉक्टर इम्तिनाज अहमद भी गिरिडीह से सांसद रह चुके हैं। सरफराज अहमद का राजनीति जीवन बेदाग रहा है, कभी भी किसी विवाद में नहीं रहे। वे बहुत ही शांत मिजाज वाले नेता हैं।

## जामताड़ा के साइबर अपराधियों का गैंग रांची में सक्रिय, स्टूडेंट्स बनकर लोगों को ठग रहे

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल अब राजधानी रांची को अपना ठिकाना बना रहे हैं। साइबर फ्रॉड के पैसे से ऑनलाइन मंगा कर विभिन्न दुकानों में बेचने वाले एक साइबर अपराधी को सीआईडी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चार माह पहले ही रांची आया था और यहां पर स्टूडेंट बनकर किराये का मकान लिया। किराये के मकान मिलने के बाद आरोपी घटना को अंजाम दे रहा था।

## पढ़ाई के नाम पर कांटाटोली में रहता था विष्णु कुमार मंडल



पकड़ा गया विष्णु कुमार मंडल कांटाटोली इलाके में रहकर घटना को अंजाम दे रहा था। पढ़ाई के नाम पर जामताड़ा से रांची में किराये का मकान ले रखा था। करीब दो दर्जन जिओ मार्ट और रिलायंस डिजिटल से खरीद रांची के विभिन्न दुकानों में सस्ते दामों में बेचा था। गिरफ्तार आरोपी मूलरूप से जामताड़ा जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र के कुरवा निवासी विष्णु कुमार मंडल है। आरोपी वर्तमान में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के कांटाटोली

स्थित बंगाली कॉलोनी गली नम्बर-5 में रह रहा था। आरोपी के पास से दो आईफोन घटना में प्रयुक्त समेत पांच मोबाइल, दो सिम और कांड से संबंधित डाटा पुलिस ने जब्त कर लिया है।

गौरतलब हो कि एक सप्ताह पूर्व सदर थाना पुलिस ने छह साइबर अपराधियों को कोकर से गिरफ्तार किया था। इधर, सिटी एसपी राजकुमार वैश्या के कहना है कि पुलिस वैश्या साइबर अपराधियों पर निगाह रख रही है।

## हेमंत सोरेन को न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष : झामुमो

### खबर मन्त्र व्यूटे

रांची। रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष उपवास कार्यक्रम झामुमो गुमला जिलाध्यक्ष सह गुमला विधायक भूषण तिकी जी की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें गुमला जिला समिति के साथ रांची जिला अध्यक्ष मुस्ताक आलम के नेतृत्व में रांची जिला समिति शामिल हुई।

मौके पर झामुमो गुमला जिलाध्यक्ष सह गुमला विधायक भूषण तिकी ने कहा कि जब तक हमारे नेता हेमंत सोरेन को इंसाफ नहीं मिल जाता है यह संघर्ष जारी रहेगा। साजिश के तहत हेमंत सोरेन को फंसाया गया है और केंद्र सरकार चाहती है कि साजिश कर



झारखंड को अस्त-व्यस्त कर दें। इस साजिश का नकाब झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ेगा। कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति में आने से कार्यकर्ताओं को बल मिला है। उपवास कार्यक्रम में गुमला जिला से केंद्रीय सदस्य रंजीत सिंह, अमर

टोपो, रांची से केंद्रीय सदस्य समनूर मंसूरी, पवन जेडिया, गुमला जिला उपाध्यक्ष शशि साहू, गुमला जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, रांची जिला सचिव डॉ हेमलाल मेहता, जिला उपाध्यक्ष जनक नायक, अश्विनी शर्मा, वीरू तिकी, गुमला

जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष जर्शाता बारला, अंतु तिकी, लालजी रमण, उपाध्यक्ष मंजू उरांव, रायडीह प्रखंड अध्यक्ष राजेश टोपो, सिसई प्रखंड अध्यक्ष रवि उरांव, रांची जिला प्रवक्ता अरविन्द सिंह देवल, संगठन सचिव आदिल इमाम, महादेव मुंडा, गुमला विधायक प्रतिनिधि प्रकाश उरांव, सिसई विधायक प्रतिनिधि अभिषेक लकड़ा, महिला मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष जॉनसन वांग, काम्यडारा प्रखंड अध्यक्ष विमल केरकेप्ता, बरिया प्रखंड अध्यक्ष मो अजीम जिला, महिला मोर्चा रांची महानगर संगठन सचिव राधा बाउरी, राधा हेंब्रम, सुनिता लिंडा, संयुक्त सचिव अनिमा केरकेप्ता, सोमा लकड़ा,

महताब अंसारी, अबुतालिब अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा रांची जिला उपाध्यक्ष परवेज आलम, सचिव सुजीत कुचुप, कोषाध्यक्ष विलियम रिचर्ड लकड़ा, परिवर्तन नामधारी, राजेश सिंह, क्यूम अंसारी, गुमला बसिया 20 सूत्री उपाध्यक्ष सतीश नायक, युवा मोर्चा रांची जिला संगठन सचिव रमजान रजा, अलबीन लकड़ा, विकास तिकी, धकन जॉन नाम, बिंजामीन, गुमला प्रखंड अध्यक्ष राजेश गोप, दिलीप साहू, रवि कुमार, रांची क्रीड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप मिर्धा, भैया राम, गुमला नगर प्रदीप सिंह, राकेश केरकेट्टा, निकोलस मुंडा, मो मुख्तार, विजय रविदास, राकेश वर्मा, नीरज, ओम शर्मा और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता हुए।

# मिशन-2024 को लेकर झामुमो ने फेंका पासा, स्थानीयता, सरना कोड एवं आरक्षण पर पक्ष रखने के लिए राष्ट्रपति से मांगा समय

### सत्यन्त्र

रांची। मिशन 2024 को लेकर झारखंड सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच शह और माच का खेल लगातार जारी है। इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के पेलान से पहले ही एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ा घटक भाजपा ने राज्य के 14 में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर झारखंड की राजनीति में अपनी बढ़त बना ली है। वहीं सीट शेयरिंग नहीं होने के स्थिति में झारखंड के अंदर झामुमो नेतृत्व की इंडी गठबंधन ने एनडीए को मात देने के लिए दाव खेलना शुरू कर दिया है। इसी के तहत झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के नाम पत्र लिखकर महामहिम से मुलाकात के लिए समय माहया कराने का आग्रह कर लोकसभा चुनाव में अपने मुद्दों के सहारे एनडीए को मात देना चाह रही

है। राष्ट्रपति के नाम भेजे गये पत्र में विनोद पांडेय ने पत्र में लिखा है कि मंत्री, सांसद, सीनियर लीडर्स वाला 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर सरना कोड, एसटी-एससी और ओबीसी रिजर्वेशन के अलावा 1932 के खतिवान पर आधारित स्थानीयता की जरूरत से जुड़ा अपना पक्ष रखना चाहते हैं।

दरअसल, तीनों मसले झारखंड के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 11 नवंबर 2020 को विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराया था। इस प्रस्ताव का मकसद था 2021 की जनगणना फॉर्म में सरना आदिवासी कोड के लिए अलग से कॉलम देना। इसके बावजूद यह मामला आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव के विधानसभा से पारित होने पर खूब जश्न मनाया गया था। तत्कालीन



समय में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और अमर बाउरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि 1961 में इनके शासनकाल में जनगणना के कॉलम में अन्य का विकल्प हटया गया था। इस पहल के ठीक दो साल बाद 15 सितंबर 2022 को तत्कालीन हेमंत केबिनेट ने 1932 के खतिवान पर आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी, एसटी-एसटी के आरक्षण में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी और 11 नवंबर 2022 को सदन से दोनों बिल पारित कराकर एक नई बहस छेड़ दी थी। बीजेपी की दलील थी कि राज्य सरकार खुद नियम बनाने के लिए सक्षम है। दोनों बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजने का मतलब

है सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंकना। तब तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि दोनों बिल कोर्ट में उलझकर रह जाएं। इसलिए 9वीं अनुसूची में शामिल कराना जरूरी है।

ज्ञात हो कि तत्कालीन हेमंत सरकार ने आरक्षण बिल में एससी के लिए 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, एसटी के लिए 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत और ओबीसी की आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसके हिसाब से झारखंड में 77 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि अभी तक झारखंड में एससी को 10 प्रतिशत, एसटी को 26 प्रतिशत, ओबीसी को 14 प्रतिशत और इंडव्यूएस को 10 प्रतिशत यानी कुल 60 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। सदस्य से हेमंत सरकार द्वारा पारित बिल को तत्कालीन राज्यपाल रमेश वैस ने जनवरी 2023 में यह कहकर

1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता से जुड़े बिल को लौटा दिया था कि इसकी गहन समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया था कि यह सचिवालय के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन दिसंबर 2023 में तत्कालीन हेमंत सरकार ने बिना कोई संशोधन के स्थानीयता बिल को दोबारा सदन से पारित कराकर राज्यपाल को भेज दिया।

वहीं वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अप्रैल 2023 में यह कहते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाने से जुड़े बिल को अटार्नी जनरल से लिए गये सुझाव का हवाला देकर लौटा दिया कि इसकी संवैधानिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने की जरूरत है। कई ओबीसी संगठनों ने कहा था कि राज्य में एसटी की आबादी 26 प्रतिशत है। फिर उन्हें 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। वहीं एक

अनुमान का हवाला देते हुए कहा गया था कि ओबीसी की आबादी 54 प्रतिशत से ज्यादा है। इसलिए 27 प्रतिशत के बजाय 27 प्रतिशत में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को बिहार की तरह पहले जातीय आधारित सर्वेक्षण कराकर राज्यपाल को प्रस्ताव भेजना चाहिए था।

फिलहाल यह सवाल उठना लाजमी है कि राज्य सरकार के फाइलों का शोभा बढ़ा रही उपरोक्त तीनों प्रस्ताव पर लोकसभा चुनाव से पहले जनता का ध्यान आकृष्ट करने और एनडीए को राज्य के अंदर मात देने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत झामुमो ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है ताकि तीनों प्रस्ताव पारित नहीं होने की स्थिति में नये सीरे से केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा जा सके। देखा होगा कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद तीनों प्रस्ताव को लेकर साइड इफेक्ट क्या होता है।

## बलिदान दिवस पर याद किये गये तिलेश्वर साहू गरीबों, वंचितों व शोषितों की आवाज थे तिलेश्वर साहू : आशुतोष गोस्वामी



### खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड के लोकप्रिय नेता तिलेश्वर साहू के बलिदान दिवस पर आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान केंद्रीय कार्यालय सचिव आशुतोष गोस्वामी ने कहा कि तिलेश्वर साहू पार्टी जुझारू नेता थे। उन्होंने गरीबों, वंचितों और शोषितों की आवाज बुलंद की। रांची महानगर अध्यक्ष ज्ञान सिन्हा ने कहा कि तिलेश्वर जी की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। आज भले वो जीवित नहीं हैं लेकिन उनके विचार तथा

लोगों की सेवा करने की उनकी सोच सदैव जीवित रहेंगे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से महानगर उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह, गौतम सिंह, सतेंद्र सिंह, राहुल तिवारी, अभिषेक शुक्ला, बीएस महतो, विशाल कुमार यादव, राहुल कुमार, रोहित चौधरी, मनजीत कुमार, अभिषेक साहू, विशाल कुमार यादव, विशाल कुमार गुप्ता, गुंचा कम्मर, निष्ठा अंशु, रूफी प्रवीण, दीपक भोक्ता, अनुज कुमार, सुधांशु कुमार, सचिन सिंह, सौरभ कुमार राम, विकी शर्मा, अनिश कुमार, कुणाल कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहें।





## न्यूज डायरी

**वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी, पहली सूची जारी**  
नयी दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के महेनजर कांग्रेस ने शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से शाशि थरुम और राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को हुई बैठक में कई बड़े नाम तय हो गये थे। पहली सूची में 15 उम्मीदवार सामान्य कैटेगरी से हैं। 24 पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से हैं।

**मथुरा महतो गिरिडीह सीट से लड़ सकते हैं चुनाव**

रांची। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से विधायक मथुरा महतो जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। जल्द ही पार्टी की ओर से इसका औपचारिक एलान किया जायेगा। जेएमएम पार्टी सूत्रों का कहना है कि टुंडी विधायक मथुरा महतो को पार्टी की ओर से ये संदेश दे दिया गया है। पार्टी की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मथुरा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गये हैं। चार मार्च को कल्पना सोरेन के राजनीतिक पारी शुरू करने के वक्त भी मथुरा मंच पर मौजूद थे।

**संदेशखाली में शाहजहां के घर सीबीआई का डेड कोलकाता।** सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक दल पर हमले की जांच के सिलसिले में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर आज शुक्रवार को छापे मारे।

**छह हजार घूस लेते अंचलकर्मी गिरफ्तार**  
रांची। लोहरदगा अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी रामा महतो को एसीबी की टीम ने 6000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी की टीम गिरफ्तारी के बाद उसे रांची ले आयी, जहां पूछताछ की जा रही है। सरोज कुमार नामक व्यक्ति से राजस्व कर्मचारी द्वारा म्यूटेशन का कागजात निकालने के लिए 6000 रु की मांग की गयी थी। सरोज कुमार ने इसकी शिकायत एसीबी से की।

**वाहना आभूषण**

योजना (विकी) : 60,900 रु./10 वाहन  
चंदा : 77,000 रु./प्रति किलो

**तीसरी आंख**

अभी तो मैं किसी पार्टी का टिकट खरीदने की फिराक में हूँ, जीत गया तो कोई मुझे खरीद लेगा समझे।



अबकी बार 400 पार, ये 140 करोड़ भारतीयों की गारंटी है : मोदी मैथिली टाकुर को अवार्ड दे कर बोले आपमें अदम्य क्षमता है

## एजेंसी

नयी दिल्ली। पीएम मोदीने शुक्रवार को यहाँ भारत मंडपम में आयोजित एक सम्मान समारोह में देश के कई युवाओं को 'नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड' से किया सम्मानित। इनमें बिहार की चर्चित लोकगायिका मैथिली टाकुर, कहानीकार कीर्तिका गोविंदसाम्मी और कथावाचक जया किशोरी समेत कई हस्तियां शामिल हैं। भारत मंडपम में मौजूद लोगों ने अबकी बार 400 पार का जमकर नारा लगाया। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि यह मोदी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की गारंटी है। (शेष 11पृ)

**श्री शिव बारात में शामिल सीएम ने बाबा से की सुख-समृद्धि की कामना, कहा पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी सरकार**

## खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। बाबा की पूजा-अर्चना कर उन्होंने पहाड़ी बाबा से झारखंडवासियों की सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को उनकी सरकार संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर को देश में अलग पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जायेगा। महाशिवरात्रि पर उमड़ी भारी भीड़ को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये थे। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। रांची समेत देवघर बाबा मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर समेत राज्य के तमाम शिवालयों में भारी भीड़



**शिवबारात में उमड़े भक्त:** पहाड़ी मंदिर श्री शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से 21वें वर्ष में भव्य और विशाल शिव बारात निकाली। दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री श्री सोरेन पहाड़ी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की आरती उतारी। इसके बाद पहाड़ी मंदिर से शिव बारात निकली। बारात में बड़ी संख्या में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के भक्त झूमते-नाचते हुए चल रहे थे। नगर भ्रमण के बाद शिव-पार्वती का सनातनी विधि विधान से रात्रि में विवाह संपन्न हुआ।

उमड़ी और देर रात बाबा के शादी बाबा भोलेनेथ और मां पार्वती का समारोह में भाग ले कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। (शेष 11 पृ)

**कहीं उड़ायी प्लाइट तो कहीं ट्रेन की कमान संभाली**

## खबर मन्त्र संवाददाता

रांची, पटना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नारीशक्ति की प्रतिभा को सलाम और सम्मान दिया गया, ताकि उनके बढ़ते हौसले और मजबूत हो। शुक्रवार को चुमसे डे के मौके पर कहीं महिलाओं ने आकाश में उड़ान भरी तो कहीं ट्रेन की रफ्तार की बागडोर समेत पूरे परिचालन का जिम्मा अपने हाथों में लिया। इस मौके पर महिला पायलट और उनकी चुमना टिम ने पटना से विमान उड़ाकर यात्रियों को गुवाहाटी तक पहुंचाया। वहीं रांची रेल मंडल की ओर से महिला स्पेशल ट्रेनी कमान संभालते हुए महिलाओं ने इसे रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी तक रखा। इस ट्रेन में तैनात टीटी, गार्ड, ड्राइवर और सुरक्षा के लिए आरपीएफ सभी महिलाएं थीं। वहीं समस्तीपुर रेल मंडल की सारी जिम्मेदारी आधी

**महिला दिवस पर नारी शक्ति का जलवा**

**पटना से गुवाहाटी ऑल वूमन उड़ान:** स्पाइस जेट की विमान की महिला पायलट कंचन रविता मन्नु और को पायलट केटन गरिमा नेगी ने उड़ाया। महिला दिवस को लेकर विमान के कैबिन क्रू में भी सभी महिला सदस्य मौजूद रहें। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के नर्तक संयद हसन के अनुसार हर साल महिला दिवस के अवसर पर स्पाइसजेट अपने महिला पायलट से ही विमान को संचालित कराता है। विमान में यात्रियों की संख्या 189 थी और यह विमान दिन में 2-30 बजे पर पटना एयरपोर्ट से उड़ा और सकुशल गुवाहाटी उत्तरा।

आबादी के कंधों पर रही। रांची से टोरी ले जा रही लोको पायलट दीपाली अमृत ने कहा कि आज महिलाएं समाज में 50 फीसदी हिस्सेदारी के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। आज अगर महिलाएं

**झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 को**

रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक 12 मार्च की शाम चार बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 12 मार्च को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।

**राष्ट्रपति महिलाओं को दी बधाई**

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि महिला दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। यह नारी शक्ति का जश्न मनाने का अवसर है। किसी समाज का विकास उसकी महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापा जाता है। भारत की बेटियां खेल से लेकर विज्ञान तक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही हैं।

**कल्पना सोरेन को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा**

## खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड पुलिस की विशेष शाखा में शुक्रवार को राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति की बैठक के दौरान झारखंड के विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तियों के आसन खतरे की समीक्षा की गयी। समीक्षा के बाद जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स कैटेगरी में सुरक्षा में सभी लोगों को रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी राजनीति में कदम रख चुकी

**देश की गारंटी अबकी 400 पार :** महाशिवरात्रि और महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने 'अबकी बार 400 पार' का जमकर नारा लगाया। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा कि यह मोदी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की गारंटी है। उन्होंने पहले कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताचढ़ माजपा को 370 सीटें मिलनी और राजन की सीटें 400 के पार जायेगी। पीएम मोदी ने समारोह में कहा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगली शिवरात्रि पर, शायद किसी और तारीख पर, मैं ही ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता करूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि आप सब मेरे परिवार हैं, 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार हैं।

**मेरी सुनकर सब थक जाते हैं, आप ही सुनाइये**  
बिहार की बेटी मैथिली टाकुर 'नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड' देते हुए पीएम मोदी ने कहा, परमात्मा ने आपको अद्भुत प्रतिभा दी। मैथिली टाकुर को कवचल एबेसडर ऑफ द ईथर अवार्ड से नवाजा गया। पीएम ने मंच पर मैथिली टाकुर को सम्मानित किया और उनकी जमकर प्रशंसा की। अवार्ड देने के दौरान पीएम मोदी ने कहा मैथिली नमस्ते, आज कुछ सुनाई दो औरों को, क्योंकि लोग मेरा सुनसुन कर थक जाते हैं। तभी मैथिली कहती हैं- बिल्कुल सर। फिर मोदी कहते हैं... अच्छा! थक जाते हैं ना। ये सुनकर वहां मौजूद लोग टहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। अवार्ड लेने के बाद मैथिली ने शिव भजन भी सुनाया। 'डिमिक डिमिक डमरु कर बाजे...। इस दौरान मैथिली ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली।

**ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण जरूरी**

इससे पूर्व वहां श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना कर हम सब महाशिवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। उनकी सरकार रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर को देश में अलग पहचान दिया जायेगा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किये जायेंगे। सीएम ने पहाड़ी मंदिर परिक्षेत्र के विकास करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अति प्राचीन और पुरपुरी हो चुकी पहाड़ी को बचाये रखने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कैसे पहाड़ी को चोटी पर विराजमान बाबा भोलेनाथ का दर्शन-पूजन करने के लिए 300 से अधिक सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है।

**झारखंड से ओड़िशा जा रही बारातियों से भरी गाड़ी पलटी****तीन की मौत, संख्या अधिक होने की आशंका**

## खबर मन्त्र संवाददाता

**गोईलकेरा।** झारखंड से ओड़िशा जा रही बारातियों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गयी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतकों की संख्या आठ से भी अधिक है। दुर्घटना ओड़िशा के लाठीकाटा इलाके में हुई है। दुर्घटना में घायल कई अन्य लोगों को राउरकेला के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि वाहन चालक शराब पीने के बाद काफी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था।

**लाठीकाटा जा रही थी बारात**

बारात पश्चिमी सिंहभूम के गोईलकेरा स्थित वन पोसेता के गोरोई सरदार के बेटे गणेश सरदार की बारात गुरुवार की रात लाठीकाटा के लिए निकली थी। रास्ते में पिकअप के पलट जाने से उसमें सवार कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी। वन पोसेता झारखंड में है, जबकि जिस जगह दुर्घटना हुई, वह लाठीकाटा इलाका ओड़िशा में पड़ता है। पिकअप में करीब लोग 15 बाराती लोग सवार थे। कुछ छोटे चारपहिया वाहन भी थे। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। ज्यादातर लोगों के सिर में चोट लगी है।

रास्ते में एक जग रूकने पर चालक ने शराब पी ली। इसके बाद जल्दी पहुंचाने के लिए उसने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। एक मोड़ पर गाड़ी मोड़ने के लिए दौड़ान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वाहन पलट गया।

**आभार जमशेदपुर****आस्था का महारसगम**

इस पावन अवसर पर बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी सोनारी दोमुहानी संगम स्थल पर स्वर्णरेखा महाआरती-2024 में सपरिवार उपस्थित होकर सफल बनाने के लिए आप सभी स्नेही जनों का हम आभार व्यक्त करते हैं।



## आपका स्नेही

**बन्ना गुप्ता**

विधायक, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र एवं, मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन, झारखंड सरकार।

## अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसान खेत दिवस का आयोजन



### खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वनस्पति, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के तत्वावधान में केंद्रीय एकिकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र, रांची द्वारा लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड अंतर्गत खांडा ग्राम में चलाए जा रहे 14 साप्ताहिक किसान खेत पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम रबी का समापन किया गया, जिसमें शत प्रतिशत महिला किसानों की भागीदारी रही। समापन कार्यक्रम के अवसर पर किसान खेत दिवस का आयोजन किया गया एवं केंद्र की प्रशिक्षिका प्यारी संगी, सहायक पौध संरक्षण अधिकारी ने सभी महिला प्रशिक्षु किसानों का उत्साहवर्धन किया गया एवं प्रशिक्षण के दौरान सिखाए गए सभी तकनीकों को अपनाकर स्वस्थ खेती अपनाने का आग्रह किया

गया। विगत चौदह सप्ताह से केंद्र के प्रशिक्षकों द्वारा ग्राम के 35 किसानों को उनके फसलों में लगने वाले कीट-रोग की पहचान कर उनके द्वारा फसलों में हानि का स्तर स्वयं पता लगाकर उससे विभिन्न आईपीएम तकनीक अपनाकर नियंत्रण करना, मित्र कीटों की पहचान कर उन्हें अपने खेतों में संरक्षित करना, फसल की स्वस्थ रखने हेतु बीजोपचार करना, रसायनों का उचित मात्रा में उपयोग एवं रसायन उपयोग करते समय की जाने वाली सावधानियां आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया और साथी किसान बंधुओं तक आई.पी.एम. तकनीक को साझा करने के बारे में बताया गया। सभी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हुए तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित होने पर प्रसन्नता जाहिर किया।

### एचडीसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति को आखिल झारखंड श्रमिक संघ ने समर्थन दिया

रांची। एचडीसी मुख्यालय के समक्ष पिछले 51 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे एचडीसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति को आजसू पार्टी के मजदूर संगठन आखिल झारखंड श्रमिक संघ ने समर्थन दिया। आजसू पार्टी के केन्द्रीय संगठन सचिव एस अली ने कहा कि श्रमिक कि लड़ाई केवल बकाया वेतन और ठेका श्रमिकों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने की नहीं है देश को सुपर पावर बनाने में एचडीसी का बड़ा योगदान है। भारत के गौरव एचडीसी का संचालन को फिर से सुचारु रूप हो इसके लिए मजदूरों की जायज मांग पर सरकार और प्रबंधन आपसी तालमेल बनाकर विचार करें। एस अली ने एचडीसी के मामले पर झारखंड सरकार की रैथेय पर भी सवाल खड़ा किया साथ ही खाली पड़े जमीनों को रैथेयों को वापस करने? के बजाए प्रबंधन द्वारा बेचने को असंवैधानिक व नियमविरुद्ध करार देते हुए एचडीसी श्रमिकों का

## सकुलर रोड में खुला चाय सुट्टा बार का नया आउटलेट



रांची। सकुलर रोड अप्सरा होटल के सामने रोहिणी कॉलेक्स में शुक्रवार को चाय सुट्टा बार का उद्घाटन सांसद संजय सेठ ओरनर रंजन सिंह की बेटी शनाया सिंह ने रीबन काट कर किया। मौके पर प्रियदर्शनी सिंह, बहन अनीता सिंह और परिवार के लोग उपस्थित थे। ओरनर रंजन सिंह ने बताया कि हमारे यहां चाय-काफी की बड़ी रेंज रखी गई है। जिसके नाम भी कॉकटेल की तर्ज पर रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे यहां नैक्स और फूड आइटम की भी अलग-अलग रेंज उपलब्ध है। चाय के प्रेमियों के लिए चाय की वैरायटी रखी गई है। ये चाय लोगों को कुल्हड़ में परोसे जाएंगे। जबकि कॉलेक्स में वोडका कोल्ड कॉफी, स्कॉच कोल्ड कॉफी जैसी कई वैरायटी अवैलेबल है। इसके अलावा चाइनीज, बेकरी, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, मोमोज की भी बहुत सारी किस्में हमारे आउटलेट में हैं। मौके पर जया सिंह के अलावा परिवार के सदस्य व अन्य मौजूद थे।

## गांधी शिल्प बाजार में पसंद किये जा रहे डोकरा और सिल्क आर्ट के उत्पाद

### खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। गांधी शिल्प मेला, डीएवी कपिल देव मैदान में दस दिवसीय शिल्प मेले में जयपुरी जूती, चूड़ियाँ तथा शिल्प आर्ट और डोकरा आर्ट की वस्तुओं को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। यहाँ मेले में सम्पूर्ण भारतवर्ष के हस्तशिल्प, हैण्डी क्राफ्ट तथा विशेषकर झारखण्ड के उत्पादों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। मेले में जूट के सामान, राजस्थानी जूती, साउथ इण्डियन डिजाईनर साड़ियाँ, शांति निकेतन के बैग, जयपुरी चूड़ियाँ, असम के पारम्परिक परिधान महिलाओं के लिए तसर शिल्प की साड़ियाँ और सलवार कुर्ती आदि मिल रहे हैं। असम के उत्पादों को भी काफी ख्याति प्राप्त हो रही है।



इस मेले में सम्पूर्ण भारत के 100 स्टॉल उपलब्ध है जो 10 मार्च तक रहेंगे। मेले को राँची स्थित छोटानापुर क्राफ्ट डेवलपमेंट

## रांची प्रेस क्लब में महिला दिवस समारोह में झासा अध्यक्ष ने कहा

# यह नीला आकाश हमारा है

### क्लब में महिला दिवस पर लगाया गया तीन दिवसीय बसंत मेला और रक्तदान शिविर

### खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। दुनिया में कुछ ही असंभव नहीं है। यदि हम निश्छल व्यवहार करें, तो सबकुछ पा सकते हैं। यह कहना है झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की पहली महिला अध्यक्ष रंजीता हेम्वस का। वे आज रांची प्रेस में आयोजित महिला दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह नीला आकाश हमारे लिए है, जैसे चाहें उड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं है बल्कि पूरक हैं। उनके साथ मिलकर हम बेहतर समाज बना सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने महिला पत्रकारों को पत्रकारिता के मानवीय मुल्यों पर जोर देने की सलाह दी। कार्यक्रम



में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं से महिलाओं को रूबरू करते हुए उन्हें हर मोर्चे पर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि पुलिस में वरिष्ठ पदों पर रहते हुए कैसे उन्होंने अपने पारिवारिक, सामाजिक और प्रोफेशनल दायित्वों का बखूबी निर्वाहन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई हाइकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रिचा सर्चित ने बताया कि महिलाओं को सशक्त होना होगा। उन्होंने बताया कि जब वे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। उस वक्त 15-20 महिला अधिवक्ता थीं, जबकि आज 500

से अधिक है। उन्होंने कहा कि हमें अपना मुकाम खुद तैयार करना होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ. मृणालिनी ने बताया कि महिलाओं की शत्रु महिलाएं ही हैं। उन्होंने बताया कि जब वे लेबर रूम से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि बाहर मां खड़ी हैं सास। मां पूछती है कि बेटी कैसी है और सास पोते का हाल पूछती हैं। उन्होंने कहा कि समय बहुत तेजी से बदला है, लेकिन अभी भी महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। इस अवसर पर वरिष्ठ महिला पत्रकार अनुपमा सिंह, शोला कुमारी और रजनीश सहित राजधानी में कार्यरत महिला

पत्रकारों को प्रेस क्लब की ओर से पौधा और मोमेटो देकर सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर प्रेस क्लब में पहली बार लगाये गये तीन दिवसीय बसंत मेला का उद्घाटन अतिथियों द्वारा किया गया। मेले में कुल 32 स्टॉल लगे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, चश्में, आभूषण, पेंटिंग, खिलौने और खाने के अलग अलग स्टॉल लगे हैं। इस अवसर पर प्रेस क्लब ने रक्तदान शिविर का आयोजन हेल्थ व्वाइंट हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। शिविर में वरिष्ठ पत्रकार विजयकांत पाठक ने अपना 50 वां रक्तदान किया। मौके पर प्रेस क्लब के कई मेंबर्स उपस्थित थे।

## सीसीएल में मना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

### खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सीसीएल मुख्यालय, रांची सहित क्षेत्रों में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के उत्सव का थीम इन्वेस्ट इन वीमेन एम्पावरमेंट : एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस है। वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विपस), सीसीएल द्वारा अवसर विशेष पर सीसीएल मुख्यालय के कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सीसीएल के सीएमडी डॉ. बी. वीरा रेड्डी ने महिला दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर भी जोर दिया।



सिस्टर निर्मला ने अपने सम्बोधन में सभी महिलाओं को आध्यात्मिक होने की सलाह दी और बोलीं कि बाहर की खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि

प्रतिदिन योगा और ध्यान करनी चाहिए। जस्टिस रंजना अस्थाना ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज के परिवेश में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं की कोई कमी नहीं है जिन्होंने खुद को साबित करने के लिए कठिन वाधाओं को पार किया है। ईडी, आईआईसीएम, कामाक्षी रमन ने अपने सम्बोधन में कहा कि महिलाओं को हर समय अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और प्रतिदिन कुछ नया सिखने के लिए अपने आप को समय देना चाहिए। कर्नल श्रद्धा अपने सम्बोधन में उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में विस्तार में बताईं।

## सकुलर रोड में खुला चाय सुट्टा बार का नया आउटलेट



रांची। सकुलर रोड अप्सरा होटल के सामने रोहिणी कॉलेक्स में शुक्रवार को चाय सुट्टा बार का उद्घाटन सांसद संजय सेठ ओरनर रंजन सिंह की बेटी शनाया सिंह ने रीबन काट कर किया। मौके पर प्रियदर्शनी सिंह, बहन अनीता सिंह और परिवार के लोग उपस्थित थे। ओरनर रंजन सिंह ने बताया कि हमारे यहां चाय-काफी की बड़ी रेंज रखी गई है। जिसके नाम भी कॉकटेल की तर्ज पर रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे यहां नैक्स और फूड आइटम की भी अलग-अलग रेंज उपलब्ध है। चाय के प्रेमियों के लिए चाय की वैरायटी रखी गई है। ये चाय लोगों को कुल्हड़ में परोसे जाएंगे। जबकि कॉलेक्स में वोडका कोल्ड कॉफी, स्कॉच कोल्ड कॉफी जैसी कई वैरायटी अवैलेबल है। इसके अलावा चाइनीज, बेकरी, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, मोमोज की भी बहुत सारी किस्में हमारे आउटलेट में हैं। मौके पर जया सिंह के अलावा परिवार के सदस्य व अन्य मौजूद थे।

## वीपी शंट माइग्रेशन के साथ दुर्लभ इंसीजनल हर्निया का पारस हॉस्पिटल में किया सफल इलाज

### खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। एचडीसी के पारस अस्पताल के डॉक्टरों ने वीपी शंट माइग्रेशन के साथ दुर्लभ इंसीजनल हर्निया का सफल ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। 50 साल की एक महिला मरीज दाहिने पेट में गंभीर दर्द और सूजन की शिकायत लेकर पारस अस्पताल पहुंची थी। पारस के डॉक्टरों ने महिला को अस्पताल में एडमिट कर उनका इलाज शुरू किया। जर्च में पाया कि बड़े आकार की सिस्टिक सूजन 15 सेमी 15 सेमी, दाहिने पेट क्षेत्र में थी छोटी सिस्टिक सूजन थी। जिसका डॉक्टरों ने पूरे पेट का सीटी स्कैन कराया, जिसमें पाया कि बड़े आकार का ब्रेन का पानी सिस्ट के रूप में जमा है ब्रेन का पानी को संत कर एक नली के द्वारा पेट के अंदर है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर संजय कुमार एवं डॉक्टर पैट्रिक मिज ने



इस शंट के नली को दुरुस्त कर, पेट के अंदर दूरबीन के मदद से डाला एवं सिस्ट को काट कर निकाला। डॉक्टर मेजर रमेश दास एवं डॉक्टर ओमप्रकाश, मिनिमली इंवेसिव लोप्रोस्कोपिक सर्जन की टिम ने दूरबीन के द्वारा बड़े से हर्निया का ऑपरेट कर मेस डाल कर रिपैर कि या। इसे टीम सहयोग से, एक ही बेहोशी में, सभी विभाग के विशेषज्ञ के मौजूद रहने के कारण, यह संभव हो पाया, तथा मरीज को जल्द राहत और कम खर्च में अस्पताल से छुपती दे पना

संभव हो पाया। पारस एचडीसी अस्पताल के फैंसिलिटी डायरेक्टर डॉ नीतेश कुमार ने बताया की पारस एचडीसी अस्पताल में मरीजों का विशेष ख्याल रखा जाता है। मरीजों की स्थिति के अनुसार हमारी टीम उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। हमें गर्व है कि हमारे पास बेस्ट डॉक्टरों और चिकित्सा सुविधा हैं जो की मरीज और बीमारी के देख कर जरूरत के अनुसार अपना सामन्जस्य बना का मरीज को ठीक करने में सहयोग करते हैं।

## तिलेश्वर साहु तेली समाज के आन, बान, शान थे : साहु

रांची। झारखण्ड प्रदेश तेली समाज युवा मोर्चा के द्वारा झारखण्ड राज्य के राजधानी रांची के मोराबादी परिसर में शुक्रवार को झारखण्ड राज्य प्रदूषण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शहीद तिलेश्वर साहु के 10वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर बारी-बारी से सभी नौजवान युवाओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर झारखण्ड प्रदेश तेली समाज के प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉ सुबास साहु ने इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहे कि शहीद तिलेश्वर साहु तेली समाज के आन बान और शान थे। शेर दिल इंसान के साथ ही साथ व्यक्तित्व के भी धनी इंसान थे। तेली समाज को इनके व्यक्तित्व पर गर्व है। समाज के प्रति उनका जुझारूपन से ही वे पूरे झारखण्ड के समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखण्ड प्रदेश तेली समाज नाम का सामाजिक संगठन बनाये थे। समाज के हक, अधिकार व समाज के विकास के अंधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनका पुत्र अरुण साहु ने बीड़ा उठाया है।

### खबर एक नजर में

### निर्मला कॉन्वेंट में फैसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन



रांची। निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल में शुक्रवार को महाशिवरात्रि के मौके पर शंकर तथा मां पार्वती के जीवनी के ऊपर फैसी ड्रेस एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी छात्राओं ने बढ-चढकर हिस्सा लिया। विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों में अपनी संस्कृति तथा भगवान शंकर एवं माता पार्वती के महान त्याग और तप के बारे में जानने का मौका मिलता है। मौके पर विद्यालय की सेंट्रेटी सीमा शर्मा, शिक्षक आशुतोष कुमार, शिवानी कुमारी, गीता कुमारी, निधि कुमारी मौजूद थीं।

### यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मना महिला दिवस

रांची। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रांची ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में 'इम्पावर हर' के अंतर्गत विविध गतिविधियों का आयोजन किया। शुक्रवार को पिकथोन के पत बुधवार को रांची के विभिन्न स्थानों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यूनियन बैंक की महिला यूनियनाइट्स, परिवार की महिलाओं एवं यूनियन बैंक के ग्राहकों के लिए महिला संगोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूनियन बैंक को इंडिया के उप महाप्रबंधक विजय कुमार राय, उप-अंचल प्रमुख आलोक कुमार, उप-अंचल प्रमुख, सोनालिका, क्षेत्र प्रमुख, सुनीता यादव, सहायक महाप्रबंधक, चारु सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक, दीपमाला लकड़ा, सहायक महाप्रबंधक भी शामिल हुए। अभिनंदन समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया।

### राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बैंक ऑफ इंडिया को मिला पुरस्कार



रांची। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 'क' क्षेत्र के बैंक श्रेणी में संघ सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक ऑफ इंडिया राँची आंचलिक कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 8 मार्च को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में आयोजित एक दिवसीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के ने बैंक ऑफ इंडिया राँची अंचल के आंचलिक प्रबंधक संजीव कुमार सिंह को शील्ड प्रदान कर तथा प्रबंधक (राजभाषा) राजेश यादव को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। बताते चलें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी बैंक ऑफ इंडिया राँची अंचल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

### बरियातू क्षत्रिय परिवार का होली मिलन 23 को



रांची। बरियातू क्षत्रिय परिवार की ओर से 23 मार्च को क्षत्रिय परिवार मिलन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को संगठन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए क्षत्रिय परिवार बरियातू के अध्यक्ष शिवजी सिंह परमा ने बताया कि इस मिलन समारोह में रांची जिला के सभी क्षत्रिय परिवार भाग लेंगे। आने वाले दिनों में इसे राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

### उड़ान ने 2023 में अरबों उत्पादों की शिपिंग की

रांची। भारत के सबसे बड़े ई बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म 'उड़ान' ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने कैलेंडर वर्ष 2023 में 2.3 करोड़ से अधिक ऑर्डर्स की आपूर्ति करते हुये अरबों की उत्पादों की शिपिंग की है। इन ऑर्डर्स को भारत के सभी राज्यों में शिप किया गया। आवश्यक वस्तुओं की कैटेगरी के अंतर्गत प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ ऑर्डर्स पूरे किये। लगभग कई लाख टन से अधिक उत्पादों को भेजा गया। उड़ान प्लेटफॉर्म पर 900 विक्रेताओं में से हर एक ने 1 करोड़ रुपये की विक्री हासिल की। जबकि 600 विक्रेताओं ने प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया। उड़ान छोटे रिटेल विक्रेताओं और किराना दुकानदारों के बीच भुगतान के डिजिटलीकरण को भी प्रोत्साहित कर रहा है। उड़ान के को-फाउंडर एवं सीईओ वैभव गुप्ता ने कहा कि उड़ान भारत के छोटे व्यवसायों को सशक्त करने के अपने मूल दर्शन को लेकर प्रतिबद्ध है। बदले में यह व्यवसाय टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर जन.साधारण के बाजार को सेवा देते हैं।

### महाशिवरात्रि पर संकीर्तन का आयोजन

रांची। महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार को एचडीसी धुवां में शिव शिष्य हरिन्धानन फाउंडेशन में संकीर्तन का आयोजन किया। मौके पर नि.शुल्क विजित्सा जांच शिविर लगाया गया। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग पाँच हजार शिव शिष्य/शिष्याएं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी कन्हैया सिंह ने दिया।

## झारखंड एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट-2024 का क्वार्टर फाइनल संपन्न

### खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। झारखंड अधिवक्ता मंच रांची के तत्वावधान में झारखंड एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 के तीसरे दिन का उद्घाटन अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार ने किया। जिसमें पहला क्वार्टर फाइनल मैच एवेंजर क्रिकेट क्लब बनाम गर्ग एसोसिएटेस्ट रांची के बीच हुआ। जिसमें एवेंजर क्रिकेट क्लब ने मैच को 8 विकेट से विजय प्राप्त की। वहीं दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच केदार साहू शैलेश सिंह एंड एसोसिएट और कालाकोट 11 के बीच हुआ। जिसमें केदार साहू शैलेश सिंह एंड एसोसिएट को टीम 6 रन से विजय प्राप्त की, वहीं तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच झारखंड हाईकोर्ट एवं



गुमला जिला बार एसोसिएशन के साथ हुआ। जिसमें झारखंड हाई कोर्ट 15 रनों से मैच जीत गई। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच आरडीबीए बनाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के बीच हुआ। जिसमें इंडियन एसोसिएशन का लॉयर्स ने 9 विकेट से जीत प्राप्त की। क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य आयोजक के रूप में रविंद्र कुमार, ज्योति आनंद, मुकेश केसरी,

अरविंद कुमार मिश्र, विनोद सिंह, वीरेंद्र प्रताप, मनीष कुमार, शैलेंद्र कुमार साहू, झारखंड नागरिक परिषद के अध्यक्ष उत्तम कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता केदार साहू, रोहण ठाकुर, विक्रमादित्य राय, बंदिश कुमार, प्रशांत कुशवाहा, सचिन कुमार, नीरज कुमार, सर्वकांत यादव, रवि कुमार रामकिशोर भगत, अरविंद कुमार मिश्र, अश्विनी कुमार, नीरज कुमार, अजय यादव शामिल थे।



# सांसों की माला पे सिमरु में शिव का नाम...



राजधानी में धूमधाम से मना महाशिवरात्रि का त्योहार, निकाली गयी आकर्षक झांकी



## एसएसपी ने पत्नी के साथ की भगवान शिव की पूजा

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। महाशिवरात्रि के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे पुलिस अधिकारी ने भी भगवान शिव की आराधना की। रांची पुलिस लाइन में एसएसपी चंदन सिन्हा ने अपनी पत्नी के साथ महादेव और माता पार्वती की पूजा की। महाशिवरात्रि के दौरान जो भी व्यक्ति रांची के एसएसपी के पद पर होता है, उसका पूरा परिवार हर साल इस पूजा में शामिल होता है। इस साल भी एसएसपी चंदन सिन्हा ने अपने परिवार के साथ शिव-



शक्ति की पूजा की।

एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्होंने भगवान शिव से पूरे राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की है। एसएसपी ने पुलिस परिवार समेत सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी।

## सुरक्षा में 800 जवान तैनात



एसएसपी ने बताया कि राजधानी के सभी शिव मंदिरों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये गये थे। महाशिवरात्रि की रात भी पुलिस को पूरी तरह अलर्ट के मूड में दिखा। करीब 800 जवानों को शहर की सुरक्षा की कमान थमायी गयी थी। सोशल मीडिया और अन्य स्थानों पर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 89877 90674 भी जारी किया था।

## कई संगठनों ने शिव बारात का किया स्वागत

रांची। स्व अन्नपूर्णा सेवा संस्था, छात्र युवक संघ गाड़ीखाना, शक्ति श्रोत संघ, जालान रोड व्यवसायी संघ, दुर्गा मंदिर भारतीय युवक संघ बकरी बाजार, राजस्थान मित्र मंडल, शास्त्री मार्केट एसोसिएशन, केंद्रीय सरना समिति एवं चडरी सरना समिति, त्रिकोण हवन कूंड सुभाष चौक, शिव बारात स्वागत समिति, ज्योति संगम आदि संगठनों ने शिविर लगाया।

## केंद्रीय सरना समिति ने लगाया शिविर



रांची। केंद्रीय सरना समिति एवं चडरी सरना समिति ने शिव रात्रि के अवसर पर शिव बारात में सभी शिव भक्तों को पानी पिलाकर, फुल माला पहनाकर, एवं चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि देवों के देव महादेव के विवाह के दिन पूरा आदिवासी समाज महादेव की भक्ति में लीन है। महादेव के बिना आदिवासी समाज अधूरा है। मौके पर सुरेंद्र लिंडा, कुमोद कुमार वर्मा, सबलू मुंडा, सागर भगत, विक्की मुंडा, सबलू खान, राजेश मुंडा, ओम वर्मा, रवि वर्मा आदि उपस्थित थे।

## भारत स्काउट और गाइड ने अपनी सेवा दी



रांची। पहाड़ी शिव मंदिर में भारत स्काउट और गाइड ने छात्रों ने श्रद्धालुओं के सहायताथ प्रातः 6.30 बजे से अपनी सेवा दी। दिलिप कुमार, जिला संगठन आयुक्त के नेतृत्व में लगभग 50 स्काउट-गाइड श्रद्धालुओं के मदद के लिए तैयार रहे। इन्होंने प्लास्टिक उपयोग न करने के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया। सेवा शिविर का उद्घाटन समीर कुमार चौधरी ने किया। मौके पर डॉ. श्रीमोहन सिंह, दीपक कुमार, राम रतन मौजूद थे।

# मिशन 2024 : कांग्रेस पार्टी केंद्र में आयी तो रोजगार की होगी पक्की गारंटी, युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख नौकरियों का होगा सृजन

खबर मन्त्र व्यूरो

रांची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों को विश्वास दिलाया है, कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है, तो रोजगार का सृजन करेगी। वहीं राहुल गांधी के इस वादे पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी एक चिंतनीय मुद्दा बन कर सामने आयी है। इसे देखते हुए अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है, तो हमारे नेता राहुल गांधी ने देश में रोजगार उत्पन्न करने और रोजगार की गारंटी देने के लिए भारत जोड़ो न्याय



## सत्ता में आने पर 30 लाख पद सृजित किये जायेंगे

भर्ती भरोसा- इसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किये जायेंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली हैं तथा शिक्षा स्वास्थ्य आर्मी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी अन्य पद खाली हैं। नई नौकरियां भी सृजित करेंगे। जिसे हम चुनावी घोषणा पत्र में रेखांकित करेंगे। पहली नौकरी पक्की- 25 वर्ष तक के प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमा धारी को अप्रेंटिसशिप के अधिकार के तहत निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों में प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये पारिश्रमिक भत्ता दिया जायेगा।

यात्रा के तहत बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित रैली में

## हमारी सरकार पेपर लीक से हमेशा के लिए दिलायेगी मुक्ति

एक सर्वे के अनुसार देश के 15 राज्यों में 41 पेपर लीक पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए हैं। जिसने 1.5 करोड़ (डेढ़ करोड़) आवेदकों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। पेपर

लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाया जायेगा। इसके लिए हमने झारखंड में भी कानून बनाया है।

## बेहतर कार्य प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए नये कानून बनेंगे

गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकोनॉमी के तहत गिग वर्कर्स को बेहतर कार्य प्रणाली एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। एनसीईएआर के डाटा के अनुसार 2019 से 2022 के बीच गिग वर्कर्स अन्य श्रमिकों की तुलना में कम कमाते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए 2023 में जो कानून पारित किया है,

उसे लागू करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 लाख का जीवन बीमा एवं 2 लाख का दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस ने तेलंगाना में राजीव आरोग्यश्री योजना के तहत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा एवं 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का वादा किया है जिसे पूरा करेंगे। युवा रोशनी- इसके तहत 5000 करोड़ का कॉर्पस फंड

## अब शोल्डर लाइट लगायेंगे ट्रैफिक पुलिस के जवान

रांची। रांची के ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को शोल्डर लाइट का वितरित किया गया है। शाम में ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को यह लाइट लगाने का निर्देश दिया गया है। जवान अब अंधेरी रात में भी दूर से नजर आएंगे। शोल्डर लाइट लगने से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को रात में ड्यूटी करने में आसानी होगी और वे दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। साथ ही साथ गलत तरीके से वाहन चलानेवाले पर भी शिकंजा कसेगा।

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। राजधानी में महाशिवरात्रि पर्व पर शुक्रवार को सुबह 5 बजे से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ की पूजा की। शहर के पहाड़ी मंदिर, सुरेश्वर महादेव मंदिर सहित कोकर, लालपुर, बरियातु, मोराबादी के मंदिरों में भी भक्तों का ताता लगा रहा। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक, दूध, बेलपत्र, फूल, धतूरा आदि चढ़ाकर महादेव की पूजा की। पहाड़ी मंदिर में बारात के पूर्व भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं

ने भोले बाबा का दर्शन किया। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सचिव राकेश सिन्हा ने बताया कि पहाड़ी मंदिर का पट सुबह 3.30 बजे सरकारी पूजा के बाद खोल दिया गया। महिलाओं व पुरुषों ने कतारबद्ध होकर पहाड़ी बाबा की पूजा-अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए अरघा की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर शहर के कई जगहों से शिव बारात निकाली गई। शिव बारात का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शिव बारात में शामिल लोगों के लिए जगह-जगह भंडारा और प्रसाद वितरण किया गया।

## पहाड़ी मंदिर शिव बारात समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री



रांची। ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर शिव बारात समिति की ओर से आयोजित महाशिवरात्रि पूजा एवं बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। सोएम ने कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य अपने-अपने धर्म और देवताओं की पूजा अर्चना करता है, लेकिन भगवान

भोलेनाथ इतने दयालु और कृपादाता हैं कि उनकी बारात में देव, दानव, पशु पक्षी सभी शामिल होते हैं। यह हमें यही सीख देता है कि हमसब सभी का आदर करें और सभी से प्रेम और भाईचारे का भाव रखें।

## केंद्रीय महासमिति पहाड़ी मंदिर (मुख्य द्वार) ने निकाली शिव बारात शिवालियों में शिव नाम की रही गूंज, निकली बारात



रांची। केंद्रीय महासमिति, पहाड़ी मंदिर (मुख्य द्वार) द्वारा आयोजित भव्य शिव बारात में राज्यसभा सांसद महुआ माजी शामिल हुईं। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने पहाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर महाआरती की। शिव बारात में बाबा भोलेनाथ एवं मैया पार्वती, श्री कृष्ण एवं राधा तथा मां काली की मनोरम जीवंत झांकियां

तथा श्री राम दरबार नगर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। धनबाद के भजन कलाकार पिंटू शर्मा ने रास्ते भर सांसों की माला पें सिमरु में शिव का नाम... जैसे एक के बाद एक भजन गाकर श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। शिव बारात में ललित ओझा, संजय पांडे, अजय तिरकी, जय सिंह यादव, सूरजभान सिंह, नंद किशोर



सिंह चंदेल, नरेश पपनेजा, विनय सिंह, सुमित सिंह, भोलू सिंह, राजू काठपाल, दीपक ओझा, गुलशन, बंटी, अजित सिंह, नरेश मक्कड़, जीतू अरोड़ा, गिरिजा शंकर पेड़वाल, मोनु शर्मा, बासु, सागर सिंह, बिट्टू सिंह, भरत मुंजाल, दीपक बजाज, आयुष काठपाल, गीतांशु काठपाल, अमन सचदेवा, पिशा बर्मन, नीलू सिंह, विनिता

कुमारी, भारती काठपाल, ममता अरोड़ा, आशा मक्कड़, पूजा, मंजुला, सुनीता पांडे, खुशबू, कामल, नीतू सिंह, रोमा सरकार, अनिता, रवेता, अंजना, शीला साहू, ललिता, रानी सिन्हा, गोपा मुखर्जी, ममता, शीतल वर्मा, अन्नु, नीतू सिंह, राधिका, संगीता पांडे, रंजीता पांडे, रीता दूबे एवं नेहा समेत हजारों श्रद्धालु शामिल थे।

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI 5TH FLOOR, PRAGATI SADAN (RRDA BUILDING), KUTCHERY CHOWK, RANCHI 834001		
O.A. No. 180 of 2021		
BANK OF INDIA, KANKE ROAD BR., RANCHI		.....APPLICANT BANK
BIRENDRA PRASAD SHARMA & ANOTHERS		.....DEFENDANTS
SUMMONS ISSUED UNDER RULE 23 (VIII) OF THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993		
SR No	DEFENDANTS	ADDRESSES
1.	BIRENDRA PRASAD SHARMA S/O JAGAT NARAYAN SHARMA	OFFICE/SHOP AT-SHOP NO. 7, BESIDE DIVYANI MOTORS, DIBOIH IN BETWEEN D.P.S. SCHOOL & DIARA FORD SHOWROOM, P.O. & P.S. - DORANDA, DIST.-RANCHI 834002 ALSO AT R/O QTR. NO. B-122, SECTOR-1, HEC COLONY, P.O. & P.S.-DHURWA DIST.-RANCHI 834004
2.	JAGAT NARAYAN SHARMA S/O LATE RAM SUNDAR SHARMA	R/O QTR. NO. B-122, SECTOR-1, HEC COLONY, P.O. & P.S.-DHURWA DIST.-RANCHI 834004

Whereas, the Applicant has instituted an Application u/s 19 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 against the Defendants for Recovery of sum of Rs. 21,02,831.00/- (Rupees Twenty One Lakhs Two Thousand Eight Hundred Thirty One Only) together with current and future interest, cost for other reliefs, The above mentioned Defendants is/are therefore directed to appear before Registrar in on 15th day of April, 2024 at 10.30 A.M. as to why the relief's prayed for should not be granted and to file show-cause in the matter. The notice that in case of default, the application will be heard and determined in your absence.  
Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 4th day of March, 2024.  
D.K. MAHATO  
REGISTRAR

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI 5TH FLOOR, PRAGATI SADAN (RRDA BUILDING), KUTCHERY CHOWK, RANCHI 834001		
O.A. No. 179 of 2022		
BANK OF INDIA, BARKAGAON BR., HAZARIBAGH		.....APPLICANT BANK
RAJENDRA KUMAR GUPTA & ANOTHERS		.....DEFENDANTS
SUMMONS ISSUED UNDER RULE 23 (VIII) OF THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993		
SR No	DEFENDANTS	ADDRESSES
1.	RAJENDRA KUMAR GUPTA S/O DASHRATH SAW	AT - HAZARIBAG ROAD, NEAR S.B.I., P.O. & P.S. - BARKAGAON DIST. - HAZARIBAGH 825311, JHARKHAND
2.	ANJU DEVI W/O RAJENDRA KUMAR GUPTA	

Whereas, the Applicant has instituted an Application u/s 19 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 against the Defendants for Recovery of sum of Rs. 38,25,819.00/- (Rupees Thirty Eight Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred Nineteen Only) together with current and future interest, cost for other reliefs, The above mentioned Defendants is/are therefore directed to appear before Registrar in on 30th day of April, 2024 at 10.30 A.M. as to why the relief's prayed for should not be granted and to file show-cause in the matter. The notice that in case of default, the application will be heard and determined in your absence.  
Given under my hand and seal of this Tribunal on this the 1st day of March, 2024.  
D.K. MAHATO  
REGISTRAR



**खिलौना** शब्द स्मरण में आते ही, अनेक प्रकार के खिलौने स्मृति में स्वरूप ग्रहण करने लगते हैं। खिलौनों को बच्चों के खेलने की वस्तु भले ही माना जाता हो, लेकिन ये आकर्षित सभी आयु वर्ग के लोगों को करते हैं। बच्चों के शैशव से किशोर होने तक खिलौने उनकी परवरिश के साथ, उनमें रचनात्मक विकास में भी सहायक हैं। खिलौनों का भारत के परिप्रेष्य में कमजोर पहलू यह है कि हम खिलौनों का बड़ी मात्रा में आयात चीन से करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। इस दिशा में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो करोड़ों लोगों का रोजगार तो मिलेगा ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचेगी। भारत में खिलौना निर्माण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में अनेक प्रकार के खिलौने मिले हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं तो इतनी अनूठी हैं कि वे बाल मनोविज्ञान का पूरा शास्त्र हैं। भारत में खिलौना निर्माण लाखों लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन था और कागज, धातु व लकड़ी से स्थानीय व घरेलू संसाधनों से बनाए जाते थे। जब रबर और प्लास्टिक का आविष्कार हो गया तो इनके खिलौने भी बनने लगे। ऑटो-इंजीनियरिंग अस्तित्व में आई तो चाबी और बैटरी से चलने वाले खिलौने बनने लग गए। नौवें दशक में जब कंप्यूटर व डिजिटल क्रांति हुई तो खिलौनों का रूप परिवर्तन हो गया। खिलौनों का एक खतरनाक पहलू भी है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आयात होने वाले 66.90 प्रतिशत खिलौने बच्चों के लिए खतरनाक हैं। एक अध्ययन में क्यूसीआई ने पाया कि अनेक खिलौनों में मौजूद मैकेनिकल और केमिकल जाचों में गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने के बाद भारत ने चीनी खिलौना कंपनियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सरकार वाकई चीनी उद्योग और उद्योगपतियों को पछाड़ना चाहती है तो नीतियों को उदार बनाने के साथ प्रशासन की जो बाधाएं पैदा करने की मानसिकता है, उस पर भी अंकुश लगाना होगा। **बुद्धा पब्लिक स्कूल रांची**

## कम होता पोषाहार

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किये गए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में खाद्यान्न की हिस्सेदारी 2022-23 में घटकर 46 फीसदी के करीब हो गई है जो वर्ष दो हजार में साठ फीसदी के करीब थी। यूं तो शहरी इलाकों में भी खाद्यान्न पर होने वाले खर्च में गिरावट आई मगर वह ग्रामीण भारत की तुलना में कम है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्यान्न उपभोग में अनाज और दालें कम हो गई हैं। दूसरी ओर दूध पर होने वाला खर्च में इतनी वृद्धि हुई है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जल्दी ही अनाज व दालों के संयुक्त खर्च से अधिक हो जाएगा। कमोबेश यही स्थिति फलों, सब्जियों व विटामिन व खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थों पर लागू होती है, जिनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यही वजह है कि दालों के मुकाबले फलों पर ज्यादा खर्च हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि बाजार में पशुधन, मत्स्य पालन व बागवानी के उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो कि एमएसपी के लाभों से वंचित हैं। निस्संदेह, इसमें बाजार के मुनाफे की भूमिका को भी देखा जा रहा है। यहां रुझान वनस्पति प्रोटीन की तुलना में पशु प्रोटीन की ओर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही घरेलू उपभोग व्यय बताता है कि नई पीढ़ी के रुझान के मद्देनजर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों व पके तथा डिब्बाबंद भोजन पर खर्च बढ़ा है। दरअसल, आय बढ़ने पर विकसित देशों में भी लोगों का खाद्यान्न पर व्यय कम हो जाता है। वे भोजन में गुणवत्ता वाली चीजों को शामिल करने को प्राथमिकता देते हैं। वे अनाज, चीनी व दालों के मुकाबले दूध, मछली, अंडा, मांस, फल, सब्जियों, पेय पदार्थों व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अधिक गुणवत्तापूर्ण मानने लगते हैं। यहां यह भी

## बड़ा बदलाव

वी नरसिम्हा राव वरसेस भारत गणराज्य मामले में शीर्ष अदालत की बेंच ने माना था कि संसद व विधानमंडल में रिश्त लोकर वोट देने व भाषण देने के मामले में जनप्रतिनिधियों पर आधाराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो सदन में किए गए किसी कार्य के लिये वे कठघरे में खड़े नहीं करे जा सकते। निश्चित रूप से इससे लोकतंत्र की शुचिता व पारदर्शिता के लिए विसंगति उत्पन्न हुई थी। सोमवार को दिए फैसले के बावत मुख्य न्यायाधीश का मानना था कि हम नरसिम्हा राव फैसले से सहमत नहीं हैं। साथ ही उस फैसले को निरस्त करते हैं जिसमें घूस लेने के मामले में जनप्रतिनिधि बचाव के लिये अपने विशेषाधिकार को कवच बनाएँ। पहले का फैसला संविधान के कुछ अनुच्छेदों का अवहेलना भी करता है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत का यह फैसला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में साफ-सुथरी राजनीति की दिशा भी तय करेगा। उन पर साल 2012 में राज्यसभा के चुनाव में रिश्त लेकर एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के आरोप लगे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1998 के फैसले की दुहाई देकर रहत पाने की कोशिश की गई थी। दरअसल, विगत में भी एक बेंच ने इस फैसले को कम अंतर से सामने आने की वजह से इस मामले को बड़ी बेंच को देने की बात कही गई थी। यही वजह कि सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय बेंच ने इस महत्वपूर्ण मामले में फैसला दिया। निश्चित रूप से उन्हें चुनने वाले मतदाताओं से छल करके जनप्रतिनिधि निरंकुश व्यवहार नहीं कर सकते। यह लोकतंत्र की शुचिता की भी अपरिहार्य शर्त है। देश में जिस प्रकार राजनीति में नैतिकता का पतन हो गया है उसके आलोक में यह निर्णय भविष्य के बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है।

## मालिक से नाता

**धर्म-प्रताह**  
**साध्वी मनीषा**  
बचपन में भोले-भाले, उतना भी नहीं बचा हाथ में। स्लेट गंदी हो गई है, तुमने सब लिख डाला। पाया क्या है? सिवाय दुख, तनाव, संताप के क्या तुम्हारे हाथ लगा है?  
थोड़े दिन सच्चे गुरु नानक देव जी की सुन कर देखो। छोड़ दो उस पर। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, न जप, न तप, न ध्यान, न धारणा।  
यह सब वही कर रहा है। एक ही साधना है वो है सच्ची श्रद्धा के सच्चे प्रेम का संपूर्ण समर्पण। आगे उस स्वांस देने वाले को मर्जी। जैसे ही तुम्हें खयाल आया उसकी मर्जी का, तुम पाओगे भीतर सब हलका हो जाता है। एक गहन शांति, एक वर्षा होने लगती है भीतर, जहां कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। एक आँकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

### कॉटन वर्ल्ड



### लेटर टू एडिटर

**हिंदी मीडियम पर ध्यान**  
देश में विज्ञान व गणित पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध हो। तकनीकी पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता वाली हिंदी की किताबें तैयार की जायें, जिससे देश में वैज्ञानिक सोच का विकास मातृभाषा के जरिये हो सके। आज का दिन इस पर मंथन करने का है देश में अनुवाद के नाम पर हिंदी को जो जटिल बनाने की कोशिश हुई, उसने अन्य भाषाओं के लोगों को हिंदी से दूर ही किया है।  
- नीलेश, गढ़वा

### देश के पूंजीपति

साल की शुरुआत में देश की सभी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.3 लाख करोड़ रूपए था, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन 9.6 लाख करोड़ रूपए था। विगत दिनों उन्होंने अपने बेटे की शादी में जमकर धन लुटाया। क्या देश के धनियों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करना चाहिए जिससे देश का भला हो। - **रमाशंकर रांची**

# लोकसभा चुनाव: यादें सुकुमार सेन और टी.एन. शेषन की

देश लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। वास्तव में यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और खासमखास उत्सव भी है। इस उत्सव में इस बार 86 करोड़ मतदाता अपने मतधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 47 करोड़ महिला वोटर होंगी। इस उत्सव में देश के 28 राज्य और नौ केंद्र शासित शांतिमल होंगे। लोकसभा चुनाव को सफलता पूर्वक करवाने की जिम्मेदारी डेढ़ करोड़ सरकारी अफसरों पर होगी। करीब सवा करोड़ मतदान केंद्रों में जाकर मतदाता देश के 543 लोकसभा सांसदों का चुनाव करेंगे। यह सब आंकड़े गवाह हैं कि भारत से बड़ा और व्यापक संसदीय चुनाव विश्व भर में कहीं और नहीं होता। बहरहाल, भारत में अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं।

पहली लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए थे। उस समय लोकसभा में कुल 489 सीटें थीं। लेकिन, संसदीय क्षेत्रों की संख्या 401 थी। लोकसभा की 314 संसदीय सीटें ऐसी थीं जहां से सिर्फ एक-एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। वहीं 86 संसदीय सीटें ऐसी थीं जिनमें दो-दो लोगों को सांसद चुना जाता था। वहीं नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र से तीन सांसद चुने गए थे। किसी संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुनने की यह व्यवस्था 1957 तक जारी रही। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के सातवें क्रमिक के नेतृत्व वाला आई.एन.डी.आई.ए. के नाम से कई राजनीतिक दलों का एक समूह होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल, ओडिशा में बीजद और पंजाब में अकाली दल अकेले ही चुनाव लड़ेंगे।

बहरहाल, हर बार की तरह से चुनाव कराने की जिम्मेदारी रिटर्निंग अधिकारियों की होगी। हरेक संसदीय क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होता है। आमतौर पर, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) अपने जिले के एक या एक से अधिक संसदीय क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग ऑफिसर होता है। लेकिन, बहुत से ऐसे संसदीय क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो दो या तीन छोटे जिले में बंटे होते हैं, जिनमें रिटर्निंग ऑफिसर पड़ोसी जिले से भी नियुक्त हो सकता है। फिर, चुनाव पर पर्यवेक्षकों की नजर भी रहती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लाखों कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय पुलिस



सरकार के अनुमान में दूसरी समस्या यह है कि असंगठित क्षेत्र, जिसमें किराना दुकान, दर्जी, टैक्सि, छोटे स्कूल, डाक्टर, टाबे इत्यादि आते हैं, इनके आंकड़े एकत्रित करना पहली तिमाही में असम्भव था। इसलिए सरकार ने इनके द्वारा उत्पादन में आयी गिरावट का अनुमान कैसे लगाया है, इसका ब्योरा उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकार द्वारा जो 23.9 प्रतिशत की गिरावट बताई गयी है, उस पर विश्वास नहीं होता है।

मिलकर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगाले तो पाते हैं कि संविधान सभा ने नवंबर 1949 में देश चुनाव आयोग की स्थापना को अधिसूचित किया था, और अगले वर्ष मार्च में, भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के अफसर श्री सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वे पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव रहे थे। सुकुमार सेन की ही देखरेख में देश का पहला लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था। वे 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्होंने ही स्वतंत्र भारत के पहले दो आम चुनाव, 1951-52 और 1957 को सम्पन्न

करवाया था। उन्होंने 1953 में सृजान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। उनकी शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज, कोलकाता और लंदन विश्वविद्यालय में हुई थी। बाद में उन्हें गणित में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 1921 में सेन भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुए और एक आईसीएस अधिकारी और न्यायाधीश के रूप में विभिन्न जिलों में कार्य किया। 1947 में उन्हें पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।

पहले आम चुनाव में 21 या उससे अधिक उम्र के करीब 18 करोड़ मतदाता थे पूरे देश में। इनमें से लगभग 85 प्रतिशत पढ़ या लिख नहीं सकते थे। प्रत्येक मतदाता की पहचान, नाम और पंजीकरण किया जाना था।

**नेशनल क्रियेटर्स अवार्ड**  
देकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। देश के मेरिट को इसी प्रकार से सम्मानित किये जाने से उनका मनोबल बढ़ता है और देश के युवाओं में कुछ नया करने की इच्छा बलवती होती है।  
- **नरेंद्र मोदी पीएम**

**रोचक ट्वीट**

आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें।  
हर हर महादेव !  
- **चंपई सोरेन, सीएम**

ताश के पत्ते जब पुराने हो जाते हैं, तो उन्हें जोकरों से बदल दिया जाता है।  
- **सोनू सूद, हीरो**

## मतदान देश के युवाओं की सुरक्षित भविष्य की गारंटी है

**लोकसभा** के चुनाव अगले माह होने की घोषणा 15 मार्च तक होने की संभावना है। लोक सभा का चुनाव देश की भविष्य और दुनिया में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान तय करता है। इस चुनाव को लेकर हमारे देश में विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग विशेष जागरूक और सजग रहता है। आखित मतदान कितना आवश्यक है और युवाओं के लिये यह किस प्रकार उनके सुरक्षित भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पर खबर मन्त्र के चीफ सब एडिटर एनके मुरलीधर ने सेवन स्टॉर एपेकडीमी रांची के डायरेक्टर बिदेश्वरी बेक से बात चीत की। श्री बेक ने कहा कि आज लोकसभा का चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। वोट की ताकत देश और समाज

को बदलने की ताकत रखता है। आज जिस प्रकार तीस वर्ष के संक्रमण और मिली जुली सरकार के कारण जो देश को नुकसान हुआ उसके बाद वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार का ठोस प्रयास कर देश को एक नयी गति और आत्मविश्वास दिया है यह हमारे वोट का ही प्रभाव है या कहें कि वोट की ताकत है जिसने लगातार दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर देश ही नहीं दुनिया में भी भारत का नाम रोशन किया। आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे यह साफ है कि आने वाले समय में देश विश्व गुरु बनेगा। यह उम्मीद और संभावना इस कारण आई है कि हम सभी ने अपने वोट का सही उपयोग किया है। धीरे-धीरे देश का हर तबका वोट की ताकत को समझने लगा है और अपनी

**चुनाव की गर्वा**  
वोट का इस्तमाल सोच समझकर करता है। आज जो विकास हो रहा है वह वोट की ताकत है और देश दुनिया में सबसे तेज विकास दर प्राप्त कर चुका है तो यह भी हमारे लोकतंत्र में मत के उपयोग के कारण ही हो सका है।

लोकन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये देश में मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है और मैं देख रहा हूँ कि इस दिशा में थोड़ी कमी है। विपक्ष का दायित्व है कि सरकार के किसी भी गलत कदम को रोकने के लिये लोकतांत्रिक प्रयास करे। जो युवा पहली बार अपने वोट का उपयोग करेंगे उनसे मैं अपील करूंगा कि वे अपना मत वैसे दल को दें जो देश को तेज विकास, दुनिया में सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में ठोस कार्यवाही करें। भ्रष्टाचार और परिवारवाद से दूर रहें क्योंकि इससे देश को बड़ा नुकसान होता है। देश का भविष्य युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। जहां तक ईवीएम के उपयोग का सवाल है देश तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इस उन्नत

व्यवस्था को छोड़कर दूसरे व्यवस्था को मानना सही निर्णय नहीं होगा। ईवीएम पर विश्वास करना चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया में पूरे तौर से शामिल होना चाहिए। विगत दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने जो जनप्रतिनिधियों को लेकर निर्णय सुनाया है वह सुविधा और राजनीति में स्वच्छता को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। स्वच्छ राजनीति से देश विश्व में श्रेष्ठ स्थान पा सकेगा। देश को महुआ मोड़ना जैसी नेताओं की आवश्यकता नहीं है जो पूरे राजनीति को शर्मसार करने वाला काम करती है। हमारा सांसद ऐसा हो जो समाज में सबसे सुख-दुख में शामिल हो, उनकी समस्या संसद में उठाये और जिसका आचरण और क्रिया कलाप श्रेष्ठ हो। वह हमारे अभिभावक की तरह हों।

## युद्ध में व्यापार मानवता की तबाही की कीमत पर कमाई

**डॉ. अनिल कुमार निगम**  
अमेरिका और यूरोपीय संघ की रणनीति यह रही है कि विश्व में युद्ध चलते रहने चाहिए। संभवतः यही कारण है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है। वहीं हमारा और इजराइल के बीच युद्ध छिड़े हुए लगभग पांच महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन इनका कोई अंत दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध और हमारा-इजराइल युद्ध मानवता के लिए बर्बादी का सबब हैं, जबकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों के लिए ये कमाई का साधन बन गए हैं। संपूर्ण विश्व में युद्ध चलता रहे, अमेरिका व पश्चिमी देशों के लिए यह फायदे की बात है। तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद रूस-यूक्रेन युद्ध शांत नहीं

हुआ। हमारा के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद इजराइल ने हमारा के ठिकाने वाली गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर एक हिस्से को तो बकायदा कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। अहम सवाल यह है कि क्या कारण है, जिसके चलते ये देश युद्ध खत्म नहीं करना चाहते? वे इन युद्धों को लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? क्या उन्हें इन युद्धों में मारे जाने वाले लोगों और इससे होने वाली क्षति की कोई चिंता नहीं है? इसके पीछे उनकी क्या मंशा है? सर्वविदित है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई है और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, फिर भी युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा है। यह भी उल्लेखनीय

**सामयिक**  
है कि इस युद्ध से रूस की सेना की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बनी हुई थी, वह भी प्रभावित हुई है। दो वर्ष के लंबे संघर्ष के बावजूद रूस अब तक यूक्रेन के केवल 17 फीसदी हिस्से पर ही कब्जा कर सका है। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारा और इजराइल के बीच चलने वाला युद्ध भी अंतहीन लग रहा है, क्योंकि एक ओर जहां अमेरिका और नाटो देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर हमारा के समर्थन में कई अरब देश हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच हथियारों का प्रयोग एवं प्रदर्शन जमकर हो रहा है। वास्तव में हमले के एक वर्ष

बाद अमेरिका और रूस ने अपने सैन्य हथियारों का परीक्षण एवं प्रदर्शन करने के लिए युद्ध क्षेत्रों का उपयोग किया। ऐसा लगता है, मानो दोनों पक्ष अपने हथियारों की बिक्री और प्रदर्शन करना चाहते हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जनरल आइजनाहावर ने स्वीकार किया था कि अमेरिका एक सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान है। यूक्रेन युद्ध और गाजा पट्टी पर इजराइल का हमला इस बात के ताजा उदाहरण हैं। वर्ष 2023 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन एवं ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था, 'यदि आप रूस के आक्रमण से निपटने के लिए यूक्रेन की रक्षा में हमारे द्वारा किए गए निवेश को देखें, तो हमने जो

**संस्थापक**  
**स्व. डॉ. अभय कुमार सिंह**  
वृन्दा मॉडिया पब्लिकेशन्स  
प्रिंटेड लिमिटेड के लिए  
**मुद्रक, प्रकाशक**  
**मंजू सिंह**  
द्वारा चित्री, बोडेया रोड, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं प्रकाशित।  
**संपादक**  
**अविनाश टाकूर \***  
**फोन : 95708-48433**  
फिन: -834006  
e-mail  
khabarmantra-city@gmail.com  
R.N.I.No.  
JHAHIN/2013/51797  
\*पीआरबी एक्ट के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी।  
प्रकाशित खबरों से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा रांची न्यायालय में ही होगा।



## इटकी: महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़े भक्त



इटकी। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को इटकी प्रखंड क्षेत्र के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इटकी के मुख्य शिवालय नया तालाब स्थित महाकाल शिव मंदिर हरही स्थित गंगा जल शिव मंदिर व नारी स्थित महादेव टंगरा शिवालय सहित अन्य मंदिरों में पूजा करने वाले लोगों का तांता दिन भर लगा रहा। इस अवसर पर इटकी के रुद्र महाकाल मंदिर से शिव बारात की झांकी निकाली गयी। हरही व मकुंदा में 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन व मुख्य बुद्धा शिवालय में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। हरही में मेला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित शत्रुघ्न पांडेय अनिल तिवारी अमृत पांडे बलराम गोप अशोक गोप अनूप केसरी चंदन तिवारी अरुण तिवारी रामकिशुन गोप नवल सिंह रोहित तिवारी सुबोध साहू बीरेन्द्र गोप लक्ष्मी केसरी विशाल आलोक सहित अन्य शामिल थे।

**पिटोरिया: शिवालयों में महाशिवरात्रि की धूम**



पिटोरिया। पिटोरिया एवं आसपास के क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में धूमधाम से पूजन किया गया। इस अवसर पर शिव मंदिर को फूलों एवं बिजली से आकर्षक ढंग से सजाया गया। शिव भक्तों ने दिनभर पूजन किया। वहीं शाम के बाद देर रात तक भगवान महादेव की सिंगर पूजन किया गया। मौके पर पिटोरिया के कई मंदिरों में शिव पार्वती की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जो कि क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना रहा। कई मंदिरों में बांधा का आयोजन कर भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।

**महादेव मंदिर सिकिदिरी में अखंड हरिकीर्तन शुरू**

सिकिदिरी। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर स्वर्णरेखा नाथ महादेव मंदिर सिकिदिरी में 24 घंटे का अखंड हरिकीर्तन शुरू हुआ। क्षेत्र की सुख शांति व समृद्धि के लिए अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी टिकेश्वरी पांडे ने विधि विधान से पूजन कराया। शनिवार को इसका समापन होगा। अखंड हरिकीर्तन में औरंगाबाद बिहार की भजन मंडली भी शामिल हुई है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आयोजन को सफल बनाने में सांसद प्रतिनिधि सुजीत कुमार एचएसके अभियानता ओपी गुप्ता रमण कुमार विद्वत् ऋषि अशिष शंकर सोनी पुंदेश्वर चौधरी प्रेम करमाली सुधीर प्रसाद संदीप कुमार वर्मा सिद्ध पांडे विजय रजवार संजय राणा प्रदीप साहू मिथिलेश बैठा का योगदान रहा।

**सीआईएसएफ ने 3 टन अवैध कोयला किया जप्त**

खलारी। एनके एरिया में पदस्थापित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने डक़ार परियोजना से शट नया धौडा क्षेत्र से जमा कर रखे अवैध कोयला जप्त कर सीसीएल को सुपुर्द किया। सीआईएसएफ से जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर डक़ार आठ के पीछे गांव नया धौडा छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी अभियान में अतिरिक्त कमांडेंट संजय कुमार मीणाएसीआईडब्ल्यू इंस्पेक्टर विकास कुमार एचएसके रवती कुमारी सूचना विभाग के दो बल सदस्य अथवा वयूआरटी टीम के सदस्यों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग तीन अवैध कोयला जप्त किया गया।

# उमड़ा आस्था का सैलाब, धूमधाम से निकली शिव बारात

**प्रखंडों में महाशिवरात्रि पर निकली भगवान शिव की बारात**

**खबर मन्त्र संवाददाता**

रात। महाशिवरात्रि पर अनूठा माहौल रहा। चारों तरफ चहल-पहल देखा गया। जाड़ी, बानापीड़ी, कन्नौज, तारूप, फेटा, मलमाडु, उषामातु, आमटांड, ब्रजपुर, बड़काटोली, महादेव टंगरा, लहना, काट, मखमंदरो, पिरा, कमड़े व काठीटांड आदि मंदिरों में सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा। महिला व युवतियों ने भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन-पूजन कर मन्तों मांगी। झखरटांड से शिवजी की भव्य बारात निकली। पावर स्टेसन स्थित मंदिर संचालन समिति के सदस्यों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इधर पालीए पंडराए लहना व आमटांड में भी भगवान शिव की बारात निकाली गयी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे। ट्रेनी आईपीएस मो याकुब ने इसकी कमान संभाली। क्षेत्र में शांति बनी



शिव बारात में ओरमांझी में निकली शिव पार्वती की जीवंत झांकी।

## शिव बारात में उमड़े भक्त, बच्चे बने भूत-पिशाच

ओरमांझी। महाशिवरात्रि को लेकर प्रखंड क्षेत्र के सभी शिवालय में सुबह से ही पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन का भी आयोजन हुआ। शाम को विभिन्न पूजा समिति द्वारा शिव बारात निकाली गई। शिव पार्वती के साथ भूत पिशाच बने बच्चों के साथ काफी संख्या में लोग शिव बारात में शामिल हुए। शिव बारात में शिव पार्वती व अन्य देवी देवताओं की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रहा।

शिव बारात देखने को जगह-जगह भिड़ उमड़ पड़ी थी। पांचा, चुट्टालू ओरमांझी के अलावे मेसरा क्षेत्र में शिव बारात निकली गई। जहां महिलाएं भी शिव बारात में शामिल हो भक्ति गानों पर झूमते गांव में भ्रमण कर रहे थे। विनोद गुप्ता, सत्यनारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह सिंधी, अरविंद पतस, राजू सिंह, रमेश साहू, कुलदीप महतो, विजय मिश्रा, हरेश्वर शर्मा, मनोज साहू, राजधाम साहू सहित काफी संख्या में महिलाएं व भक्त गाण शामिल थे।

रही। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। इधरए थाना परिसर में शिवरात्रि की धूम रही। भजन-

कीर्तन का दौर चला। रुद्राभिषेक में विकास चंद्र कुमार सप्लीक यजमान बने। कार्यक्रम में श्री

याकुब डीएसपी अरविंद कुमार व इंस्पेक्टर एसवी चौधरी ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

# ट्रक ने विवाहिता को कुचला, मौत

**दर्दनाक**



मृतक काजल देवी की फाइल फोटो।

**खबर मन्त्र संवाददाता**

ओरमांझी। थाना क्षेत्र के कुल्ही निवासी राजेश करमाली की पत्नी काजल देवी को (22 वर्ष) को एक टरबो ट्रक जेच 01 डब्ल्यू 3453 ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क पर शव रकूचू ओरमांझी रोड जाम कर दिया। महिला का दो माह का एक बेटा यवान व ढाई वर्षीय बेटा ऋषिका कुमारी के साथ पति सड़क पर रखी पत्नी का शव देख

**कोयलांचल के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब**

खलारी। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे दिन खलारी कोयलांचल के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों व शिवालयों में दिन भर बम-बम भोलो ओम नम शिवाय हर-हर महादेव के जयघोष के नारे लगते रहे। क्षेत्र के मैक्लुस्कीगंज के लघरा हेसालोंग नवाडीह धमधमिया खलारी डक़ार सुभाष नगर भूतनागर मोहन नगर सहित अन्य जगहों के मंदिरों में सुबह 07 बजे से ही भगवान शिव की पूजा शुरू हो गई। महाशिवरात्रि अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालु ने जलाभिषेक करने के बाद शिव लिंग को बेलपत्रए दुग्धए भांगए सहित अन्य पूजन्य प्रसाद अर्पित किये। महाशिवरात्रि को लेकर बोते दिनों से ही नैवारियां शुरू कर दी गई थीं। मंदिरों की सज्जा की जाने लगी थी।

**गुरसाये लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम**



दुर्घटना के बाद सड़क जाम करते लोग।

बिलख-बिलख कर रो रहा था। वहीं उसकी मां सुशोला देवी भी बेटे से लिपट कर रो रही थी। जिसे देखकर वहां उपस्थित लोगों की भी आंखें नम हो रही थीं। जानकारी मिलने पर पहुंची प्रमुख अनुपमा देवी घटना के प्रति दुख जताया और सीओ से दुर्घटना सहायता राशि दिलाने की बात की। वहीं आरपीआई प्रधान सचिव प्रीतम सांड लोहरा व रमेश उरांव के साथ सरकारी स्तर पर

**चालक ने आगे पीछे कर दोबार कुचला**

गुरवार को दोपहर 2.30 बजे महिला के घर के पास ही दुर्घटना हुई। बताया गया कि ईटा बालू में चलने वाला ट्रक महिला काजल देवी के घर के पास ही खड़ा था। वहीं काजल देवी अपनी ढाई वर्ष की बेटी को लेकर पैदल घर के समीप के एक दुकान जा रही थी। तभी चलक ट्रक को तेज गति से ब्रेक करते हुए महिला को टोकर मार दिया। टोकर लगने के बाद महिला गिर गई और ट्रक का चक्का चढ़ गया। हो-हल्ला होने पर चालक ब्रेक लगाया और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जिससे महिला दोबार कुचल गई। वहीं बेटी फेंका जाने से उसकी जान बच गई।

मुआवजा व मदद दिलाने का आश्वासन देकर सड़क जाम हटवाया गया। मौके पर मुखिया

पूनम देवी, संमुंदर पाहन, मुमताज आलम, जीतेंद्र करमाली सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

## मुरगू पुल पर दुर्घटना से परेशान ग्रामीणों ने की सड़क जाम

**खबर मन्त्र संवाददाता**

मांडर। रांची-मैदिनीनगर मुख्य पथ पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से तंग आकर शुक्रवार की सुबह लगभग दस बजे ग्रामीणों ने इस पथ को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर विधायक शिल्पी नेहा तिकों भी मौके पर पहुंची और वह भी जामस्थल पर बैठ गईं। विधायक ने बताया कि उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था पर इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि यह पथ अभी बनकर पूरा भी नहीं हुआ है पर एनएचएआई द्वारा टॉल की वसूली शुरू कर दी गई है। इस स्थान पर पुल को खोद कर छोड़ दिए जाने के कारण अब तक लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है वहीं कई लोग अभी अस्पताल में गंभीर अवस्था



में इलाजरत हैं। ग्रामीणों का कहना था कि एनएचएआई इस स्थान पर डायवर्सन तत्काल चलने लायक बनाए पुल का निर्माण कार्य अति शीघ्र शुरू कराया जाय। साथ ही इस स्थान पर हुए हादसों में जितने लोगों की भी जान गई है उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर तत्काल दस लाख रुपए की राशि का भुगतान एनएचएआई करे। लगभग डेढ़ घंटे बाद एनएचएआई

**पहुंची एनएचएआई की प्रोजेक्ट डायरेक्टर**

घटना की जानकारी मिलने पर इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एकता कुमारी मौके पर पहुंची और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि तीन दिनों के अंदर इस स्थान पर जो डायवर्सन बनाया गया है उसे पूरी तरह से दुरुस्त कराया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों की जो भी मांग है उससे वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया जा रहा है।

के एक अधिकारी के आश्वासन के बाद जाम खुला और आवागमन सुचारु रूप से मुख्य पथ पर शुरू हो पाया। मौके पर कांग्रेस पार्टी के मांडर प्रखंड अध्यक्ष मंगा उरांव

**पैदल चल रही महिला सड़क पर गिरी, मौत**



ओरमांझी। थाना क्षेत्र के दड़दाग निवासी एक 52 वर्षीय महिला पैदल चलते हुए अचानक सड़क पर गिर गई। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि गुरुवार को सूरज महतो की पत्नी रुदन देवी बगल के गांव बारीडीह अपनी गोतीनी व पड़ोसी के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। शाम छह बजे के करीब सभी पैदल ही घर लौट रहे थे। घर पहुंचने से पहले सड़क पर रुदन देवी अचानक गिर गई। माथा में अंदरूनी चोट लग गई। कान से हल्का खून बहता देखकर स्वजनों द्वारा उपचार के लिए रिम्स ले जाया गया। उस समय वह बात भी कर रही थी। उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। स्वजनों ने बताया कि उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। कैसे और क्यों गिरी किसी को पता नहीं चला।

**शिव मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन**

बेड़ो। बेड़ो प्रखंड के हरही गांव स्थित बजरंग बली मंदिर के परिसर में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शुक्रवार को शिव मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। प्रस्तावित शिव मंदिर निर्माण के लिए पुरोहित सत्यनारायण पांडे ने यजमान भीम गोप पत्नी सोनली यादव व मेघनाथ सिंह पत्नी लीलावती देवी द्वारा विधिवत बजरंगबली का झंडा लगा कर पूजन किया गया। भीम गोप ने कहा कि यहां ग्रामीणों व श्रद्धालुओं के सहयोग से एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।



**शिव चर्चा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़**

तमाड़। प्रखंड राधानारी मंदिर परिसर में शुक्रवार को शिवरात्रि के अवसर पर शिव चर्चा का आयोजन किया गया। गायक शिवम गुप्ता के द्वारा गीत संगीत भजन प्रस्तुत किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धाएं भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं विषय पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में दूर-दूर से आए शिव के शिष्य एवं शिष्याओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना। कार्यक्रम के दौरान शिव के गुरु स्वरूप पर चर्चा की गयी। उन्होंने कहा कि शिव भगवान है और वह गुरु भी हो सकते हैं। गुरु का काम ही होता है ईश्वर से मिलाना। शिव तो स्वयं ईश्वर हैं। अगर आप शिव को गुरु बनाते हैं तो आपको ईश्वर को जानने और समझने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान शिव सब कुछ देते हैं तो ज्ञान भी देंगे। मौके पर सूरज गुप्ता राजा गुप्ता रिणू देवी ललिता देवी अनीता देवी बासों देवी सविता देवी रजू देवी मीणा देवी आदि दर्जनों भक्तगण उपस्थित थे।

**एक नजर में**

**धोरघोरा धाम में श्री रुद्र महायज्ञ संपन्न**



ठाकुरगांव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदभावना हो, विश्व का कल्याण हो आदि गगनचुंबी जयघोषों के बीच बुद्धमू प्रखंड के ऐतिहासिक धोरघोरा धाम में आयोजित पांच दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ के अंतिम दिन नवनिर्मित शिव मंदिर सह हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेकएहनएपूणाहुँतिएपुष्पांजलि आदि अनुष्ठान संपन्न हुआ। साथ ही झंसी से आये बाल संत श्री शशि शेखर जी महाराज के द्वारा यज्ञ के दौरान श्रीमद्भावत कथा का प्रवचन भी किया गया। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी यज्ञ स्थल पहुंचे। मौके पर उन्होंने धोरघोरा धाम में अपने कोष से 15 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनाने का घोषणा किया। साथ ही धाम के विकास में हरसंभव सहयोग का भी आश्वासन दिया। यज्ञ के सफल आयोजन में समिति के अमन शाहदेव, मोतीराम महतो, रामनरेश महतो, अशोक सम्राट, शिवशंकर महतो, मोतीलाल महतो आदि की सराहनीय भूमिका रही।

**शिवमंदिर नवनिर्माण की रखी आधारशिला**



खलारी। मैक्लुस्कीगंज के नावाडीह गायत्री मंदिर परिसर में शिवमंदिर नवनिर्माण का आधारशिला रखी गई। इस दौरान पुरोहित लोकनाथ पाटक के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर एवं नारियल फोड़कर शिव मंदिर नव निर्माण कार्य शुरू किया। मौके पर लपरा मुखिया पुतल देवीए समाज सेवी भोला प्रसादए भाजपा कार्यकर्ता बिरजू गुप्ता उपस्थित थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शिव मंदिर नहीं था। पहले पूजा के लिए लोग दूसरे स्थान पर जाते थे। मौके पर गोविंद साव जितन महतो रामेश्वर प्रसाद कलिंदर ठाकुर नागेश्वर साव आनंद गुप्ता हरेंद्र उराव रंजीत गुप्ता महेश गोसाइ प्रेम गुप्ता अनिल गुप्ता अजय गुप्ता दिनेश गुप्ता सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

**मांडर : शटर का ताल तोड़ दुकान में चोरी**

मांडर। गुलाब जेनरल स्टोर कंदरी मोड़ में गुरुवार की रात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दुकान के संचालक तनिश अख्तर ने बताया कि शटर का ताल तोड़ दुकान के अंदर घुसे चोर गल्ला में रखे नगद करीब तीन हजार समेत साठ हजार का सामान चुरा ले गये। दुकान में चोरी की की सूचना उन्हें शुक्रवार की सुबह शटर का दोनों ताल टूटा देख अगल बगल के दुकानदारों ने दी। चोरी की जानकारी मांडर पुलिस को दे दी गयी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

# अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस : टोल प्लाजा की महिला कर्मियों को किया सम्मानित

**खबर मन्त्र संवाददाता**

ओरमांझी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पुंदाग टोल प्लाजा ओरमांझी में शुक्रवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर टोल प्लाजा में कार्यरत छह महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारीबाग टोलवे मुख्य प्रबंधक चेतन मालवारी ने सभी महिलाओं को उपहार प्रदान किया और कहा कि आज महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। महिला कर्मचारियों में भी एक उत्साह देखने को मिलता है। आज के दिन हमें महिला कर्मियों को सम्मान व सहयोग करने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में हजारीबाग रांची एक्सप्रेस वे के मुख्य प्रबंधक



महिला कर्मियों को सम्मानित करते हुए।

राजीव सिन्हा, प्रोजेक्ट मैनेजर अमित प्रकाश, एनएचएआई इंजीनियर जितेंद्र कुमार, टैक्सिकल मैनेजर राहुल कुमार, सौरव कुमार, सौरभ कुमार, रणजीत ठाकुर व टोल कर्मचारी आदि उपस्थित थे। **कांग्रेस नेत्री ने केक काटकर मनाया महिला दिवस**

इंदिरा देवी तुरी के आवास पर महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेत्री के आवास पर केक काटकर मिठाई बांटा गया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री इंदिरा ने कहा कि महिला दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का कार्य अग्रिम है। मौके पर महिला

**बुड़ू के जामगामी गांव की महिलाओं ने सीखे जैविक खाद से खेती के गुर**

**महिला कृषक गोष्ठी**

महिला कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा में सखी मण्डल के महिला कृषकों ने भाग लिया। इस मौके पर आधुनिक कृषि में महिलाओं का कार्य एवं योगदान विषय पर चर्चा की गई। उपस्थित महिलाओं को यह बताया गया कि कैसे वर्तमान में हो रहे खेती के कार्यों में वैज्ञानिक पद्धति के समावेश से इसे और लाभकारी बनाया जा सकता है। उन्हें यह भी बताया गया की आप खेती में संतुलित उर्वरक प्रयोग कर और जैविक खादों के उपयोग से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खेती में लागत भी कम कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा को बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में झफको के राज्य विपणन प्रबंधक श्री यू के सिन्हा ने महिलाओं को झफको के नैनो यूरिया एवं डीएपी का खेती में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कहा कि कैसे ये उत्पाद उनके लिए लाभकारी है और कैसे इनके सभी फसलों में प्रयोग करने से एक तरफ जहां लागत में कमी आती है। वहीं गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त होने के साथ मिट्टी, हवा पानी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। उन्होंने नैनो उर्वरकों के प्रयोग विधि का विस्तार से चर्चा किया एवं कृषकों से निवेदन किया कि आप सभी इसका प्रयोग करें और अपने सभी अन्य दीदी बहनों को भी कराने का प्रयास कीजिए। कार्यक्रम में शामिल सखी मन्त्रल की बहनों ने भी अपना विचार व्यक्त किया एवं आज के इस गोष्ठी को बहुत ही लाभकारी बताया और झफको के इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया।

बुड़ू। प्रखंड अंतर्गत जामगामी गांव में एक

महिला कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभा में सखी मण्डल के महिला कृषकों ने भाग लिया। इस मौके पर आधुनिक कृषि में महिलाओं का कार्य एवं योगदान विषय पर चर्चा की गई। उपस्थित महिलाओं को यह बताया गया कि कैसे वर्तमान में हो रहे खेती के कार्यों में वैज्ञानिक पद्धति के समावेश से इसे और लाभकारी बनाया जा सकता है। उन्हें यह भी बताया गया की आप खेती में संतुलित उर्वरक प्रयोग कर और जैविक खादों के उपयोग से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं खेती में लागत भी कम कर सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा को बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में झफको के राज्य विपणन प्रबंधक श्री यू के सिन्हा ने महिलाओं को झफको के नैनो यूरिया एवं डीएपी का खेती में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कहा कि कैसे ये उत्पाद उनके लिए लाभकारी है और कैसे इनके सभी फसलों में प्रयोग करने से एक तरफ जहां लागत में कमी आती है। वहीं गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन प्राप्त होने के साथ मिट्टी, हवा पानी और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। उन्होंने नैनो उर्वरकों के प्रयोग विधि का विस्तार से चर्चा किया एवं कृषकों से निवेदन किया कि आप सभी इसका प्रयोग करें और अपने सभी अन्य दीदी बहनों को भी कराने का प्रयास कीजिए। कार्यक्रम में शामिल सखी मन्त्रल की बहनों ने भी अपना विचार व्यक्त किया एवं आज के इस गोष्ठी को बहुत ही लाभकारी बताया और झफको के इस प्रयास के लिए धन्यवाद दिया।



प्रखंड अध्यक्ष नीलू देवी सुमन देवी सुधा झाए संगीता देवी शांति देवी रीना देवी जोन मारिया क्रैसेंसिया तिग्गा एंजेलो टोपनो सीमा तिकों पूनम किस्कूप टेरेंसा तिग्गाए स्टेला एक्का सपना मेयर्स मेरी किस्कूप अनिता टोप्यो माधुरी कुमारी गावत्री देवी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थीं।

## स्पीड न्यूज

## भक्ति जागरण से कलाकारों की बढ़ती है प्रतिभा : पूर्व सांसद

**पाटन पलामू।** प्रखंड के ग्राम पोखरिया में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्ति जागरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भाजपा नेता मनोज कुमार व कार्यक्रम के कमेटी के लोग एवं उपस्थित ग्रामीण से उदघाटन कराया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद मनोज कुमार के साथ नावाखास के समाजसेवी जगदीश पांडे, जिला कार्यकारिणी सदस्य अशोक तिवारी, भाजपा नेता जैनैन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता गोपाल प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद, समिति अध्यक्ष मनी देवी, सचिव मनोज यादव, कोषाध्यक्ष रिंकी देवी, रीना देवी, रेवती देवी, मंजू देवी, वार्ड सदस्य सोनमती देवी, शीला देवी, सुजानू देवी, ममता देवी, सुनीता देवी, जवाहर उरांव, नरेश यादव, पवन प्रजापति, उदय प्रजापति, पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रदेव प्रसाद, विनोद पांडे शामिल थे।

## होटल में आग लगने से डेढ़ लाख की संपति जलकर हुआ खाक



**सतबरवा पलामू।** सतबरवा थाना क्षेत्र के लहलहे बस स्टैंड स्थित एन एच 75 के किनारे गुरुवार की रात्रि में एक होटल में आग लगने से करीब डेढ़ लाख रुपए की संपति जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि रात्रि में 10:00 बजे के करीब होटल में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों की अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया। अग्नय समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो अगल-बगल के दर्जनभर दुकान जलकर खाक हो जाते जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना थी। इस आग लगी में होटल मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। होटल संचालक निरंजन कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि दुकान में रखे सभी समान जल कर खाक हो गया जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस होटल से दर्जन भर लोगों का जीविका चलता था, अब इन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मामले की जानकारी मेदिनीनगर सदर अंचल तथा सतबरवा थाना पुलिस को दी गई है।

## उपायुक्त ने घायलों को अस्पताल पहुंचानेवाले को किया सम्मानित

**बोकारो।** समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त विजया जाधव ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले दो अच्छे मददगार पेटेरवार प्रखंड निवासी रजनीश कुमार एवं चंद्रशेखर कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सड़क के रहनुमा के रूप में इन्होंने समय पर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। विदित हो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के गुड सेमेरिशन योजना के तहत गुड सेमेरिशन को पुर्स्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिसने तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचाई है और दुर्घटना के गोल्डेन आवर के भीतर चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए नजदीकी अस्पताल/सीएचसी/ट्यूमा सेंटर में भर्ती करवाया है। इसका योजना का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना और दूसरों को निर्दोष जीवन बचाने के लिए प्रेरित करना है।

## केंद्रीय अस्पताल ढोरी मे अल्ट्रा सोनो ग्राफी इकाई का हुआ उद्घाटन ।

● 2013 मे खराब हुआ था अल्ट्रा सोनो ग्राफी मशीन 2024 मे लगा अल्ट्रा सोनो ग्राफी मशीन

**बेरमो।** सीसीएल ढोरी क्षेत्र के केन्द्रीय अस्पताल ढोरी मे अल्ट्रा सोनो ग्राफी इकाई का उद्घाटन बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार चास नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सौरव कुमार भवानीया, ढोरी जीएम मनोज कुमार अग्रवाल ने संकुच रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। चास नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सौरव कुमार भवानीया ने कहा कि बहुत खुशी की बात है। सीसीएल के द्वारा अल्ट्रा सोनो ग्राफी मशीन लगाया गया है। लोगों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बोकारो सिविल सर्जन डॉ. दिनेश कुमार ने कहा कि इस अस्पताल मे अल्ट्रा सोनो ग्राफी मशीन लगने से गर्भवती महिलाओं को काफी फायदा होगा। इस मशीन के संचालन से आसपास के लोगों को काफी फायदा होगा। जवदी अस्पताल में डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि केन्द्रीय अस्पताल ढोरी मे 2013 मे मशीन खराब हुआ था काफी प्रयास कर अल्ट्रा सोनो ग्राफी मशीन 2024 मे लगा है। कार्यक्रम का संचालन श्वेता सरण ने किया। मौके पर मुख्य रूप से श्रमिक नेता आर. उनेश, विनय सिंह, रविन्द्र मिश्रा, कैलाश ठाकुर, जवाहर यादव, विनय सिंह, महेन्द्र चौधरी, जयनाथ मेहता, देवतानंद दुबे, रविन्द्र मिश्रा, करगली सीएमओ संजय सिन्हा, डॉ. पुनीत कुमार आदि उपस्थित थे।

## अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनसीसी गर्ल्स कैडेट ने निकाली रैली

**दुमका।** अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनसीसी चतुर्थी झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी कैडेटों के द्वारा रैली चोक से विवेकानंद चोक तक रैली निकाली गई। रैली के दौरान महिला कैडेटों ने महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के उपर कई नारे लगाए। एनसीसी की महिला कैडेटों ने एनसीसी की खाकी वर्दी से कैडेटों ने नारी शक्ति का एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनसीसी चतुर्थी झारखंड गर्ल्स बटालियन दुमका के सभी स्टाफ, एनांस एवं कैडेट्स मौजूद रहे।

## देवों के देव हैं महादेव : अशोक

**पाटन पलामू।** छतरपुर पाटन विधानसभा अंतर्गत शिवरात्रि मेले का उदघाटन दलित कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक पासवान द्वारा किया गया। इसमें मुख्य रूप से मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, संजय पासवान, चूलन सिंह, मुखिया सोमान यादव, राकेश दुबे, शहजाद अली, अनवर अंसारी, डिपान्दी भैया और सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मौके पर श्री अशोक ने कहा कि महादेव देवों के देव हैं। इनकी आराधना से सभी कार्य पूरा होता है।

## अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन

## खबर मन्त्र संवाददाता

**दुमका।** अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संताल परगना क्षेत्र के महिलाओं ने लहती संस्था के द्वारा शुक्रवार को मल्टीपरपस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जपि अध्यक्ष जॉयस बेसरा, डा. प्रमोदिनी हांसदा, एडवोकेट किरण तिवारी, निर्मला पुतुल मुर्मू, मेरी नीला मरांडी, अभाव, प्राभवती टुडु, लोलोसिनी मुर्मू, नैसी हेन्ड्रम शामिल हुईं। कार्यक्रम में महिलाओं ने महिला पर हो रहे हैं हिंसा से संबंधित अपने-अपने विचार रख नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने समस्याओं को प्रदर्शित कर समाज को संदेश देना चाहा की बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म किया जाए। अंधविश्वास



के शिकार में महिलाओं को डायन के नाम पर बलि चढ़ाया जाता है। महिलाओं पर हिंसा जगह-जगह होती है। घर में या गांव में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लहती के सचिव बितिया मुर्मू ने अतिथियों को स्वागत करते हुए कहा कि आज विश्व में महिला दिवस में महिलाएं एक जुटका की प्रति दिखाया गया है। हर एक

जगह अपने गोलबंद होकर के अपने हक और हक्कू की मांग के लिए एक जुट हुए हैं। हमारे भारत देश में महिलाएं आज अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीकों से इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाएं मना रहे हैं। महिलाओं को शिकार बनाता है, वैसे रूढ़िवादी व्यवस्था के प्रति हमें विरोध करने की

जरूरत है। जागरूक करने की जरूरत है और समाज में एक प्रगतिशील समाज स्थापना करने की ओर हम सभी महिलाएं एक संकल्प लें। जब तक समाज में कंधों से कंधे मिला करके नहीं जाएंगे तब तक हमारे समाज विकसित नहीं होगा। आज हमारी महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ी है कोई काम महिलाओं के हाथ से छूटा नहीं है। आज हम आदिवासी महिलाएं भी किसी से काम नहीं है। आज इसका मिसाल है। दुमका जिला में विदेशी महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह जागरूक महिला थी जो विश्व भ्रमण में निकली थी। इस लिए वह अपना हक के लिए सरकार को नतमस्तक किया और अपना अधिकार का मांग किया। अगर वह जागरूक महिला नहीं होती

वह अपने बातों को वही दबा देता और वह चुप बैठ जाती है। अतिथि किरण तिवारी ने कहा कि हमें कानून को जानने की जरूरत और कानून हमेशा संरक्षण देता है अगर हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं तो वही कानून हमको संरक्षण करते हैं हमारे समाज में महिलाएं कई तरह की शोषण के शिकार होती है उसे शोषण से उबर के लिए एक मात्र हमें शिक्षा, जागरूकता से ही अधिकार को पहचान सकते हैं और उसके लिए हम लड़ सकते हैं। डॉ प्रमोदिनी हांसदा ने कहा शिक्षा हमारे जीवन के लिए सबसे मजबूती हथियार है। शिक्षा जिस घर में होगी वहां और ऐसे ही बहुत समस्या का समाधान अपने आप हो जाती है। इसलिए मैं आज सामान महिलाओं से अपील करना चाहते हैं कि शिक्षा को एक घर में जलाना

चाहिए तथा अशिक्षा को दूर भगाने का संकल्प लें। मुख्य अतिथि जॉयस बेसरा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमने अपने अधिकार के लिए एक जुट होना पड़ेगा। तभी हमें अधिकार मिलेगा सरकार के बहुत सारा योजनाएं हैं। महिलाएं ले नहीं सकती है जागरूकता और शिक्षा के अभाव में हमें हर क्षेत्र में अपने एक जुट दिखाना होगा और मजबूती से पेश करना होगा तभी हमारे आवाज आगे बढ़ सकते हैं और समाज की महिलाएं अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। निलुदीवी, निर्मला पुतुल मुर्मू व भीनसेट मुर्मू ने भी कार्यक्रम का सम्बोधित किया। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में महिलाओं ने सांस्कृतिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सभी प्रखंडों के काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।

## बाबा मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब

## खबर मन्त्र संवाददाता

**देवघर।** महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को बाबागंगरी देवघर का दृश्य देखते ही बन रहा था। तड़के 3:05 बजे बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का पट खुला। सबसे पहले कांचा जल पूजा हुई। इसके बाद 4:35 बजे से हजारों की संख्या में आम भक्तों ने पूजा-अर्चना शुरू की। दर्शन के लिए मंदिर से पांच किलोमीटर तक लाइन लगी रही। श्रद्धालु के कतारबद्ध तरीके से होकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करा बाबा को जल अर्पण किया। राज्य के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा परिसर भक्ति में गोते लगा रहा था। पूरा मंदिर बोल बम, ओम नमः शिवाय, जय शिव के नारों से गुंज रहा था। भोलेनाथ के दर्शन को लेकर बोते गुरुवार की शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने

लगी थी। शिवरात्रि को लेकर बैद्यनाथ मंदिर में कई परंपराओं का भी आज निर्वाह किया जाता है, जिसमें सिंदूरदान की परंपरा गठबंधन की परंपरा बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चार पहर की पूजा की परंपरा के अलावा रात्रि में भव्य बारात निकली जाती है। **वीआईपी पूजा पर लगाई गई रोक** : सुचारू जलापण के लिए देवघर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। मंदिर परिसर और रूट लाइन में भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी कारा को जल अर्पण किया। राज्य के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा परिसर भक्ति में गोते लगा रहा था। पूरा मंदिर बोल बम, ओम नमः शिवाय, जय शिव के नारों से गुंज रहा था। भोलेनाथ के दर्शन को लेकर बोते गुरुवार की शाम से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने

श्रद्धालुओं को सुलभ जलापण कराने में जुटा हुआ है। इस भीड़ को देखते हुए आज किसी भी तरह की वीआईपी पूजा पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस भीड़ से बचना चाहता है वह शीघ्र दर्शन का कूपन कटाकर कुछ अलग व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, वनू कॉलेक्स, नेहरू पार्क, शिवम झू चौक के अलावा बल और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गयी कारा को जल अर्पण किया। राज्य के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालुओं की सुविधा की जानकारी ली। उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनके साथ बोलबम के नारे भी लगाए। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाते हुए उपायुक्त ने उन्हें बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए कई तरह की सुविधाएं

मुहैया करायी गई है। साथ ही किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि श्रद्धालु आसानी से बाबा बैद्यनाथ को जलापण कर सके, ऐसी व्यवस्था करें। आपका व्यवहार ऐसा हो कि श्रद्धालु अच्छी अनुभूति लेकर जाएं। **500 रुपये में शीघ्रदर्शन कूपन** : श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्रदर्शन कूपन को व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं को इसके लिए 500 रुपये का भुगतान करना था। उपायुक्त के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी देवघर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, जिला खेल पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपनी-अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे।

## बासुकीनाथ धाम महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

## खबर मन्त्र संवाददाता

**दुमका।** महाशिवरात्रि पर उपराजधानी के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिव शक्ति के विवाह में श्रद्धालू शरीक होकर अपने धन्य मान रहे हैं। फौजदारी बाबा मे जो भी श्रद्धालू आते है उनकी मुगद आवश्यक ही पूरी होती है। खास कर आज का दिन श्रद्धालुओं के लिए अहम दिन है। आज के दिन भगवान भोले नाथ और मैया पार्वती काफी खुश रहते हैं। यही वजह है अपनी मन का मुगद लिए श्रद्धालु बिहार, बंगाल, राजस्थान और महारष्ट्र से पहुंचे हुए है। श्रद्धालु ने इस अवसर पर कुशल क्षेम का प्रार्थना किया। पीएम मोदी को लेकर अबकी बार 400 पार का आशीर्वाद मांगेंगे श्रद्धालुओं का एक माँग।

**शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़** : महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में शुक्रवार को सुबह से ही पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जो दिन भर जारी रहा। शहर के शिवपहाड़ मंदिर को फुलों से भव्य रूप से सजाया-संवारा गया है। गर्भ गृह से लेकर सड़क तक



श्रद्धालुओं की लंबी कतार पहुंच गई थी। शाम तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा के लिए लगी रही। महाशिवरात्रि के अवसर पर दुमका के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शहर के लोग अपने स्थानीय शिव-पार्वती के मंदिरों में सुबह भर जारी रहा। शहर के शिवपहाड़ मंदिर को फुलों से भव्य रूप से सजाया-संवारा गया है। गर्भ गृह से लेकर सड़क तक

**गोपाल मंदिर से निकाली गई बाबा की भव्य बारात** : शहर के रसिकपुर स्थित शिव-गोपाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही। स्थानीय लोगों ने महाशिवरात्रि में पूजा-अर्चना के लिए फूल, बेलपत्र आदि समग्री की दुकानें सड़क किनारे लगा दिया था। **कुरुवा स्थित शिव मंदिर में**

**श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़** : शहर से 5 किलोमीटर दूर सृष्टि कुरुवा में भी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगी हुई थी। मंदिरों के समीप मेला का माहौल रहा। बच्चों के खेल समग्री की दुकानें सजी रही। चाट दुकानदारों के पास महिलाएं एवं बच्चों की भीड़ लगी रही। पूजा समितियों द्वारा मंदिर में सज्जों-सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया है। **21 वर्षों से त्रिपुरारी नाथ में होती है भव्य पूजा** : शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित त्रिपुरारी नाथ में महाशिवरात्रि को ले भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां भक्तों ने कतारबद्ध होकर भोलनाथ की पूजा-अर्चना किए। शिव-पार्वती की शादी यहां विशेष तरीके से की जाती है।

मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के लिये पूजा को सुगम बनाने के लिये व्यवस्था किया। त्रिपुरारीनाथ मंदिर से शाम में बारात निकाली गई।

**डंगलपाड़ा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु** : शहर के डंगलपाड़ा शिव मंदिर में शिव विवाह भव्य रूप मनाया गया। महाशिवरात्रि पर सवेरे यहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।



## अजित महतो ने हुलहुलीटांड में ऐतिहासिक कुड़मी महाजुटन का विगुल फुंका

**बोकारो/कसमारा।** आदिवासी कुड़मी समाज के तत्वीधक में आयोजित तीन दिवसीय कुड़मी महासम्मेलन की तैयारी को लेकर सिंहपुर इंटर महाविद्यालय के सभागार में संपन्न बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी कुड़मी समाज के मुख्य संयोजक मुलखुट्टि मुलमाना अजीत प्रसाद महतो केन्द्रीय सचिव शशि शेखर महतो चारी गुरु सन्तोष केटियार उपस्थित थे। मौके पर श्री महतो ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों ने एक ही आशवासन दिया था कि 3 महीनों के अंदर हमारी तीनों मांगें पूरी हो जाएंगी। परंतु आज तक आशवासन के सिवाय कुछ नहीं देखने को मिला। इसलिए 8, 9 और 10 मार्च को लगभग बीस लाखों की संख्या में पुरलिया स्थित हुलहुली टांड में ऐतिहासिक कुड़माली जिआउ महाजुड़आही अर्थात् महाजुटन होगा। इस कार्यक्रम में ओडिशा पश्चिम बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ असम बांग्लादेश एवं अन्य राज्यों के लगभग 20 लाख लोग शामिल होंगे इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। केन्द्रीय सचिव शशि शेखर महतो महतो ने कहा कि इस बार के मंथन में समाज के मुख्य तीन मांगों को हासिल करने के लिए सभी बुद्धिजीवी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता एवं समाज के शुभचिंतकों द्वारा इस विषय पर गहन चर्चाएं होगी। बैठक में शोधकर्ता सुरेश बानुआर दीपक पुनरियार संजय पुनरियार पंचानन महतो परमेश्वर महतो दुर्गा प्रसाद महतो बिन्देश्वर महतो देवेन्द्र महतो प्रह्लाद महतो दुर्गा महतो निर्मल महतो बेनिलाल महतो आदि उपस्थित थे।

## महाशिवरात्रि पर्व हर हर महादेव के उदघोष से गुंजारमनाल देहा शिवालय



**मोहम्मदगंज पलामू।** महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के शिव मंदिर, शिवालय, शिव चबूतरा स्थित शिवालिंग पर अहले सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए खासकर महिला प्रतियों की भीड़ रही। कि लोगो ने रुद्राभिषेक भी किया। पूर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। भीमचुल्हा स्थित शिव मंदिर में पुजारी गंगा तिवारी ने पूजा अर्चना किया। गीता विश्वकर्मा मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर परिसर में पूरे दिन श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। शाम में भजन कीर्तन मंडली के सुदर्शन शर्मा, रामनाथ व्यास, विनोद मेहता, लल्लू विश्वकर्मा, अरविंद शर्मा, भोला, निर्मल, कंचन सहित कीर्तन मंडली के द्वारा भजन कीर्तन गाकर पूरे माहौल को भगवान शिव की भक्ति का माहौल बनाया।

## स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष का किया गया स्वागत

नीलांबर पितांबरपुर पलामू। प्रखंड के महावीर मंदिर के पास स्वर्णकार संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सोनी को लेस्लीगंज महावीर मंदिर के पास स्वर्णकार संघ नीलांबर पितांबरपुर के लोगों ने फूल माला के साथ स्वागत किया। उसके बाद जिला अध्यक्ष ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना किया। धनंजय कुमार सोनी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि हमें जीत दिलाने में लेस्लीगंज के लोग काफी मदद किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यह पेटूक भूमि है अपने समाज के हर एक दुकान पर एक एक अग्निशामक यंत्र लगवाऊंगा तथा जरूरतमंद दुकानदार को तीन लाख रुपये तक की लोन की व्यवस्था करूंगे।

## बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से थरथारा तेतुलमुडी कोल डंप

सिजुआ। मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर बीसीसीएल के कोल डंप पर एटक का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन शुक्रवार को खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। देखते ही देखते धरनास्थल रणक्षेत्र में बदल गया, जहां चारों तरफ अफरातफरी मची रही। बम के धमाके और गोलियों की गुंज के बीच लोग इधर उधर भागते नजर आए। धरना एक दिन पहले गुरुवार को जोगता नागरिक समिति के बैनर तले शुरू हुआ था। हालांकि विरोध में कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता कोल डंप पर डटे हुए थे। परंतु शुक्रवार को बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 5 तेतुलमुडी कोलडंप पर दोनों पक्ष टकराव पर उतर आए और पूरा परिसर अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण रहने के बावजूद धरना शांतिपूर्ण चला। हालांकि लोडिंग कार्य और ट्रकों का काटा बंद था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में झामुमो नेता हरेंद्र चौहान के समर्थक और कांग्रेस के लोग झंडा लेकर बंदी का विरोध करने धरना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद माहौल बिगड़ता चला गया। देखते ही देखते तेतुल मुडी कोल डंप रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। धरना पर बैठे विधायक दुर्लु महतो समर्थक एटक के कार्यकर्ता बम और गोली चलाने लगे। इसके बाद धरनास्थल पर भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अपनी जगह के लिए इधर-उधर भागते रहे। झामुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एटक के धरना स्थल पर बने पंडाल में तोड़फोड़ की और उसे ध्वस्त कर दिया।





ध्वजाधारिधाम में उमड़ी शिवभक्तों की भारी भीड़, हर हर महादेव व बोल बम के नारों से गुंजायमान रहा क्षेत्र

# महाशिवरात्रि : भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें : महा मंडलेश्वर

उमा शंकर

**कोडरमा।** महाशिवरात्रि के मौके पर ध्वजाधारिधाम धाम में आयोजित दो दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव के पहले दिन पहाड़ की चोटी से लेकर तलहटी तक शिवभक्तों की जनसैलाब उमड़ पड़ी, आलम यह था कि कोडरमा बाजार से लेकर ध्वजाधारिधाम तक भक्तों का रेला लगा हुआ था। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ का जय घोष करते हुए देर शाम तक भक्तों ने भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर मंगला कामना किया तो 777 सीढ़ियां चढ़ कर पहाड़ कि चोटी पर अवस्थित शिवलिंग का जलाभिषेक किया। एक अनुमान के मुताबिक शिवरात्रि के पहले दिन करीब 70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इसके पूर्व सुबह करीब 11 बजे दो दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का उद्घाटन धाम के मुख्य महंत महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज ने किया। इसके पश्चात् विधायक डॉ. नीरा सादक एवं डीडीसी ऋतुराज, जपि अध्यक्ष रामधन यादव सहित हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना किया एवं सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मेले में जिला प्रशासन की ओर से दो मेडिकल टीम एवं दो एम्बुलेंस तैनात किये गये हैं, ताकि इमरजेंसी में किसी को कोई परेशानी हो तो उसे राहत पहुंचाई जा सके। वहीं डीएस डॉ. रंजीत कुमार डीएमओ डॉ. मनोज कुमार, डीआरसीएचओ डॉ. कुलदीप कुमार, डॉ. शरद



कुमार, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. प्रशांत उपाध्याय समेत स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम मुहूर्त देखे।  
**मेले के सफल आयोजन में इनका रहा अहम भूमिका :** वजारी आश्रम कोडरमा के सदस्यगण महंत तुफानी बाबा, राम लखन सिंह, मनोज कुमार झुनु, अरूण सिंह, यमुना यादव, विकास

निरंजन, सूरज यादव, गजेन्द्र राम, चन्दन, अशोक यादव, राजू सिंह, विजय सिंह, मिथलेश सिंह पंकज साव, मंटू विश्वकर्मा, मीन्द्र यादव, विपिन मोदी, शशि सिंह, प्रेम कुमार साव, दिनेश मोदी, सुभाष बर्णवाल, शिवम सिंह, गिरज तिवारी, विजय यादव, दिवाकर यादव, जंक्शन माहर्तो, सहदेव यादव, विनोद



यादव, शंकर मोदी, मुकेश गोस्वामी, विट्टु मोदी, सिक्ंदर साव, अनिल मोदी, विनोद कुमार मुन्ना, रामचंद्र यादव, मुन्ना राम, लालू यादव, रोहित चौरा, पंकज वर्मा, संदीप साव आदि की शिवरात्रि महोत्सव को सफल बनाने में अहम भूमिका रही।  
**वैदिक रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ विवाह :** देर रात्रि में देवाधिदेव भगवान महादेव और माता पार्वती की विवाह कार्यक्रम स्थानीय पुरोहित मुकेश पाण्डेय के द्वारा सम्पन्न कराया गया। विवाह उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना किया गया।  
**कई जिलों से पहुंचे श्रद्धालु :**

महाशिवरात्रि के मौके पर कोडरमा समेत हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और बिहार राज्य के सीमावर्ती जिला नवादा और गया से भी भारी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे।  
**सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी :** ध्वजाधारिधाम में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पहाड़ परिसर से लेकर पहाड़ की चोटी तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आया पहाड़ एवं आसपास के मंदिरों व प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावे चप्पे चप्पे में महिला और पुरुष बल की तैनाती की गई है।

## हर-हर महादेव के नारे के साथ निकली शिव बारात



खबर मन्त्र संवाददाता

**सिमरिया (चतरा)।** प्रखंड में महाशिवरात्रि का पर्व भक्ति भाव से मनाया गया। इस मौके पर प्रखंड मुख्यालय में सोहर कला और बानासाड़ी मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली गई और हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। बारात में भूत प्रेत देव दानव और यक्ष किन्नर के रूप धरे कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। महाशिवरात्रि पर दासी पहाड़ी से कलश यात्रा निकाली गई जिसमें शामिल श्रद्धालुओं ने लेपो मंदिर

पहुंचकर जलाभिषेक किया। इसके अलावा प्रखंड के समस्त मंदिरों और शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों का तांता लगा रहा और लगातार पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। महाशिवरात्रि पर महिलाओं ने उपवास रखा और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पर्व पर शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था और उनमें विद्युत लड़ियां लगाई गई थी। पंडित चिंतामणि पाठक ने बताया कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।

## करमचंद भगत की 17वीं पुण्यतिथि मनी

खबर मन्त्र संवाददाता

**बेड़ो।** बेड़ो प्रखंड मुख्यालय के महादानी मैदान स्थित रंगमंच में शुक्रवार को शिक्षाविद् राजनैतिक व सामाजिक पुरोधा रहे स्वर्गीय करमचंद भगत की 17वीं पुण्यतिथि भाजपा नेता रामनारायण भगत की नेतृत्व में मनाई गई। जहां समाज सेवियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर रामनारायण भगत ने कहा कि इस क्षेत्र के महान समाजसेवी राजनैतिक एवं शिक्षाविद् रहे स्व करमचंद भगत ने राज्य एवं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राओं के भविष्य को मध्य नजर रखते हुए जहां पूरे तत्कालीन बिहार में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय तथा बेड़ो क्षेत्र में महाविद्यालय का स्थापना किया था। जिसका नतीजा है कि आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र छात्राएं इंटर स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वहीं



**हहाप के जामुनटोली मैदान में कार्यक्रम**

**नामकुम।** अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रखण्ड के हहाप पंचायत के जामुनटोली मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें पंचायत के सभी गांव टोलो से बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम कोसंबोधित करते हुए हहाप मुखिया नन्हे कच्छप ने कहा कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा मिला कर चल रही हैं। अब बहल समय नहीं है जब महिलाएं सिर्फ घर में ही रहती थीं, अब वे घर से निकल कर ट्रेन, हवाईजहाज आदि चला कर नीतय नए कितीर्मान स्थापित कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के बीच कबडडी, फुटबाल, कुर्सी रैस आदि खेलों का आयोजन किया गया।

पुण्यतिथि पर जीवंतता प्रदान करने वाले महान व्यक्तित्व को स्मरण कर भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित कर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर चर्चा किया। ज्ञात हो कि पूर्व शिक्षा मंत्री सुख करमचंद भगत का जन्म 4 जनवरी 1935 को हुआ था। जिनकी मृत्यु 8 मार्च 2008 में लंबी बीमारी के बाद हो गई थी। मौके पर

## श्री हनुमान संकीर्तन मंडल की कमिटी का हुआ विस्तार

**झुमुरितिलैया (कोडरमा)।** नगर के धार्मिक संगठन श्री हनुमान संकीर्तन मंडल का 43वां वार्षिकोत्सव सह दो दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव 22 एवं 23 अप्रैल को मेसर्स केदारनाथ राम गोपाल की फेक्ट्री अड्डा बंगला रोड में म्गाम से मानने का निर्णय लिया गया। दो दिवसीय जन्मोत्सव में स्थानीय एवं बाहर के कलाकारों के द्वारा भजन प्रस्तुति की जाएगी। पहले दिन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसके बाद सामूहिक सुंदरकांड का पाठ के बाद अखंड ज्योत के साथ भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 23 अप्रैल को भव्य गजरा, हवन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। दो दिवसीय कार्यक्रम को लेकर विभिन्न कमेटियों का भी पदभार दिया गया, जिसमें शोभायात्रा के परियोजना निर्देशक बबलू सिंह, दरबार सज्जा के लिए गिरारी सोमानी, बबलू पांडेय, भजन कार्यक्रम के संचालन के रूप में राकेश कपसोमि, गिरारी सोमानी, बबलू सिंह, प्रसाद वितरण एवं महाप्रसाद के लिए सुजय सिंह, प्रदीप बनर्जी को बनाया गया, जबकि मीडिया का प्रभार पीयूष सिंह व ओम प्रकाश निरंजन को दिया गया है।

## जिले भर में धूमधाम से मनी महाशिवरात्रि गाजे-बाजे के साथ निकली शिव बारात

खबर मन्त्र संवाददाता

**गढ़वा।** महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में पारंपरिक श्रद्धा एवं उल्लास के साथ काफी धूमधाम से मनायी गई। विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिनाभर उमड़ती रही। जिला मुख्यालय सहित जिले के कई स्थानों पर मेला का भी आयोजन किया गया। शिव भक्तों ने उपवास रखकर महाशिवरात्रि पूर्व धूमधाम से मनाया। कई शिवालयों में 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित शिव ढोंडा मंदिर, जुड़वनियां शिव मंदिर, गढ़वा प्रखंड स्थित खोन्हर नाथ महादेव शिव मंदिर में परिसर में मेला का आयोजन किया गया। शिव ढोंडा सहित अन्य स्थानों पर 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। इस स्थानों में लगे मेले में काफी भीड़ उमड़ी। शिव भक्तों ने पूजा अर्चना कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को



पूजा अर्चना करते लोग

## 10 दिवसीय पशु मेला का हुआ उद्घाटन

**गिद्धौर।** प्रखंड के अंतर्गत में स्थित कौलेश्वरी मंदिर परिसर में 10 दिवसीय पशु मेले का गिद्धौर पंचायत मुखिया निर्मला देवी ने दीप प्रज्वलित व फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाला यह मेला को संबोधित करते हुए लोगों से भाईचारागी बनाए रहने की बात कही। उन्होंने ने मेला में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की बात कही। ताकि दूरदराज से आने वाले लोगों की किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मौके पर उपस्थित मंदिर पुजारी बैकनाथ पांडेय समाजसेवी सत्येंद्र कुशवाहा संजय दांगी आशीष साव रमेश दांगी लखन दांगी एवं दर्जनों समाजसेवी उपस्थित थे।

भांग, धतुरा, बेलपत्र, गन्ने का रस, दूध, दही आदि अर्पित किया। कई भक्तों ने रूद्राभिषेक भी किया। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती

खोन्हर स्थित शिव मंदिर में अहले सुबह से ही भक्त पहुंच गए थे। मेला में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई थी।

## लतरातू के मारुति मंगल धाम में महाशिवरात्रि पर हुई पूजा-अर्चना



खबर मन्त्र संवाददाता

**लापुंग।** लापुंग प्रखण्ड के लतरातू पंचायत स्थित मारुति मंगल धाम में महाशिवरात्रि के शुभ-अवसर पर पूजा-पाठ भजन-कीर्तन व प्रसाद विवरण के साथ भण्डारा का आयोजन किया गया। मारुति मंगल परिवार धार्मिक एवं सामाजिक संस्था द्वारा मारुति मंगल धाम को विकसित किया जा रहा है। धाम प्रांगण में ही शिवलिंग तथा नंदी की प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन कर श्रद्धालु प्रफुल्लित हुए। इस अवसर पर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखी गई। मारुति मंगल परिवार के हजारों सदस्यों से शिव आराधना कर सर्वसमाज के हित और एकता

के लिए कामना की। जिसमें महिला पुरुषप बच्चेपे बड़े, बुजुर्गों सहित स्थानिय लोगों ने महाशिवरात्री का पुजा एवं प्रसाद ग्रहण मारुति मंगल धाम में किया। ज्ञात हो कि मारुति मंगल परिवार 2012 ई० से लगातार सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से निस्वार्थ सेवा भाव में लगे हैं। परिवार के सदस्य बेहद अनुशासित रूप में अपने कार्यों का निर्वाह करते आ रहे हैं साथ हीए जुआए शराबए अंधविश्वासए सड़क दुर्घटनाए बाल . विवाह मृत्यु भोजए दहेज प्रथाए युवाओं को शिक्षा व्हायस्थए रोजगार और खेल के प्रति भी गांव.गांव जाकर जागरूक बनाने का कार्य करती है।

एक नजर में

## नौनिहाल बच्चों को मनोरंजन और खेल के साथ पढ़ाई बना आकर्षण का केंद्र : पुनीत कोडरमा।

आदर्श प्लस टू उच्च विद्यालय मधवाटांड में छोटे छोटे बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई करने के लिए सामग्री उपलब कराई गई है और आज नौनिहाल बच्चों को मनोरंजन के लिए लाए गए सामग्री को उपयोग करने का अवसर दिया गया। जिसमें बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। उक्त जानकारी विद्यालय के प्राचार्य पुनीत यादव ने दी। वहीं उन्होंने कहा कि आज के मौजूदा समय में बच्चों को मनोरंजन के साथ पढ़ाई की आवश्यकता है, जिसे हम एंटरटेन विथ स्टडी कहते हैं। बच्चों को उनके मासूमियत उम्र में किताबों का बोझ न देकर उनके खुश रहने का एक सफल प्रयास आदर्श प्लस टू उच्च विद्यालय मधवाटांड ने किया है। ज्ञात हो की अब विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे विद्यालय परिसर में ही एक से एक आकर्षक मनोरंजन के साान जैसे झूला, स्लाइडिंग, जॉर्जिंग नेट, घोड़ा गाड़ी, स्लीपवेल इस तरह के आकर्षक साानों से अपने आप को मनोरंजन करेंगे। विद्यालय में उपलब कराई गई इस तरह के सामान को देखकर सारे बच्चे काफी खुश दिखाई दिए और सभी ने विद्यालय प्रबान को न्यवाद दिया। इस अवसर पर आदर्श प्लस टू उच्च विद्यालय मधवाटांड के उप प्राचार्य अर्जुन चन्द्र यादव, रवींद्र कुमार सिंह, महेन्द्र कुमार, सोहन कुमार पांडेय, गोपाल कुमार यादव, नरेश सिंह, मुकेश राणा, सीताराम यादव, दीपक कुमार, शाहिद हुसैन, पपु कुमार, केदार यादव, सनेज कुमार, शमशेर आलम, सतीष कुमार साह, इरिथाक अंसारी, सुनील यादव, पंकज साव, नीलम प्रभा, जन्तत परवीन, पम्मी राय, सतीश कुमार, मिथलेश पांडेय समेत सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद थे।

## अग्रेंजी शराब के साथ तीन युवक गिरफ्तार

**सतगावां (कोडरमा)।** थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायडीह के रास्ते बालीमहादेव मंदिर के समीप से बाइक सवार तीन युवकों को अग्रेंजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संख्या में प्रशिथु डीएसपी सह थाना प्रभारी दिवाकर कुमार ने बताया कि शुक्रवार को बालीमहादेव के समीप पुलिस आीक्षक के निदेशानुसार 247 विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस पदाीकारी सअनि नशांत अहमद और सशस्त्र बलों के द्वारा अवेा अग्रेंजी शराब ले जा रहे तीन युवकों गिरफ्तार किया गया, साथ ही बाइक को जप्त किया गया। वहीं गिरफ्तार युवकों के पास से आरएस750 एमएल. का 28 बोलतल जप्त किया गया। साथ ही दो बाइक जप्त कर थाना लाया गया, जिसमें एक बाइक हॉंडा साइन एसपी (बीआर27एस/9641) तथा दूसरी बाइक में निबान संख्या नहीं है। वहीं गिरफ्तार युवकों में जमशेदपुर जिला के उलीडीह थाना अंतर्गत रामनगर निवासी 30 वर्षीय अशोक चोरी पिता भोला चोरी, 27 वर्षीय मिथुन पंडित पिता द्वारिका पंडित नवादा जिला बिहार कदीरगंज थाना अंतर्गत खरगुविधा तथा 26 वर्षीय अवेश कुमार पिता द्वारिका चोरी नवादा जिला बिहार कादीरगंज थाना के अंतर्गत खरगुविधा निवासी शामिल हैं। मामले को लेकर विधि सम्मत करवाई की जा रही है।

खबर मन्त्र संवाददाता

## विधायक ने किया छह करोड़ की लागत से बनने वाली बीडीओ सह सीओ आवास का शिलान्यास

**मझिआंव।** पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विवायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने नगर पंचायत अंतर्गत विवाह मंडप के समीप छह करोड़ रूपये की लागत से बनाने वाले प्रखंड विकास पदाीकारी सह अंचलाीकारी सहित द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के तृतीय वर्ग के कर्मचारी के लिए आवास का शिलान्यास नायरिल फोडू कर किया। इसके पश्चात नगर मंडल अध्यक्ष पवन कुमार की अध्यक्षता में विवाह मंडप भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि प्रखंड विकास पदाीकारी एवं अंचलाीकारी सहित द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए आवास का शिलान्यास किया गया है। यहां के पदाीकारियों के लिए आवास नहीं रहने के कारण गड़वा या कहीं अन्य जगह पर जाकर रहते थे। जिसके कारण जनता के विकास कार्य में काफी परेशानी होती थी। पूर्व में मैं संकल्प किया था ब्लाक बनवाया और अब पदाीकारी को रहने के लिए आवास भी बना दे रहा हूं। भारत के प्रानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं सभी कामों में पारदर्शीता के कारण आज हमारा देश विश्व गुरु बनने के कगार पर है। सबका साथ सबका विकास के नारों के साथ उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य शिक्षा बिजली आदि योजनाओं में भरपूर विकास किया। कहा की जिस पेड़ को हमने लगाया वह नगर पंचायत फल फूल रहा है। पंचायत से नगर पंचायत को 6 गुना से आीक राशि मिलती है। जिसके कारण जनप्रतिनिी एवं पदाीकारी राशि को खर्च नहीं करने पा रहे हैं। नगर पंचायत के तमाम इलाकों में नगर विकास विभाग के द्वारा विकास का काम किया गया है। कहा की मझिआंव, बरडीहा एवं कांडी प्रखंड में 300 करोड़ रुपए से सड़क का निर्माण करवाया गया है। कहा की मझिआंव एवं विश्रामपुर को अनुमंडल बनाना मेरी आीक्ष इच्छा रह गई है, जो बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। मौके पर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति सदस्य भारत सरकार के भोला चंद्रवंशी, नगर पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा देवी, प्रखंड विकास पदाीकारी सतीश भगत, अंचल आीकारी शंभू भाम, सांसद प्रतिनिी शोभा जयसवाल, चंचल दुबे, राजीव रंजन तिवारी, वीरेंद्र नाथ दुबे, नंद कुमार पांडेय, अर्जुन दास, संजय कमलापुरी, उमाशंकर यादव, दीपक कुमार चंद्रवंशी, सर्वेद्र पांडेय, अखिलेश विश्वकर्मा, दीपक चौहान, सचिचदानंद सिंह, संजन सिंह, वीणा देवी, पार्वती कुंवर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

## खलारी के नए डीएसपी रामनारायण चौधरी ने संभाला पदमार

**खलारी।** खलारी पुलिस अनुमंडल के पुलिस उप अधीक्षक रामनारायण चौधरी ने शुक्रवार पदभार संभाला। योगदान देने के बाद रामनारायण चौधरी ने खलारी उप अधीक्षक कार्यालय स्टॉफ एवं कनीय अधिकारियों से बैठक कर क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र में आमजनए गणमाम्य लोगों एवं कनिय पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाकर क्षेत्र की विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर कार्य करेंगे। कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराधिक संगठन और गलत कामों में सलियन लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आमजन को किसी भी तरह की समस्या हो या उन्हे कोई सुचना देनी हो वो 24 घंटे उपलब्ध है। आम लोगों से उन्हेने सहयोग की अपील भी की। उन्हेने भरोसा दिया कि खलारी पुलिस अनुमंडल में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे।

## हुंडरू फाल बूढ़ा महादेव मंदिर में 201 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा

**सिकीदरी।** हुंडरू फाल स्थित बूढ़ा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार को कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा में आसपास के गांव से 201 महिलाएं शामिल हुईं। कलश यात्रा को समाजसेवी सह अभिषेक वस्त्रालय के संस्थापक सागर साहू व भाजपा नेता जैलेंद्र कुमार ने रवाना किया। मंदिर परिसर से बूटगोड़ा स्थित स्पर्णखा नदी से जल का उठाव किया गया। आयोजन को सफल बनाने में राजकिशोर प्रसादए बालेश्वर बेदियाए शुभम बेदियाए विष्णु बेदियाए नागेश्वर बेदिया आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। महेशपुर स्थित शिव मंदिर में पूजा करने के लिए दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। आयोजन समिति के द्वारा मंदिर को आकर्षण तरीके से सजाया गया था। सफल बनाने में अध्यक्ष कृष्ण मुण्डा सचिव रोहित मुण्डा सीनू मुण्डा जितेंद्र मुण्डा तथा श्यामसिंह नायकए विनोद उरांव आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। इधर गेतलसूद शिव मंदिर से पीपलेश्वर धाम रामदगा तक शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई। शिव बारात में मुख्य रूप से संजय नायक भोला महतो राजेश लोहरा वरूण ठाकुर जीतुन महतो जय सहाय राय लोहा भोला ठाकुर शिवेंक गोस्वामी शिकारी महतो सीता मुण्डा गणेश लोहरा महेंद्र लोहरा वतीश नायक अर्जुन नायक धर्मवीर नायक अजय ठाकुर शंकर मुण्डा महेश महतो योगेश गोस्वामी बबली महतो आदि शामिल रहे।



# रोहित-शुभमन के शतक से भारत को 255 रन की लीड



## एजेंसी

**धर्मशाला।** भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में आठ विकेट गंवाकर 473 रन बना लिए हैं। फिलहाल कुलदीप यादव 27 और जसप्रीत बुमराह 19 रन बनाकर नाबाद हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 218 रन बनाए थे। ऐसे में टीम इंडिया की बढ़त 255 रन की हो चुकी है। भारतीय टीम इस बढ़त को तीसरे दिन और आगे बढ़ाना चाहेगी। शुक्रवार को पहले सत्र में भारत ने 30 ओवर में 129 रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। यह इस सीरीज में पहली बार रहा जब किसी टीम ने 100 से ज्यादा रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद दूसरे सत्र (लंच से चायकाल तक)

## रोहित-शुभमन 2021 से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय, हिटमैन ने गावस्कर की भी बराबरी की

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टेस्ट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाए। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 171 रन की साझेदारी निभाई और भारत को इंग्लैंड पर आसानी से बढ़त हासिल करने में मदद की। रोहित ने 162 गेंद में 103 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 13 चौके और तीन छक्के लगाए। इसके अगले ही ओवर में जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ट किया। उन्होंने 150 गेंद में 110 रन की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 12 चौके और पांच छक्के लगाए। इन पारियों से रोहित और शुभमन ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। साल 2021 से लेकर अब तक टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक

लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में रोहित और शुभमन शीर्ष पर हैं। रोहित ने इस दौरान छह और शुभमन ने चार शतक लगाए हैं। इसके बाद रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और केएल राहुल हैं। इन सभी ने तीन-तीन शतक लगाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय ओपनर्स में रोहित ने महान सुनील गावस्कर की बराबरी की। दोनों ने चार-चार शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में विजय मर्चेंट, मुस्ली विजय और केएल राहुल तीन-तीन शतक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बतौर ओपनर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। रोहित के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट यानी तीनों

### 2021 से लेकर अब तक भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक

6 - रोहित शर्मा	इंग्लैंड के खिलाफ भारत के किसी सलामी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक टेस्ट शतक
4 - शुभमन गिल	4 - सुनील गावस्कर
3- रवींद्र जडेजा	4 - रोहित शर्मा
3- यशस्वी जायसवाल	3- विजय मर्चेंट
3- ऋषभ पंत	3- केएल राहुल
3- केएल राहुल	3- नुरली विजय
<b>अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खलीर ओपनर सबसे ज्यादा शतक</b>	
49 - डेविड वॉर्नर	अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक शतक
45 - सचिन तेंदुलकर	100 - सचिन तेंदुलकर
43 - रोहित शर्मा	80- विराट कोहली
42 - किशु मेन	48 - राहुल द्रविड
41 - सतयुज जायसवाल	48 - रोहित शर्मा
40 - मधु हेडन	38 - वीरेंद्र सहवाण
	38 - संजय नानुली

फॉर्मेट मिलाकर 43 शतक हैं। इस मामले में वह सिर्फ डेविड वॉर्नर और सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। वॉर्नर ने 49 और सचिन ने 45 शतक लगाए थे। दोनों संन्यास ले चुके हैं। वॉर्नर ने इसी साल टेस्ट से संन्यास लिया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में रोहित चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। रोहित ने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 48 शतक लगाए हैं।

## सैमसन ने किया खुलासा- कैसे मिली थी राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी

### एजेंसी

**कोच्चि।** आईपीएल 2024 सीजन से पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन सामने आए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कैसे 2021 सीजन में कप्तानी मिली। उन्होंने फ्रैंचाइजी के साथ अपनी कप्तानी यात्रा को भी याद किया। सैमसन ने नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स 2022 सीजन के फाइनल में पहुंचा था जहां उन्हें गुजरात टाइटन्स से हार मिली थी। सैमसन ने कहा कि हम दुबई में खेल रहे थे और हमारे मुख्य मालिक मनोज बडाले मेरे पास आए और पूछा कि क्या मैं टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा- हां, मैं तैयार हूँ। सैमसन पहली बार 2013 में रॉयल्स के साथ जुड़े थे। 2016 और 2017 में वह दिल्ली

डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ रहे। फिर उनकी वापसी हुई। सैमसन ने कहा कि यह इतना आसान नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पर्याप्त संख्या में मैच खेले हैं और मैंने यह जानने के लिए इस फ्रैंचाइजी में पर्याप्त समय बिताया है कि मैं वह भूमिका निभा सकता हूँ, और मुझे विश्वास था कि मैं यह कर सकता हूँ। सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी शैली पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में क्रिकेट खेल रहे हैं जिसकी टीम दुनिया में नंबर 1 है तो मुझे लगता है कि यहाँ खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी ज्यादा होगी। अगर केएल के एक लड़के को आगे आना है और राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे कुछ विशेष करना होगा।

## गोवा और सर्विसेज के बीच होगा संतोष ट्रॉफी का फाइनल

**इंटांगर।** गोवा की टीम ने मणिपुर को तथा सर्विसेज ने मिजोरम को हराकर संतोष ट्रॉफी के लिए 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल मुकाबला गोवा और सर्विसेज के बीच खेला जायेगा। शुक्रवार रात गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में गोवा ने अतिरिक्त समय में मणिपुर को 2-1 से हराते हुए संघर्ष करना पड़ा।

## पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर का एक्शन संदिग्ध, फिर भी पीएसएल में जारी रखेगें बॉलिंग

**नयी दिल्ली।** पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में क्वेटा ग्लैंडिएटर्स के स्पिन गेंदबाज उस्मान तारिक की गेंदबाजी एक्शन पर संदेह जताया गया है। अंपायरों ने उनके एक्शन का रिपोर्ट किया है। हालांकि, उन्हें अभी तक बैन नहीं किया गया है और वे तब तक गेंदबाजी जारी रख सकते हैं जब तक कि वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुविधा में गेंदबाजी एक्शन टेस्ट नहीं करा लेते। अगर टेस्ट से पहले लीग के दौरान उन्हें फिर से रिपोर्ट किया जाता है, तो उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि एक्शन बैन होने के बाद वह मैच खेल सकते हैं लेकिन गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। अपने पहले PSL मैच में, तारिक ने चार ओवर फेंके और बिना कोई विकेट लिए 27 रन दिए। दूसरे मैच में, उन्होंने दो विकेट लिए और चार ओवरों में केवल 16 रन दिए। हालांकि उन्होंने तीसरे मैच में किफायती गेंदबाजी की, जिसमें 3.3 ओवरों में केवल 23 रन दिए, लेकिन क्वेटा ग्लैंडिएटर्स वह मैच हार गया। तारिक की गेंदबाजी एक्शन पर शुरूआत से ही चर्चा है। वह धीरे-धीरे दौड़ते हैं और गेंद को रिलीज करने से पहले।

## मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने लॉन्च की आइपीअल 2024 के लिए जर्सी, यह है खासियत

### एजेंसी

**नयी दिल्ली।** इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2024) सीजन के लिए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी जर्सियां लॉन्च कर दी हैं। डिजाइनर मोनिसा जयसिंग द्वारा तैयार की गई मुंबई इंडियंस की जर्सी मुंबई के उत्साही प्रशंसक आधार, पलटन, मुंबई इंडियंस के गौरव और शहर की जीवंत भावना की प्रतीक है। टीशर्ट नीले रंग की है जोकि अटूट प्रतिबद्धता और वफादारी का प्रमाण देती है। डिजाइनर ने कहा कि जैसा कि हमारे खिलाड़ी प्रतिष्ठित नीले और सुनहरे रंग की जर्सी पहनते हैं, वे अपने साथ हमारे एमआई पलटन की आशाओं और सपनों



को लेकर चलते हैं, जो कि ऊजावर्त हैं। मुंबई इंडियंस ने एक मॉडिया विज्ञापन में कहा कि जर्सी सम्मान का प्रतीक है, इसे पहनने वाले सभी लोगों के लिए एक का प्रतीक है, क्योंकि उन्हें टीम की शानदार विरासत का एक टुकड़ा अपने साथ ले जाने के साथ-साथ

शुभमन ने चौथा शतक लगाया। दोनों का यह इस सीरीज का दूसरा शतक था। इस साझेदारी को बेन स्टोक्स ने तोड़ा। नौ महीने बाद गेंदबाजी के लिए आए स्टोक्स ने इस सीरीज में पहली बार गेंदबाजी की और अपनी पहली ही गेंद पर रोहित को क्लीन बोल्ट किया। रोहित ने 162 गेंद पर 13 चौके और तीन छक्के की मदद से 103 रन की पारी खेली। यह पारी के 62वें ओवर में हुआ और इसके अगले ही ओवर

रन बनाकर आउट हुए थे। भारत ने दूसरे दिन एक विकेट पर 135 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरा दिन खेलकर 338 रन जोड़े और सात विकेट गंवाए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक जड़े। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 171 रन की साझेदारी निभाई और भारत को 250 के पार पहुंचाया। रोहित ने टेस्ट करियर का 18वां शतक और

20 लीग की बेहद सफल सनराइजर्स ईस्टर्न केप जर्सी के समान दिखती है। एडेन मार्करम की कप्तानी वाली टीम ने 2023 और 2024 दोनों में SA20 लीग जीती थी। सनराइजर्स हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर जर्सी की घोषणा की, जिसमें शीर्ष गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने नई शैली का मॉडल तैयार किया। उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया: हैदराबाद की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए तैयार। #आईपीएल2024 के लिए हमारा नया ज्वलंत कवच, प्लेविथफायर। जर्सी अनावरण पोस्ट ने पहले ही टीम के समर्पित प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है, जो अपनी टीम को शानदार नए रंगों में मैदान पर देखने के लिए उत्साहित हैं।

## विराट से अपनी बॉन्डिंग पर बोले डू प्लेसिस- हमारे बीच खेल को लेकर बहुत समानताएं हैं

### एजेंसी

**नयी दिल्ली।** रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने कहा है कि फिटनेस और खेल के प्रति सोच के कारण विराट कोहली के साथ उनकी काफी समानताएं मिलती हैं। आरसीबी के कप्तान ने कहा कि कुछ चीजें हैं जो विराट और मुझमें बहुत समान हैं, जिस तरह से हम

खेल को देखते हैं या खेल के बारे में सोचते हैं, उसमें भी बहुत समानता है। हम खुद को कैसे देखते हैं और हम कैसा बनना चाहते हैं, इसमें भी बहुत समानता है। जाहिर तौर पर हम कड़ी मेहनत करने, फिट रहने और अच्छा खाने पर ध्यान देते हैं। हम एक पेशेवर खिलाड़ी होने के लिए एकजैसा दृष्टिकोण देखते हैं और मुझे लगता है कि यही कारण है कि हम

आरसीबी में अपने पहले सीजन में इतने अच्छे से जुड़ गए थे। डू प्लेसिस ने कोहली की फिटनेस की सराहना करते हुए उन्हें युवा पीढ़ी के लिए उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि वह अद्भुत है, वह कड़ी ट्रेनिंग करता है, वह बहुत फिट है और मुझे लगता है कि आज के खेल के युग में अगर आपको लंबा खेला है तो आपको ऐसा बनना होगा।

## दिल की धड़कन बढ़ाने वाले मैच में यूपी ने उड़ाई दिल्ली की धज्जियां

### एजेंसी

**नयी दिल्ली।** महिला प्रीमियर लीग का 15वां मैच शुक्रवार को यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में एलिसा हेली की अगुवाई वाली टीम ने दिल्ली को एक रन से हरा दिया। यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 138 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली 19.5 ओवर में 137 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। यूपी ने इस जीत के साथ दिल्ली से अपनी पिछली हार का बदला ले लिया।



बल्लेबाज 12 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गईं। उन्हें साइमा ठाकुर ने अपना शिकार बनाया। टीम को दूसरा झटका एलिस कैप्सी के रूप में लगा। वह 15 रन बनाकर आउट हुईं। दिल्ली का तीसरा विकेट 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगा।

उन्हें दीपिका शर्मा ने एलबीडब्ल्यू किया। वह 46 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुईं। चौथा विकेट जेमिमा के रूप में गिरा, जो 17 रन बना सकीं।

## दिल्ली के गेंदबाजों ने दी यूपी वॉरियर्स को टक्कर

दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स ने दीपिका शर्मा के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में आठ विकेट खोकर 138 रन बनाए। एलिसा हेली की कप्तानी वाली टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। दूसरे ओवर में यूपी की विस्फोटक बल्लेबाज किरण नवगिरे आउट हो गईं। उन्हें तितास साधू ने क्लीन बोल्ट किया। किरण ने सिर्फ पांच रन बनाए। वहीं, कप्तान हेली 29 रन बनाकर आउट हुईं। सात गेंदों के भीतर टीम को तीसरा झटका ताहलिया मेथ्वा के रूप में लगा। उन्हें अरुंधति रेड्डी ने आउट किया। दिल्ली के गेंदबाजी आक्रमण के आगे यूपी का बल्लेबाजी क्रम संघर्ष करता दिखा।

ग्रेस हैरिस ने 14, श्वेता सहरावत ने चार, पूनम खेमनार ने एक, सोफी एक्लेस्टोन ने आठ रन बनाए। वहीं, साइमा ठाकुर और गौहर सुल्ताना क्रमशः पांच और एक रन बनाकर नाबाद रहीं। दिल्ली के लिए तितास साधू और राधा यादव ने दो-दो विकेट लिए। वहीं, शिखा, अरुंधति, जेस जोनासन और एलिस कैप्सी को एक-एक विकेट मिला।

**अंक तालिका का हाल :** दिल्ली की इस जीत से अंक तालिका में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स आठ अंकों के साथ बनी है। वहीं, यूपी छह अंक और -0.365 रन रेट के साथ चौथे नंबर पर है। दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस हैं जिसके खाते में आठ अंक हैं। वहीं, तीसरे स्थान पर आरसीबी हैं जिसके छह अंकों में तीन में जीत दर्ज की है। आखिरी पायदान पर एक जीत के साथ गुजरात जायंट्स बनी हुई है।





# विटामिन की कमी से बचें आहार में करें परिवर्तन



मदद करता है। इसकी कमी होने पर त्वचा रोग, झुर्रियां, इम्यून सिस्टम कमजोर, महामारी के समय हैवी ब्लीडिंग, हृदय रोग और आंखों संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। विटामिन 'सी' की मात्रा कम होने पर शरीर कुछ संकेत देता है, जिसे पहचान कर आप बहुत सी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आज आपको विटामिन 'सी' की कमी के लक्षण और इसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।

## विटामिन 'सी' की कमी को पूरा करने वाले आहार

वृद्धि करने के लिए शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थों की जरूरत होती है। शरीर में विटामिन-सी की कमी होने पर बहुत सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन 'सी' यानि एस्कॉर्बिक एसिड भी शरीर को स्कर्वी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर त्वचा रोग, झुर्रियां, इम्यून सिस्टम कमजोर, महामारी के समय हैवी ब्लीडिंग, हृदय रोग और आंखों संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। विटामिन 'सी' की मात्रा कम होने पर शरीर कुछ संकेत देता है, जिसे पहचान कर आप बहुत सी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आज आपको विटामिन 'सी' की कमी के लक्षण और इसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।

विटामिन-सी से भरपूर आंवला का सेवन शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने में काफी

## विटामिन 'सी' की कमी के लक्षण

मददगार साबित होता है।

- जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द
- त्वचा पर छोटे लाल-नीले स्पॉट पड़ना
- थकान, कमजोरी और बुखार
- अचानक मसूड़ों से खून बहना
- मसूड़ों में सूजन
- अचानक वजन घटना
- बार-बार सर्दी-जुकाम या इन्फेक्शन होना
- सांस लेने में तकलीफ
- पाचन समस्याएं

- मुनक्का
- संतरा
- चौलाई
- शिमला मिर्च
- दूध

## पांच पौधे जिनसे सुगर हो सकता है नियंत्रित

आजकल सेहत के हिसाब से देखा जाए तो हर 5 में तीसरा शख्स डायबिटीज यानी की शुगर का मरीज है। इन मरीजों को अपने खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि गलत खान-पान इनकी हालत को और भी खराब कर सकता है। अगर यह आऊट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो शुगर के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन अगर आप अपने आहार में कुछ ऐसे चीजों को शामिल करेंगे जो डायबिटीज प्रॉब्लम को दूर करने में सहायक होती हैं तो आप इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा भी पा सकते हैं। जैसे नीम के पत्ते खाना, करेला का जूस पीना, जामुन की गुठली का चूर्ण इन लोगों के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा कुछ पौधे भी हैं जो इस रोग से मुक्ति दिलाने में काम करते हैं। हम आपको ऐसे ही पौधे के बारे में बताते हैं जो घर की सुंदरता के साथ आपको निरोग भी रखते हैं।

### 1. तुलसी

तुलसी को हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है और यह आपके सबके आंगन में सजी भी दिखेगी। लेकिन सिर्फ डैकॉरेशन ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी यह काफी फायदेमंद है। सिंदियों में अगर आप तुलसी की चाय पीएंगे तो टंड से बचे रहेंगे। इसमें तेज एस्ट्रोन वाला स्वाद भरपूर होता है जो तनाव को दूर रखता है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसे ब्लड में शुगर का लेवल सही रहता है।



### 2. पुदीना

पुदीने का पौधा, हाई और लो दोनों तरह के ब्लडप्रेशर को कंट्रोल में रखता है। पुदीने की चटनी और इसका जूस डायबिटीज लोगों के लिए फायदेमंद है इसलिए घर में इसे जरूर लगा कर रखें।

### 3. धनिया

भोजन में स्वाद व खुशबू बढ़ाने के साथ-साथ हरा धनिया थकान मिटाने में बेहद सहायक है। धनिया में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होने से मधुमेह का रोग खत्म हो जाता है। साथ ही इससे खून में इंसुलिन की मात्रा भी नियंत्रित रहती है। इसके साथ ही यह शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है।

### 4. करी पत्ता

करी पत्ते का इस्तेमाल न सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है बल्कि इससे अनिगनत रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। डायबिटीज के रोगी के लिए करी पत्ता रामबाण का काम करता है। डायबिटीज के रोगियों को 5-6 करी पत्ता रोजाना खाना चाहिए।

### 5. लहसुन

लहसुन के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता। ये अपने आप में ही एक लाजवाब औषधि है। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ-साथ एक किस्म का ब्लड प्यूरीफायर है जो हमारे खून को तो साफ रखता ही है साथ ही हाथ पैरों और जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लहसुन के इस्तेमाल से कैन्सर जैसी बीमारी की भी कंट्रोल किया जा सकता है।

जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पौधे हरियाली देने के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। तो बस इंतजार किस बात का, आप भी इन सेहतमंद पौधों को अपने घर पर उगाकर खुद को बनाइए सुपर हेल्दी।

## गर्मियों में गुलकंद का सेवन लू से बचाये

गुलाब के फूल से तैयार गुलकंद खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए फायदेमंद होता है। गर्मियों में इसके सेवन से लू से राहत मिलती है। इसके अलावा यह हाथों-पैरों में होने वाली जलन को खत्म करता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग दवाइयां तैयार करने के लिए किया जाता है। गुलकंद में विटामिन सी, ई और बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से शरीर ठंडा रहता है और गर्मी के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। गुलकंद बनाने का तरीका सामग्री गुलाब की पंखुडियां- 200 ग्राम शक्कर- 100 ग्राम छोटी इलायची (पीसी हुई)- 1 टीस्पून सौंफ (पीसी हुई)- 1 टीस्पून विधि1. गुलाब की पंखुडियों को धोकर किसी कांच के बर्तन में डालें। 2. फिर इसमें सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलाएं और इसे ढक्कर 10 दिन धूप में रखें। 3. इसे बीच-बीच में हिलाते रहें। 4. जब आपको लगे पंखुडियां गल चुकी है तो सभ्य गुलकंद बन कर तैयार है। जामिए गुलकंद खाने के फायदे

**शरीर को रखें तरोताजा**  
गुलकंद के सेवन से शरीर तरोताजा रहता है और पेट को ठंडक मिलती है। गर्मी के कारण होने वाली थकान, आलस्य, मांसपेशियों का दर्द और जलन आदि से छुटकारा से मिलता है। यह शरीर को एनर्जी देने वाला एक शीतल टॉनिक है। नकसीर फूटने से बचाए गर्मियों में तेज धूप लगने के कारण नकसीर फूटने के खतरा होता है। इससे बचने के लिए धूप में निकलने से पहले 2 चम्मच गुलकंद खाएं।



## डायरिया का लक्षण पहचानें तुरंत करें इलाज

केले और सेब का सेवन आंतों की गति को नियंत्रण करके दस्त की समस्या को दूर करता है। वहीं केला और सेब के मुरब्बे में मौजूद पेक्टिन भी दस्त की मात्रा को कम करके डायरिया को दूर करता है।

4. चावल  
दस्त की समस्या को दूर करने के लिए दिन में कम से कम 3 बार चावल के पानी का सेवन करें। इससे आपकी परेशानी कुछ समय में ही दूर हो जाएगी।

बच्चों के लिए घरेलू नुस्खे  
1. शक्कर  
बच्चों में डायरिया की समस्या को दूर करने के लिए एक गिलास पानी में 2 चम्मच शक्कर और चुटकीभर नमक और नींबू का रस मिलाकर पीलाएं। इससे बच्चों को तुरंत आराम मिल जाएगा।  
2. नारियल पानी  
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप बच्चों को नारियल पानी पीलाएं। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व डायरिया के साथ-साथ शरीर की कमजोरी भी दूर करते हैं।

3. दाल का पानी  
डायरिया में बच्चों को दाल का पानी, चावल का मांड़ और दही-केला खिलाएं। इसके अलावा पानी में सौंफ का चूर्ण और बेलगिरी मिलाकर बच्चों को पीलाने से भी दस्त की समस्या दूर होती है।

4. अनार के छिलके  
अनार के छिलके को सूखाकर उसे पीस लें। इसके बाद इस चूर्ण में शहद मिलाकर बच्चों को दिन में 3-4 बार चाटने के लिए दें। इससे दस्त आने बंद हो जाएंगे।

### नया जानने की चाह

ऐसे लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं और उसकी जिम्मेदारी भी किसी और पर नहीं डालते। ऐसे लोग अहंकारी हो ही नहीं सकते। क्योंकि ऐसे लोगों के पास फालतू के कामों के लिए ऊर्जा नहीं होती। कामयाब लोग हर समय कुछ न कुछ नया जानने की फिराक में रहते हैं। ये लोग परेशानियों को एक नई चुनौती के रूप में देखते हैं। सूरज निकलने के पहले दिन शुरू करते हैं तो उनके लिए कभी भी समय की कमी नहीं होती।

### रचनात्मकता

कामयाब लोगों का एक और खास गुण होता है कि उनमें कोई एक न एक रचनात्मकता जरूर होती है। कोई सितार बजाता है, कोई चित्रकार होता है, कोई गल्प लिखने में माहिर होता है और सबसे बड़ी बात ये है कि कामयाब लोगों के काम बड़े मजबूत होते हैं। ये धैर्य के साथ दूसरों को सुनते हैं। जरा सी बात पर उत्तेजित नहीं होते।

### पढ़ाई में अब्बल

एक शिक्षण संस्थान ने अपने सीमित आकलन में पाया है कि जो छात्र सुबह जल्दी जगते हैं, उनकी कामयाबी की दर उन लोगों से 50 फीसदी ज्यादा है, जो सुबह देर से जगते हैं। मतलब साफ है कि अगर कामयाब होना है तो जीवन में, पढ़ाई में, सुबह जल्दी जगना होगा। सुबह जल्दी उठने से शरीर में ऊर्जा का लेवल शानदार रहता है।

### एकाग्रता व मानसिक सेहत

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सुबह जल्दी जगने वाले लोग दिन के ज्यादातर समय अपने काम में मन लगा पाते हैं। उनकी एकाग्रता बनी रहती है। ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी दूसरे लोगों के मुकाबले नियंत्रण में रहता है। सुबह जल्दी उठने वाले लोग शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी फुर्तील होते हैं और ऐसे लोगों की फूड हैबिट्स आमतौर पर ज्यादा हेल्दी पायी गई हैं। सुबह जल्दी जगने वाले लोगों की नींद की गुणवत्ता देर से उठने वाले लोगों के मुकाबले बेहतर होती है। इनका मेंटल स्टेटस भी दूसरों से बेहतर होता है।

जो लोग सुबह सूरज उगने के पहले जगते हैं, उनके शरीर का सर्कैडियन रिथम हमेशा कायम रहता है, उनके पास देर से उठने वाले लोगों के मुकाबले अपने लिए 10 से 15 प्रतिशत वक्त ज्यादा होता है। इसलिए सुबह जल्दी जगने की शुरुआत कीजिए, जिंदगी खुद व खुद व्यवस्थित हो जायेगी।



गर्मी का मौसम अपने साथ-साथ कई बीमारियों को लेकर आता है, जिसमें से एक है डायरिया की समस्या। डायरिया यानि दस्त लगना, जोकि बच्चों से लेकर बड़ों तक को हो सकती है। शरीर में पानी और नमक की कमी की कारण डायरिया की समस्या होती है। इस प्रॉब्लम के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट मरोड़ना, उल्टी आना, बुखार और शरीर में कमजोरी हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ नुस्खे बताएंगे, जिससे आपकी डायरिया की परेशानी तुरंत गायब हो जाएगी।

- डायरिया के लक्षण**  
कई बार पतली दस्त होना  
पेट में ऐंठन  
जी मिचलाना
- पेट में दर्द**  
हल्का सिरदर्द  
चक्कर आना  
उल्टी
- गिलास बार इस घोल का सेवन करें। डायरिया की समस्या दूर हो जाएगी।  
2. अदरक का रस  
अदरक के रस में नींबू का रस और काली मिर्च पाउडर मिक्स करके पीएं। इससे आपको डायरिया के साथ-साथ पेट दर्द से भी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा दिन में 3-4 बार अदरक की चाय का सेवन भी डायरिया को दूर करता है।  
3. केला और सेब

## सिकल सेल एनीमिया जैसी रोग से बचा रहा इलेक्ट्रो होमिया की चिकित्सा

सिकल सेल एनीमिया जैसी लाइलाज रोग से झारखंड सहित देश के हर कोने में मरीज परेशान और हैरान है। लेकिन रांची के इलेक्ट्रो होमियो के चिकित्सक डॉ युगेश्वर राम ने इस रोग के मरीज को मात्र दो माह में चलने फिरने लायक बना दिया। इस संबंध में हरियाणा के रहने वाले छोटे राम शर्मा उम्र 76 वर्ष ने खबर मन्त्र को बताया कि वे करीब दो तीन वर्ष से अपनी कमजोरी और रक्त अल्पता के शिकार होकर चलने फिरने लायक भी नहीं रहे थे। भिवानी, रोहतक जयपुर, संगरूर सहित कई स्थानों पर अपना इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जनवरी महिने में उनके पुत्र जो रांची में रहते हैं उन्हें डॉ युगेश्वर से अपने पिताजी की स्थिति बतायी। वगैर देर किये जनवरी में रांची आये। इसके बाद उनका इलाज इलेक्ट्रो होमियो पैथ से इलाज आरंभ हुआ। छोटे राम शर्मा ने बताया कि सिर्फ रक्त की जांच के आधार पर दवा आरंभ किया गया और मात्र दो माह में वे रातू रोड से अपने अलकापुरी स्थित बेटे के निवास तक पैदल चलने लगे। यह दूरी लगभग दो किलोमीटर है। इससे पूरे परिवार में प्रसन्नता के लहर है। मैं कारोबारी हूँ और अप्रैल माह में हरियाणा जा रहा हूँ लेकिन तीन माह की दवा लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा चर्म रोग से परेशान था और इसी क्रम में रातू रोड दुर्गा मंदिर के समीप डॉ युगेश्वर से मिला था। मात्र 15 दिनों में ही महिने का रोग समाप्त हो गया। इससे उत्साहित होकर उन्होंने अपने पिता की समस्या बतायी और डॉ युगेश्वर के कहने पर अपने पिता को हरियाणा से रांची बुलाया। मात्र एक जांच के आधार पर इलाज आरंभ किया गया और दो माह में ही परिणाम सामने आया है। होमोलोबीन का स्तर जो 3.96 से मात्र दो माह में 7.90 बढ़ गया। अभी चार माह की



दवा और दी गयी है जिसके बाद उनका रोग सिकल सेल एनीमिया जड़ से समाप्त हो जाएगा। डॉ युगेश्वर ने बताया कि उन्हें इस बात की

## मेदांता अब्दुर रज्जाक अंसारी मेमोरियल्स वीवर्स हॉस्पिटल रांची में महिला दिवस

मेदांता अब्दुर रज्जाक अंसारी मेमोरियल्स वीवर्स हॉस्पिटल रांची में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत अस्पताल निदेशक श्री विश्वजीत कुमार द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि मैडम संध्या रानी मेहता, आईपीएस, ने मेदांता की महिला कर्मचारियों को साहसी बनने और काम के मोर्चे को साहसपूर्वक प्रभावित करने के लिए प्रेरित किया। सम्मानित अतिथि डॉ. अनंदि ने एक सुंदर प्रस्तुति साझा की कि कैसे महिलाओं को कई मोर्चों का प्रबंधन करने और उन सभी में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मेदांता ने अपनी चयनित पांच महिला कर्मचारियों को वूमन ऑफ करेज अवार्ड भी प्रदान किया। इस दिन को मनाने के लिए महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए

आंशका थी कि मरीज इसी रोग से ग्रसित है और इसका इलाज अन्य माध्यमों से संभव भी नहीं है। विशेषकर झारखंड में सिकल सेल एनीमिया के मरीज बड़ी संख्या में हैं। रक्तअल्पता से जुड़े इस रोग में निश्चित तौर पर इलेक्ट्रो होमियो में है। लंबे समय से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे डॉ युगेश्वर ने बताया कि इलेक्ट्रो होमियो के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है और कई ऐसे रोगों का इलाज कम से कम पैसों में संभव है। डॉ युगेश्वर, इलेक्ट्रो होमियो क्लिनिक,



अन्य मनोरंजक और खेल गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री विश्वजीत कुमार ने हॉस्पिटल की महिला कर्मचारियों तथा डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों का योगदान अस्पताल के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका समर्पण, सौजन्य, और उत्कृष्टता से भरा हुआ काम हमें गर्वित बनाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनका योगदान असीम है और हम उनके साथ हैं, उनके साथ बढ़ते हैं। उन्हें समर्थन और सम्मान का सही मौका देना हमारी प्राथमिकता है।





## फूड प्लाजा सिदगोड़ा में 2 लाख पार्थिव शिवलिंग का किया गया पूजन

जमशेदपुर। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज सार्वजनिक दुर्गा पुजा कमिटी (फूड प्लाजा) सिदगोड़ा में करीब 2 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया। इस अवसर पर 5 व्यक्ति यजमान के रूप में एवं 1 व्यक्ति मुख्य यजमान थे। मुख्य यजमान के रूप में दिलीप कुमार झा एवं यजमान के रूप में श्री राजेंद्र कर्ण, चन्द्रभाल जी, रवि रंजन, रविन्द्र मिश्र एवं मिथलेश कुमार झा थे। 3 पण्डित जी ने मिलकर पुजा सम्पादित कराया। आचार्य गोविंद झा के संग पण्डित दामोदर जी एवं अनिल मिश्र थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष मोहन ठाकुर महासचिव धर्मेष्ट कुमार झा के अलावा कार्यकर्ता आर्यन, विकास, शिवम बिलास जी, देवेन्द्र झा प्रणय झा, रोशन कुमार सत्यम झा का सरहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर समस्त जमशेदपुर के मिथिला समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे।

## ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भोलेनाथ का किया जलाभिषेक



जमशेदपुर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सिदगोड़ा स्थित सूर्यधाम शिवालय में सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना कर बाबा भोलेनाथ की पूजा की। ओडिशा के राज्यपाल सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सूर्यधाम के शिवालय में देवाधिदेव महादेव एवं माता पार्वती, श्रीराम दरभार और सूर्य भगवान की पूजा- अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर झारखंड सहित ओडिशा वासियों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। सूर्यधाम शिवालय पूरा दिन बम-बम भोले, ओम नमः शिवाय, हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजाता रहा। इस अवसर पर सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण पूरे दिन श्रद्धालुओं की सेवा में तैनात रहे।

## आस्था का महासंगम

# हर हर शंभू... महादेवा... हर हर शंभू

## स्वर्णरेखा महा आरती देखने उमड़ी भीड़, मंत्री बन्ना गुप्ता ने की श्रद्धालुओं की आगवानी



देमुहानी घाट पर स्वर्णरेखा आरती देख मुग्ध मंत्री बन्ना गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी सुधा गुप्ता।



देमुहानी घाट पर उपस्थित लोग।



महा आरती पेश करते बनारस से आये पंडित।

### खबर मन्त्र व्यूटे

**जमशेदपुर।** शुक्रवार को सोनारी दुमुहानी घाट पर आस्था का महासंगम का समापन स्वर्णरेखा महा आरती के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बनारस से आये 21 पंडितों ने भव्य स्वर्णरेखा आरती

### देमुहानी संगम स्थल को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मेरा संकल्प है : बन्ना

प्रस्तुत की। हजारों लोग इस अवसर पर सपरिवार मौजूद थे। इस बार लोगों के बैठने से लेकर सुरक्षा तक

की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। देमुहानी घाट पर मंच की भव्यता सबका मन मोह रही थी। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और प्रतिमा के दोनों तरफ नमन वाले दो जोड़े हाथ पर प्रकाश पड़ने पर विहंगम दृश्य उत्पन्न हो रहा था। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता की

उपस्थिति में नदी पूजन की प्रक्रिया भी पंडितों ने पूरी करावी। स्वर्णरेखा आरती के पूर्व सारेगामा फेम गायिका श्रद्धा दास ने हर-हर शंभू...महादेवा भजन प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया। शाम सवा सात बजे से बनारस से पधारे 21 पंडितों ने भव्य गंगा आरती शुरु की.....जय

गंगा माता...मैया जय गंगे माता... और आरती के दौरान पार्श्व में मनोहारी आतिशबाजी भी हुई। इसके पूर्व सुबह में महासंगम की शुरुआत स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने सुबह में कलश यात्रा को विदा कर की। इस अवसर पर हजारों की संख्या

में उपस्थित महिलाएं हाथ में कलश लेकर भगवान भोले की आराधना और सेविंग लगाते हुए स्वर्णरेखा नदी से निकलीं। कलश यात्रा जुलूस सोनारी और कदमा के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुए मंदिरों और शिवालयों में जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर मंत्री बन्ना

गुप्ता ने कहा कि धर्म और आस्था का सोनारी दुमुहानी अद्भुत संगम स्थल बन चुका है इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का बीड़ा मैंने उठाया है जिसके कड़ी में स्वर्णरेखा का सौंदर्यकरण हो रहा है, सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है।

# 2025 तक टाटा स्टील के वर्कफोर्स में 25 प्रतिशत होंगी महिलाएं

### खबर मन्त्र व्यूटे

**जमशेदपुर।** टाटा स्टील जिस तरह अपनी उन्नत महत्वाकांक्षाओं की ओर आगे बढ़ रही है, वह सशक्त महिला कार्यबल भागीदारी की कल्पना कर रही है। कंपनी 2025 तक अपने कार्यबल में 25% विविधता हासिल करने के लक्ष्य के प्रति दृढ़ है। भविष्य के कार्य की कमान महिलाओं के हाथ में होना हमारे द्वारा देखे गए लंबे सामाजिक विकास का एक अपरिहार्य परिणाम है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी पहचान न बनाई हो। यह प्रवृत्ति और तेज होने वाली है। कंपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां उस पर बदलाव के लिए खुद को तैयार करने और कार्यस्थल को अपनी महिला कर्मचारियों के लिए अधिक अनुकूल और समावेशी बनाने की जिम्मेदारी है। टाटा स्टील को सांस्कृतिक रूप से भविष्य के लिए तैयार करने के हमारे सामूहिक



हेवी अर्थ मुवर्स चलाने वाली महिला टाटा स्टील कर्मी।

प्रयासों में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्य चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस्पात उद्योग की प्रकृति ऐसी है जो कई सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं उत्पन्न करता है। हमारे सामाजिक ताने-बाने में रची-बसी रूढ़िवादिता के कारण संरचनात्मक चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। हालाँकि, टाटा स्टील दृढ़ बनी हुई है और अग्रणी अभ्यासों और नीतियों को पेश करके चुनौतियों का सामना किया है। कंपनी ने अपने प्रबंधन प्रशिक्षु और ट्रेड अपरेंटिस

बैच में महिलाओं की संख्या बढ़ा दी है। संगठन के लिए युवा महिला अधिकारियों की एक टैलेंट पाइपलाइन तैयार करने के लिए 'वीमेन ऑफ़ मेटल' जैसी पहल, एक अद्वितीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, जिसमें महिला इंजीनियरिंग छात्राओं को छात्रवृत्ति, इंटरशिप और कंपनी के साथ नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कंपनी 'एगेंज' और 'इनाइट' नामक परामर्श कार्यक्रमों और नेतृत्व विकास कार्यशालाओं के माध्यम से

नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उच्च क्षमता वाली महिला अधिकारियों की पहचान करती है और उन्हें तैयार करती है। 'फ्लेक्स ऑफ़ चेंज' पहल के तहत, टाटा स्टील ने भारत में इस्पात उद्योग में महिला अग्रिमताओं का पहला दल बनाने के लिए 23 महिलाओं को नियुक्त की। अपनी 'वुमिने@माईस' पहल के माध्यम से, टाटा स्टील माइन में सभी शिफ्टों में महिलाओं को तैनात करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। 1 सितंबर, 2019 से ओएमक्यू डिवीजन में सभी तीन शिफ्टों में महिलाओं को तैनात किया गया है। इस पहल का समर्थन करने के लिए रखरखाव और खनिज प्रसंस्करण अनुभागों में महिला अधिकारियों की भर्ती भी की गई। अब तक, टाटा स्टील ने लगभग 100 महिलाओं को हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) ऑपरेटर्स के रूप में शामिल किया है - जो मानसिक रूढ़िवादिता को

तोड़ने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसी भूमिकाओं के लिए महिलाओं को कुशल बनाने के लिए तेजस्विनी 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है। टाटा स्टील के भीतर समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियाँ लागू की गई हैं जैसे एजाइल वर्किंग मॉडल, 'एक्सोल्यूट वर्क फ्रॉम होम' के साथ अन्य रेसिलिएन्ट वर्क मॉडल, 'राहत' (महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश) की शुरुआत, टेक टू पॉलिसी (एक नियुक्ति कार्यक्रम, महिला पेशेवरों को करियर ब्रेक पर या अन्यथा टाटा स्टील के साथ अपने करियर को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए), गैद लेने के लिए जेंडर न्यूट्रल सहायता नीति और महिलाओं को किसी भी अवधि की छुट्टी के बाद कार्यबल में लौटने में सक्षम बनाने वाली नीति आदि।

### एक नजर में

#### साई देवस्थानम शिव मंदिर में हजारों लोगों ने किया जलाभिषेक

**जमशेदपुर।** साई परिवार विश्व सेवा संस्थान, जमशेदपुर के तत्वधान में दो दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन प्रातः 5.00 बजे से शाम 5.00 तक आस पास के बहु संख्या में भक्त गण भोले बाबा का पूजन जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक किये। सुबह से ही भोले बाबा के शिवलिंग पर जल ढालने के लिए लम्बी कतार लगी हुई थी। संध्या 6.00 बजे से अगले दिन 9 मार्च प्रातः 5 बजे तक महाशिवरात्रि विशेष पूजन का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर अनुष्ठान का शुभारंभ आचार्य नन्दलाल मिश्र के द्वारा संकल्प पूजन अनुष्ठान प्रधान यजमान संस्था के अध्यक्ष श्री अनुप रंजन सपती के कर कमलो से हुआ। विशेष पूजन में नमक चमक रुद्राभिषेक, रुद्र हवन, पुष्पांजलि एवं महाआरती का आयोजन किया गया।



#### महाभंडारा का हुआ आयोजन

**जमशेदपुर।** आज श्री श्री शिव हनुमान मंदिर नीतिबाग कॉलोनी, स्लेग रोड में महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाभंडारा का आयोजन अधिवक्ता विवेक सिंह (मंदिर निर्माणकर्ता) के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिसमें बतौर मुख्यातिथि जमशेदपुर के पूर्व सी०जे०एम० एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा करीब 2000 शिवभक्तों के बीच पूड़ी, सब्जी और बुदिया का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राहुल सिंह, अनूप कुमार, चंदन सिंह, विकास कुमार, शुभम कुमार, मनीष, रंजन, कन्हाई गौराई, शेखर निगम, उमेश, सुशील, आकाश, रवि, अनमोल, बादल, अमन आदि लोग उपस्थित थे।



#### निर्माणधीन स्वामी लक्ष्मीनारायण बिड़ला मंदिर में रुद्राभिषेक पूजन हुआ

**जमशेदपुर।** महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गोलमुरी केबुल टाउन स्थित निर्माणधीन स्वामी लक्ष्मीनारायण बिड़ला मंदिर में देर संध्या रुद्राभिषेक पूजन हुआ। पुरोहित विनोद पांडेय ने पुरे विधि-विधान पूर्वक पार्थिव शिवलिंग का धार्मिक अनुष्ठान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन संपन्न कराया। मुख्य यजमान के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शिवलिंग की पुजा की। गंगाजल, दुध, दही, शहद, घी, नारियल पानी, गन्ना रस, जल से भवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ।



रुद्राभिषेक करते विधायक सरयू राय।

#### सरयू राय ने किया पौधरोपण

**जमशेदपुर।** आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय ने आज गोलमुरी, केबल टाउन स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में सफेद चन्दन, लाल चन्दन, कपूर, रुद्राक्ष और तुलसी का पौधा लगाया। मौके पर गोविन्द दोदराजका अशोक भालोटिया, आशु दोदराजका, शिवशंकर सिंह, अशोक गोयल, पप्पू सिंह सूर्यवंशी, आशुतोष राय, सुधीर सिंह, हरेराम सिंह, कैलाश झा असीम पाठक, साकेत गौतम, राजू दुर्गा, प्रवीण सिंह, विनोद राय सहित कई गण्यमान लोग उपस्थित थे।

#### विधायक मंगल कालिंदी ने किया जलाभिषेक

**जमशेदपुर।** जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने शुक्रवार को महाशिवरात्रि के मौके पर जमशेदपुर प्रखंड की छेता गोविन्दपुर सिंगल स्थित शिव शीतला मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के माथे पर जलाभिषेक किया। इस दौरान विधायक ने मंदिर में मत्था टेककर बाबा भोलेनाथ के समक्ष क्षेत्र में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधायक ने मंदिर कमेटी को बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिक एवं नंदी जी का मूर्ति सौंपा। विधायक ने बताया कि बीते दिनों मंदिर पहुंचने पर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने मंदिर में स्थापित बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो जाने की जानकारी देते हुए नया शिवलिंग उपलब्ध करवाने की मांग रखी थी। विधायक ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर आज मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के पश्चात मंदिर कमेटी को बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग, माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिक तथा नंदीजी की मूर्ति को सौंप दिया। इस दौरान मंदिर में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं।



## इवाना आर्ट आज होटल रमाडा जमशेदपुर में खोलेगा आर्ट स्पेस

### खबर मन्त्र व्यूटे

**जमशेदपुर।** इवाना आर्ट जमशेदपुर में आर्ट स्पेस के उद्घाटन के साथ सांस्कृतिक समृद्धि के एक नए आयाम को अपनाने जा रहा है। इवाना आर्ट शनिवार से होटल रमाडा,बिष्टपुर में दो दिवसीय लाइव आर्ट और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रहा है। प्रदर्शनी 9 और 10 मार्च को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक जनता के लिए खुली है। लाइव आर्ट दोनों दिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। उक्त जानकारी इवाना आर्ट के संस्थापक जेनी शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस अवसर पर आर्टिस्ट श्रीमती अनुराधा ठाकुर और होटल रमाडा की निदेशक रिंतु कपिला भी



संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पेंटर अनुराधा ठाकुर, इवाना आर्ट की संस्थापक जेनी शाह और रिंतु कपिला।

उपस्थित थीं। जेनी शाह ने कहा कि कला प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं तक समान रूप से पहुंचने के लिए, इवाना आर्ट ने रमाडा होटल के साथ समझौता किया है। होटल रमाडा के कला स्थान ( आर्ट स्पेस ) में देश भर के 100 से अधिक कलाकारों की मूल कलाकृतियों प्रदर्शित की जाएगी जो देश के जीवंत कला रूपों और विरासत का

प्रतिनिधित्व करेंगी। उभरती प्रतिभाओं से लेकर स्थापित उस्तादों तक कलाकारों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता के साथ, इवाना आर्ट का लक्ष्य ललित कला को किफायती और सुलभ बनाना है। इस अवसर पर होटल रमाडा की रिंतु कपिला ने कहा कि वह इवाना आर्ट के साथ सहयोग करके

खुश हैं। उन्होंने कहा कि होटल में कला प्रेमी और आगतुक आसानी से समृद्ध पेंटिंग और कलाकृतियों खरीद सकते हैं। कलाकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश के अलावा, इवाना आर्ट कला परामर्श और क्यूरेशन भी प्रदान करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक कला संरक्षक को अपने स्थान को सजाने के लिए सही टुकड़ा मिले। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक भारतीय चित्रकला कलाकार अनुराधा ठाकुर ने कहा कि वह प्रदर्शनी का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं। अपनी चमकदार पेंटिंग्स के लिए जानी जाने वाली, उनकी कलाकृतियाँ अंतर्निहित भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन हैं। वह एक टेडक्स स्पॉकर भी हैं।

## अपने कार्यबल में 30 प्रतिशत महिलाएं शामिल करेगा आरएसबी ग्रुप : बेहरा बंधु

**जमशेदपुर।** आरएसबी, जो अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के लिए प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित संगठन है, ने लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इस वर्ष गर्व से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। आरएसबी ने कर्मचारियों और समुदाय दोनों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपना समर्पण प्रदर्शित किया है। कई साल पहले, हमारे दूरदर्शी चेयरमैन आर.के. बेहरा और वाइस चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, एस.के. बेहरा ने कुल कार्यबल में 30% महिला प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। यह दूरदर्शी प्रतिबद्धता संगठन के भीतर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आरएसबी की चला रही पहल के पीछे प्रेरक शक्ति रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर समेत देश-विदेश स्थित उत्पादन केंद्रों में आरएसबी ग्रुप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसमें आरएसबी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 2000 से अधिक लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों पर सशक्त संदेश देते हुए सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला प्रदर्शित की गई। सुश्री निर्मला बेहरा, एकजीव्यूटिव डायरेक्टर( ग्रुप एचआर), महिला कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न पहलों का नेतृत्व करने में सहायक रही हैं।

## सोना देवी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस का सफल आयोजन हुआ



**जमशेदपुर।** सोना देवी यूनिवर्सिटी, घाटशिला के एसडीयू स्कूल ऑफ फार्मेसी द्वारा राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस - 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें सदर हॉस्पिटल घाटशिला में चर्चा के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र नाथ सोनरे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जेपी मिश्र एवं कुलसचिव डॉक्टर गुलाब सिंह आजाद के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर श्रद्धा पांडा, श्री उमेश कुमार, श्रीमती अनसूया राय, डॉक्टर राजन कुमार, श्रीमती मोनिका सिंह, एवं श्री धीरज शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर फार्मेसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान कर सभी छात्रों को इसकी जानकारी दी गई। प्रैक्टिकल नॉलेज व ट्रेनिंग के पहलुओं से रू-बरू कराया गया। इस अयोजन को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी तथा अन्य सभी का योगदान रहा।

## अरका जैन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ फार्मेसी ने मनाया राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस

### खबर मन्त्र व्यूटे

**जमशेदपुर।** गम्हरिया स्थित अरका जैन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मेसी में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ की जयंती राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के रूप में मनायी गयी। इस अवसर पर स्कूल ऑफ फार्मेसी की ओर से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 80 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि फार्मेसी कार्डसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ की जयंती और भारत में फार्मेसी शिक्षा की स्थापना में उनकी भूमिका के सम्मान में 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस घोषित किया है। प्रोफेसर एमएल श्रॉफ को भारत में फार्मेसी शिक्षा के



छात्रों ने रैली निकाल लोगों को किया जागरूक

जनक के रूप में जाना जाता है। वह निश्चित रूप से इस देश में काम करने वाले सभी फार्मासिस्टों के लिए उनकी शाखाओं और कर्तव्यों की विविधता के बावजूद एक आदर्श बने हुए हैं। विद्यार्थियों और समाज को फार्मेसी शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर केरला पब्लिक स्कूल, गम्हरिया से लाल बिल्डिंग चौक, गम्हरिया तक एक रैली निकली गयी। इसमें

विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इससे पूर्व स्वागत भाषण स्कूल ऑफ फार्मेसी की एसोसिएट प्रोफेसर कुमारी सिन्धु रानी बहरे ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से हुई। कर्मचारियों और छात्रों ने प्रोफेसर एमएल श्रॉफ को श्रद्धांजलि अर्पित की। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट बोर्ड के

अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ) एसएस रजी ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में फार्मासिस्ट के महत्व पर प्रकाश डाला। संयुक्त रजिस्ट्रार डॉ जसबीर सिंह धंजल ने फार्मेसी शिक्षा के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। सहायक रजिस्ट्रार नंद झा ने फार्मेसी में प्रौद्योगिकी और नवाचार के बारे में बताया। मुख्य अतिथि पीसीआई के ईसी सदस्य धर्मेन्द्र सिंह ऑनलाइन मंच के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने अरका जैन विश्वविद्यालय को नैक से 'ए' ग्रेड मिलने पर बधाई दी और छात्रों को प्रेरित भी किया। स्कूल ऑफ हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज के डीन डॉ ज्योतिर्मय साहू ने अपने संबोधन के दौरान फार्मेसी पेशे के बारे में बात की, जो सीधे तौर पर कोर हेल्थकेयर सिस्टम से जुड़ा हुआ था।



## स्पीड न्यूज

## सरना प्रार्थना सभा में जल, जंगल व जमीन की रक्षा का लिया संकल्प



भुरकुंडा (रामगढ़)। पतरातू डेम गेगदा मुडकट्टी के समीप शुक्रवार को राजीपड़हा सरना प्रार्थना सभा हुआ। सभा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज मुंडा, राष्ट्रीय महासचिव जलेश्वर भगत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल करमाली, प्रदेश अध्यक्ष माथी उरांव, प्रदेश महासचिव संदीप उरांव, प्रदेश धर्मगुरु राजेश लिंग, जिला धर्मगुरु संदीप टोपो ने संयुक्त रूप से किया। इसके पूर्व विधि-विधान से धर्म गुरुओं ने मां सरना की पूजा की। साथ ही क्षेत्र की सुख-समृद्धि और हरियाली-खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान जल, जंगल, जमीन व संस्कृति की रक्षा का संकल्प भी लिया गया। रामदेव उरांव, राष्ट्रीय सहलाकर कैलाश उरांव, देवलाल मुंडा, शुभाष उरांव, विकेश बेदिया, विजय बेदिया, मिना उरांव, राजमणि उरांव, सुरेंद्र पाहन, सूलेंद्र उरांव, श्याम मुंडा, सोमदेव उरांव, छेदी पाहन, संजय कुजूर, राजेश्वरी उरांव, शुष्मा उरांव, भोला उरांव, जेतलु उरांव, ईश्वर पाहन मौजूद थे।

## रजरण्या में 20 फीट के शिवलिंग की पूजा

रजरण्या। माँ

छिन्नमस्तिके मंदिर

प्रक्षेत्र स्थित 20

फीट के शिवलिंग

में महाकाल की

आकृति बनाकर

श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। इसके अलावा रजरण्या

कॉलोनी शिवालय, बड़कीपोना, धिरपुर, सोद,

छोटकीपोना, कुन्दरुकला, सुकरीगढ़ा, लारीकलां दुलमी

के सिकनी, सिरु, श्री श्री बड़की डेली पैड़ला इचातु आदि

जगहों के शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने

फल-फूल, बेलपत्र, दूध, आदि प्रसाद स्वरूप भोलेनाथ को

चढ़ाया। इधर, सुकरीगढ़ा सियारडीह स्थित प्राचीन हनुमान

मंदिर में रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी 51 नारियल

फोंडकर पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना

की। मौके पर मुखिया दिल्ली कुमारी, समाजसेवी मलेश्वर

नायक आदि ग्रामीण मौजूद थे।



## बांडी में ग्राम सभा का आयोजन

टाटीझरिया। धर्मपुर पंचायत

के बांडी में मुखिया कांति देवी

के अध्यक्षता में ग्राम सभा

हुआ। रोजगार सेवक ने

ग्रामीणों से कहा कि जो योग्य

लाभार्थी है व ग्राम सभा में स्वेच्छापूर्वक योजनाओं को

अंकित करवाए ताकि समयानुसार योजना कार्य को सफल

बनाया जा सके। सभा में वाई सदस्य लोकनाथ गोप

, हेवती देवी, जल सहिया कचन देवी, सुनीता देवी, पार्वती

देवी, धनवा देवी, डीलो प्रजापति, महावीर प्रजापति, सुमित्रा

देवी, गणेश गोप, कुंती देवी, प्यासी देवी, गोपाली

यादव, रामेश्वर प्रजापति अन्य कई लोग मौजूद थे।



## बेडम व जोगी सिमरा में मना महिला दिवस

टाटीझरिया। जन सहयोग

केंद्र के ओर से शुक्रवार

को अंतर्राष्ट्रीय महिला

दिवस टाटीझरिया प्रखंड

के बेडम और जोगीसिमरा

गांव में मनाया गया।

संस्था की कोषाध्यक्ष रीता कुमारी ने कहा कि भारतीय

संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है।

महिलाओं को भी पुरुष के समान बराबर हक मिलना

चाहिए। कार्यों में शिक्षा, रोजगार, नौकरी या मजदूरी हो।

कार्यक्रम को सफल बनाने में बेडम से रीता कुमारी,

ननकी देवी, लिलमुनी देवी, हसीना हंसदा, सरिता कुमारी,

सावित्री कुमारी, मनीषा कुमारी, अंजनी कुमारी जोषी

सिमरा गांव से बहामुनी देवी, आरती देवी, सोनिया हंसदा,

सुनीता कुमारी, सुरजमुनी टुडू, पार्वती टुडू उपस्थित हुए।



## चरही में महाशिवरात्रि की धूम

चरही। चरही में शुक्रवार को महाशिवरात्रि भक्तिभाव से

मनाई गई। क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों भव्य रूप से

सजाया गया गया था। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं

की भीड़ उमड़ने लगी थी। शिवभक्तों ने भगवान शिव शंकर

का दर्शन कर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की। और

शिव के समक्ष फूल-फूल, बेलपत्र सहित कई प्रकार के

सामग्रियों को अर्पित किया गया। साथ ही दूध और गंगाजल

से रूद्राभिषेक किया गया। महिलाएं, युवतियों और युवकों

ने उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना किया। देर

शाम को शिव बारात निकाली गई।

## चरही में दो शिक्षक हुये पदस्थापित

चरही। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड के द्वारा

परियोजना +2 उच्च विद्यालय चरही हजारीबाग के लिए

पीजीटी शिक्षक के पद पर जीव विज्ञान विषय में मनीषा

हांसदा एवं भौतिकी में चंदन कुमार का पदस्थापन किया

गया। दो नए पीजीटी शिक्षकों के पदस्थापन के बाद

विद्यालय में प्लस टू विज्ञान सकाय में सभी विषयों की

शिक्षक हो जाने के बाद अब सभी विषयों की पढ़ाई होगी।

## सेवानिवृत्त शिक्षक को दी गयी विदाई

बरकट्टा। उक्तमित+2

विद्यालय कपका में

शिक्षकों व बच्चों ने

सेवानिवृत्त शिक्षक

रामचन्द्र प्रसाद का विदाई

सह सम्मान समारोह

हुआ। सम्मान समारोह में विधायक अमित कुमार यादव

पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव शामिल हुए। विधायक ने

कहा कि नौकरी में समय सीमा के तहत सेवा से विरामित हुए

न की शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षक रामचंद्र प्रसाद की दीर्घायु

की कामना की। पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामचंद्र प्रसाद को अंगवस्त्र व

शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय के

शिक्षक महेश पासवान को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में

पदभार ग्रहण किया। मौके पर जिला परिषद सदस्य

कुमुद देवी, प्रमुख रेणु देवी, बीस सुनी अध्यक्ष प्रदीप

प्रसाद, पूर्व मुखिया गणेश यादव, रघुवीर मंडल, रामेश्वर

महतो, जोधान महतो, शिक्षक राजकुमार रविदास और बच्चे

शामिल थे।



## जन्म: शिवाय, हर-हर महादेव से गुंजा कोयलांचल

श्रीश्री बुढ़वा महादेव मंदिर में अखंड-पाठ शुरू, भंडारा में उमड़ी भीड़

खबर मन्त्र संवाददाता

भुरकुंडा (रामगढ़)। महाशिवरात्रि के अवसर पर भुरकुंडा कोयलांचल का प्राचीन श्रीश्री बुढ़वा महादेव मंदिर में शुक्रवार को पूजा-अर्चना के साथ 24 घंटे के अखंड-पाठ का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ बरका-सवाल के जीएम अजय कुमार सिंह, भुरकुंडा पीओ मनोज कुमार पाठक, पूर्व जप उपाध्यक्ष मनोज राम व भुरकुंडा ओपी प्रभारी अभिषेक कुमार ने पूजा-अर्चना कर की। इस दौरान हरे राम हरे कृष्ण के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। इसके पूर्व अतिथियों ने पूरे विधि-



विधान से भगवान शंकर की पूजा-अर्चना की। साथ ही भोले बाबा के समक्ष मन्था टेक क्षेत्र की हरियाली-खुशहाली की कामना की।

पूजा के दौरान ऊ नमः शिवाय, हर-हर महादेव सहित अन्य आराध्य देवी-देवताओं के भक्ति जयकारों से

पूरे क्षेत्र गुंजाता रहा। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने जीएम अजय सिंह, पीओ एमके पाठक आदि अतिथियों को अंगवस्त्र देकर स्वागत किया।

भंडारा का शुभारंभ अतिथि ने श्रद्धालुओं के बीच खीर-पुड़ी व सब्जी का वितरण किया। भुरकुंडा

कोयलांचल, भदानीनगर, बासल सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भीहले सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर फल-फूल, बेलपत्र, धूप-अगरबती से पूजा-अर्चना की। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर परिवार व क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। पूजा में समाजसेवी महेश्वर साहू सहित दर्जनों श्रद्धालु महिला-पुरुष शामिल हुए। धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने में श्रीश्री बुढ़वा महादेव मंदिर समिति अध्यक्ष गणेश साव, मुख्य पुजारी अशोक तिवारी, डब्लू पांडेय, रुदल राउत, विपुल पटेल, साँदा डी मुखिया उपेंद्र शर्मा सहित दर्जनों लोग जुटे थे।

## चलकरी कला में मना महिला दिवस



विष्णुगढ़। खरना पंचायत अंतर्गत चलकरी कला बाबाधाम प्रांगण में गैड्डा एवं खरना पंचायत की ग्रामीण महिलाओं ने एकता महिला मंच के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूम-धाम के साथ मनाया। गांवों में भ्रमण करते हुए रैली निकाली गई। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अथुरा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आधा पुरुष आधा नारी, जमीन में हक बारा बारी सहित कई नारे लगाए गये। खरना पंचायत के मुखिया निर्मला देवी, पंचायत समिति सदस्य चांदमुनी देवी, वाई सदस्य विमला देवी एवं एकता परिषद के राष्ट्रीय सचिव चुनलाल सोरेन, एकता महिला मंच के जिला संयोजिका दुलारी टुडू ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुखिया निर्मला देवी ने कहा कि ग्रामीण महिलाएं विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अधिकार के लिए घर से निकल कर आवाज बुलंद कर रही है। सचिव चुनलाल सोरेन ने कहा कि आज देश और दुनिया में महिलाएं अलग अलग मुद्दों पर संघर्षरत हैं। मौके पर सैकड़ों महिलाएं मौजूद थीं।

## चाणक्य यशवंत सिन्हा बनेंगे विपक्ष के तारनहार

इधर हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने भी हजारीबाग आते ही सबसे पहले अंबा प्रसाद से चुनाव रणनीति की लेकर उनसे मुलाकात की थी। उनके बेटे जयंत सिन्हा जो हजारीबाग से वर्तमान सांसद हैं उनकी टिकट भाजपा के द्वारा काट दी गयी। इस बात से यशवंत बीजेपी आलाकमान से खसे नाराज हैं। यशवंत सिन्हा के जानने वाले कहते हैं कि वे बीजेपी को हजारीबाग से हराने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे।

हैं। उनकी कार्यशैली और अरूची से लगता नहीं कि वे चुनावी समर में उतरेंगे।

एक पुराने नेता और पूर्व सांसद रहे भूनेश्वर मेहता के बारे में भी बाते की जा रही है। लेकिन उनके स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए नहीं लगता कि वे चुनाव में उतरना चाहेंगे। उमाशंकर अकेला का चौपाकरण बरही के आगे बढ़ा जाना नहीं है। नये नेता में कोई ऐसा नहीं है जिसके नाम पर वोट मिल सकेगा। तो कुल मिला कर यही लगता है कि विपक्ष के लिए सबसे मजबूत दावेदार कोई है तो वो अंबा प्रसाद ही है।

## मनीष के खिलाफ विपक्ष किसे देगी टिकट, परेशानी महाविकट

अभय कुमार सिंह

हजारीबाग। हजारीबाग से भाजपा ने अपना लोकसभा उम्मीदवार मनीष जायसवाल को बना दिया है। अब विपक्ष उनके खिलाफ यहाँ किसे उतारेगी ये लाख टके का सवाल है। मनीष जायसवाल के रूप में विपक्ष के सामने एक विशाल चुनौती है। इससे पार पाना आसान नहीं होगा। अभी तक कांग्रेस व अन्य दलों में मंथन का दौर जारी है कि वे किसे यहाँ से उम्मीदवार घोषित करें जो मनीष के मुकाबले में खड़ा हो सके।

मनीष जायसवाल का सितारा अभी बुलंद है ऊपर से जबसे वे सदर विधायक बने हैं लोगों के बीच रहे हैं। कई जनकल्याण के कार्य किए हैं। लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐसे में इस दमदार नेता को टक्कर देना किसी अन्य नेता के लिए आसान नहीं होने वाली है।

अंबा प्रसाद दे सक्रौती : बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद इस मामले में एक तागड़ी उम्मीदवार लगती है। वे बोलें हैं, बेबाक हैं और अपने क्षेत्र में वो भी मनीष जायसवाल की तरह ही लोकप्रिय हैं। सुलभ हैं और लोगों के बीच रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री चंचई सोरेन का

मंत्रीमंडल का गठन हुआ था तब अंबा मंत्रीपद की उम्मीदवारी के लिये जोर आजमाइश कर रही थी। लेकिन अंतिम

## लोकसभा चुनाव

► क्या गठबंधन अंबा प्रसाद को उतारेगी मैदान में? मंथन जारी



क्षणों में उनका पत्ता काट दिया गया। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस अंबा को हजारीबाग लोकसभा से टिकट देकर उसकी भारपाई करेगी। अंबा से जब इस संबंध में पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा टिकट को लेकर कांग्रेस ने मिटिंग कर ली है। एक दो दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा। पार्टी, कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप

निर्णय लेगी। पार्टी में बहुत लिडर्स हैं।

कोई किसी से कम नहीं है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा सर्वमान्य होगा।

## अन्य विपक्षी नेताओं का क्या है हाल

पूर्व विधायक सोरभ नारायण सिंह की भी वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। लेकिन इसमें संदेह है क्योंकि सोरभ नारायण सिंह राजनीति में सक्रिय नहीं

## अन्नपूर्णा देवी और अमित यादव ने पथों की मरम्मती व पुल का किया शिलान्यास

खबर मन्त्र संवाददाता

बरकट्टा। सांसद अन्नपूर्णा देवी व विधायक अमित कुमार यादव ने बरकट्टा व चलकुशा प्रखंड में विभिन्न पथों का विशेष मरम्मत एवं पुल का शिलान्यास संयुक्त रूप से किया। जिसमें कटिया नाला, मनीयाडीह में पुल निर्माण, पलमा सेवाटांड तक, अलगाडीहा बड़ानो तक पथ विशेष मरम्मती, केडुआ नाला में पुल निर्माण, आरईओ रोड बेडोकला से घोरबंदा तक, बेडोकला से जतधाघरा तक, बेडोकला से चाँदगढ़ तक पथ विशेष मरम्मती, मानपुर नाला में पुल निर्माण, पीडब्ल्यूडी रोड से जमुआ से लेबरा गिरिडीह सिमाना तक, पीडब्ल्यूडी रोड से कपका तक, कपका स बुढ़िया डीह, पैसरा डमर चौक से झिंविबराय भाया गैवापहाडी तक, सलैया मोड़ से शमशान घाट भाया तितकाही अड़वार तक, बरवाँ मध्य विद्यालय से नायाखाप भाया पंचफेडी तक, पीडब्ल्यूडी रोड स बसरिया भाया मासीपीठी तक पथ विशेष मरम्मती शामिल है। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। चुनाव पूर्व किये जावों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। विधायक अमित कुमार यादव



ने कहा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के सड़को की विशेष मरम्मती व निर्माण के साथ-साथ आवश्यक स्थल पर पुल- पुलिया निर्माण कार्य कर आवागमन को सुलभ बनाया जा रहा है। विकास की प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई व सड़क का विकास जरूरी है। कार्यक्रम में भाजपा के सुनील मेहता, सांसद प्रतिनिधि केदार साव, भाजपा प्रदेश मंत्री कुमुद देवी, भाजपा वरिष्ठ नेता खलील अंसारी, भाजपा वरिष्ठ नेता समन ठाकुर, प्रमुख रेणु देवी, अभिव्यंता रत्नेश यादव, मुखिया संघ अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद, पूर्व मुखिया रामचन्द्र राम समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे।

## मानव समाज की वास्तविक वास्तुकार हैं महिलाएं : शालू जिंदल

खबर मन्त्र संवाददाता

भुरकुंडा (रामगढ़)। जेएसपी फाउंडेशन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस वर्ष विषय था, महिलाओं के लिए निवेश करें और प्रगति में तेजी लाएं। जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन शालू जिंदल ने महिलाएं मानव समाज की वास्तविक वास्तुकार हैं। उनकी कृपा से प्यार और रचनात्मकता, इस दुनिया को रहने के लिए बहुत खूबसूरत जगह बना रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए बताया की महिलाएं बाधाओं को तोड़ते हुए अपने जुनून को आगे बढ़ाए। फाउंडेशन पतरातू ने ग्रामीण महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिसमें फाउंडेशन पतरातू के द्वारा स्वास्थ्य सगिनी, जिंदल

► जेएसपी फाउंडेशन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस  
► स्वयं सहायता समूह द्वारा बनायी गयी उत्पादों की लगी प्रदर्शनी

गलर्स फुटबॉल टीम एवं जिंदल आशा की बच्चियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। सतत आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आकृति प्रयोजना के माध्यम से विभिन्न स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी बिन्नी पतरातू डैम के पास आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन पतरातू बीडीओ मनोज कुमार गुप्ता एवं सीओ अमित भगत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर जेएसएलपीएस के बीपीएम पुरोषोत्तम, बीएपी अभिषेक कुमार वर्मा, लवगा पंचायत की मुखिया किरण देवी उपस्थित थीं। जिन्होंने



जेएसपी फाउंडेशन के द्वारा किये जा रहे महिला सशक्तिकरण के कार्यों की सराहना की। मां आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आय में वृद्धि हेतु दोना-पत्तल बनाने वाली मशीन का वितरण किया गया।

साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को रचिन्हत कर सब्जी बेचने वाली गाड़ी का भी वितरण किया गया। ओपी जिंदल कायुनिटी कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताओं का भी अयोजन किया गया।

## एक

## नजर में

## कुजुू : शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

कुजुू। महाशिवरात्रि को लेकर कुजुू के आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु ने उपवास रखकर पूजा-अर्चना की। भगवान शिव को मनाने के लिए फल, फूल, बेलपत्र, दूध, भांग, धूरा आदि चढ़ाया। इस दौरान क्षेत्र ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजायमान रहा। कई शिवालयों में पूजन समिति द्वारा अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं कई स्थानों पर मंदिर के निकट भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के बीच भांग शरबत का वितरण किया गया। कुजुू शिव मंदिर, ट्रांसपोर्ट नगर बाबा कैलाशनाथ मंदिर, कैबीगेट, कुजुू कोलियरी, मुरा, आरा, सारुबेड़ा, तोपा, ओरला, दिगावार, बोंगावार, सांडी स्थित टूटी झरना मंदिर में दिन भर पूजा हुई।



## शिवरात्रि महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग

रामगढ़। झंडा चौक स्थित जय श्री महाकाल मंडली द्वारा आयोजित शिवरात्रि महोत्सव में शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और महाकाल का आशीर्वाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बने। 11 बजे महाकाल दरबार की पूजा, 11 बजे गी पूजा के बाद भंडारे का शुभारंभ, 2 बजे बाबा को दोपहर का भांग, 6 बजे संथा आरती व दूध व भांग के प्रसाद का वितरण, 7 बजे से आकर्षक झांकी एवं भजन प्रभु ईच्छा तक एवं रात 11 बजे महाकाल के उदघोष के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर अमित कुमार पणू, रंजन भूषण, अनमोल सिंह, राजेश कुमार यादव, मनोज शर्मा, सन्नी गुप्ता, पंकज अग्रवाल आदि मौजूद थे।



## मृतक के आश्रित को मिला मुआवजा

रामगढ़। ग्राम नवा धुटुवा नया नगर बरकाकाना थाना पतरातू जिला रामगढ़ स्थित जे.पी. हाईवेयर में कार्यरत कर्मचारी मंतोष कुमार भुईयां का कार्य के दौरान अचानक जमीन पर गिर जाने के कारण घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम को 7 मार्च सुबह जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम, प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार, अनुसूचित जाति उत्थान परिषद रामगढ़ के जिला अध्यक्ष मनोज राम सहित परिषद के वरिष्ठ नेता भुनेश्वर राम तत्परता दिखाते हुये पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया और जे पी हाईवेयर संचालक मालिक को पीड़ित परिवार के घर पर बुलाया गया। वार्ता में दुकान संचालक की ओर से पीड़ित परिवार को 8 लाख रूपए मुआवजा देने पर सहमति बनी। इस समझौते के अंतर्गत मृतक मंतोष कुमार भुईयां के दोनों बेटों के नाम से तीन तीन लाख रुपये और एक बेटे के नाम से एक लाख

## स्पीड न्यूज

### केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे



रुद्रप्रयाग/उखीमठ। विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को प्रातः सात बजे खुलेंगे। शुक्रवार को पंचकेदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजैद्र अजय की उपस्थिति में आयोजित धार्मिक समारोह में कपाट खुलने की तिथि तय हुई। केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति की पांच मई को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पूजा होगी। पंचमुखी डोली छह मई केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। यह डोली नौ मई की शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी।

### स्वीडन बना नाटो का 32वां सदस्य

स्टॉकहोम। आखिरकार स्वीडन को गुरुवार उत्तरी अटलान्टिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल कर लिया गया। नाटो के सचिव जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। स्वीडन को अब नाटो में अधिकारपूर्वक जगह मिलेगी और उसकी बात का भी नाटो की नीतियों और फैसलों में ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष ज्यादा समय तक गुट निरपेक्ष रहने के बाद स्वीडन को भी अब अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।

### नाइजीरिया में चरमपंथियों ने 200 का किया अपहरण

अबुजा। नाइजीरिया में इस्लामी चरमपंथियों ने हिसा के कारण विस्थापित हुए कम से कम 200 लोगों को घास से लगी सीमा के निकट लकड़ी तलाश करते समय अगवा कर लिया। नाइजीरिया में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि अगवा किए गए लोगों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं।

### सैन्य दुर्ग अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार

नयी दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को रिश्वत लेने के आरोप में सैन्य इंजीनियर सेवा के सहायक सैन्य दुर्ग अभियंता पांडियन बल्लकोइन्डन को गिरफ्तार किया है। मामला जालिया मिलिट्री स्टेशन, बाइमेर, राजस्थान का है। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर आरोपित सहायक सैन्य दुर्ग अभियंता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सचिवालय के इंचुटी को सुविधाजनक बनाने हेतु उससे 8 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता से यह राशि लेते हुए सीबीआई ने आरोपित को रंगे हाथों देखा।

### फिल्म ओडेला 2 में शिव शक्ति के रूप में नजर आयेगी तमन्ना भाटिया



मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की आने वाली तेलुगु फिल्म ओडेला 2 से तमन्ना का उनका लुक रिलीज कर दिया गया है। तमन्ना भाटिया इन दिनों फिल्म ओडेला 2 की शूटिंग कर रही हैं। इस बीच ओडेला 2 से तमन्ना भाटिया का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर फिल्म ओडेला 2 से अपना पहला लुक शेयर किया है। पोस्टर में तमन्ना भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई दे रही हैं। पोस्टर में देखा जा सकता है कि तमन्ना ने एक हाथ में डमरू लिया है, माथे पर चंदन लगाया है और एक हाथ में लाल-पीली मौली से रंगी लकड़ी पकड़ी है।



## कोटा : शिव बारात में करंट से 12 बच्चे झुलसे, दो की हालत गंभीर

कोटा। राजस्थान के कोटा शहर के नदी पार क्षेत्र में कुन्हाड़ी थर्मल चौराहे पर शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली गई शिव बारात में शामिल बच्चों के समूह के अचानक बिजली के करंट की चपेट में आने से उसमें शामिल 12 बच्चे गम्भीर रूप से झुलस गए। इनमें से दो बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही सांसद ओम बिरला व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अस्पताल पहुंचे और बच्चों से मिलकर घटना की जानकारी ली। यह हादसा शुक्रवार दोपहर में हुआ, जब कुछ बच्चे धार्मिक झंडा लेकर शिव यात्रा में सड़क पर चल रहे थे। इसी दौरान वे झंडा हाइड्रेशन लाइन से टच हो गया। बताया जा रहा है कि जहां से शिव बारात गुजर रही थी, वहां पानी भी



फैला हुआ था। इस कारण करंट तेजी से फैला। देखते ही देखते धार्मिक उल्लास के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई। यह घटना कुन्हाड़ी क्षेत्र में थर्मल चौराहे के पास हुई है। सभी घायलों को महाराज भीमसिंह अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि फिलहाल बच्चों के इलाज में जुटे हैं। जांच के बाद ही कारणों का पता लगाया जाएगा।

## प्रधानमंत्री ने दो बार झुककर कीर्तिका का किया अभिवादन

### एजेंसी

नयी दिल्ली। भारत मंडप में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय असहज हो उठे जब सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के तौर पर पुरस्कृत कीर्तिका गोविंददासीम प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए बड़ीं। कीर्तिका ने जैसे ही पैर छूने के लिए झुकी प्रधानमंत्री दो कदम पीछे हो गए। उनके मूंह से दो शब्द निकले ओहो बाबा पैर मत छुओ। यही नहीं प्रधानमंत्री ने दो बार झुककर कीर्तिका का अभिवादन किया। कीर्तिका गोविंददासीम को पुरस्कार देते हुए दो लाइन का संबोधन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का गला भर आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कला जगत में पर छूना सम्मान की बात हो सकती है लेकिन राजनीति में पता नहीं है यह कैसी परंपरा बन गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं पैर छूने से आकुल और अशांत हो जाता हूं। उस समय जब कोई बेटी पैर छूए तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। इसी तरह की घटना एक साल पहले 13 मार्च को कर्नाटक में हुई थी। जब एक महिला कार्यकर्ता ने मंच पर प्रधानमंत्री पैर छू लिए उसी समय प्रधानमंत्री ने खुद उनके पैर छूकर सभी को चौंका दिया।



### शरद पवार के पोते की 50.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

मुंबई। इडी ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के पोते रोहित पवार के स्वामित्व वाले बरामती एग्री लिमिटेड मेसर्स कन्ड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड से संबंधित 50.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जो मेसर्स बरामती एग्री लिमिटेड के पास है। जब्त की गई संपत्तियों में 161.30 एकड़ जमीन, संयंत्र और मशीनरी और कन्ड, औरंगाबाद में स्थित चीनी इकाई की इमारतें शामिल हैं। 22 अगस्त, 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले की छानबीन में यह पता चला कि इस कारखाने की खरीद-बिक्री के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

### डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल का अधीक्षक गिरफ्तार

डिब्रूगढ़ (असम)। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक नूपेन दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेल अधीक्षक पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की मदद करने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले इन कैदियों के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, स्पार्किंग समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। गत 17 फरवरी को पुलिस ने सिम कार्ड, टीवी रिमोट, जासूसी कैमरे और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने घटना

### खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की जेल में कर रहा था मदद

के बारे में ट्वीट किया था। नूपेन दास को इस घटना के सिलसिले में दर्ज एक मामले के आधार पर बीती रात को गिरफ्तार किया गया डिब्रूगढ़ जेल के एनएसए सेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के पास से बड़ी मात्रा में सिम कार्ड, टीवी रिमोट, जासूसी कैमरे और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। जेल से ही वह देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अमृतपाल सिंह रासुका के तहत डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है।

### भारत को मिला खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार

नयी दिल्ली। खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। भारत को 6 मार्च को अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में दी मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की तरफ से अमेरिका में भारतीय राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। खसरे और रूबेला की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर एक बहु-एजेंसी योजना समिति का गठन किया गया है।

## ब्रेन ट्यूमर का 30 मिनट में होगा इलाज

### एजेंसी

नयी दिल्ली। महज 30 मिनट में ब्रेन ट्यूमर का होगा इलाज। अपोलो अस्पताल ने शुक्रवार को जैप एक्स तकनीक लॉन्च की है। इस तकनीक से 30 मिनट के सत्र में मरीज को बिना के किसी दर्द और दुष्प्रभाव से इलाज संभव है। जैप एक्स नामक यह तकनीक सीधे तौर पर ट्यूमर को तोड़ने का काम करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तकनीक आने वाले दिनों में ब्रेन ट्यूमर के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इस नई

### अपोलो अस्पताल ने लांच की जैप एक्स तकनीक

तकनीक के लिए मरीज को एनेस्थीसिया की जरूरत भी नहीं पड़ती है। डॉक्टरों के अनुसार यह तकनीक प्राथमिक और मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर, आर्टिरियोवेनस मैलफार्मेशन (एवीएम), ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, पार्किंसंस रोग, मिर्गी और अन्य इंटरक्रैनिअल घावों जैसे मेनिंगियोमास, ध्वनिक न्यूरोमास और पिट्यूटरी एडेनोमास जैसे विकारों के इलाज में सक्षम है।



### वया है तकनीक

जैप-एक्स तकनीक प्रमुख फायदों के साथ आती है, जिसमें इसका गैर-आक्रामक होना शामिल



**महाशिवरात्रि : बाबा विश्वनाथ और महाकाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़**  
महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, श्रवण व घनिष्ठ नक्षत्र के दुर्लभ संयोग में काशीपुराधिपति के स्वर्णिम दरबार में सुरक्षा के अग्नेय किलेबन्दी के बीच दर्शन पूजन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। वहीं उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में रात 2:30 बजे पट खुलते ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। यहां आधी रात से ही लंबी-लंबीकतारें लग गई थीं। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु लगातार 44 घंटे भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। नौ मार्च को शयन आरती के बाद रात 11 बजे मंदिर के पट पुनः बंद होंगे। महाकालेश्वर मंदिर में परम्परा के मुताबिक, महाशिवरात्रि पर डेढ़ घंटे पहले रात 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद भस्म आरती की हुई। पट खुलते ही पाण्डे-पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से कर पंचामृत से सफ पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर भगवान महाकाल का भांग और मेवे से विशेष श्रृंगार किया गया।

### कोटा में बिहार के छात्र ने की आत्महत्या

कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में शुक्रवार सुबह 16 वर्षीय कोचिंग छात्र ने पढ़ाई के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। वह बिहार से कोटा आकर एक वर्ष से जेईई की तैयारी कर रहा था। विज्ञान नगर पुलिस थाने से मिली सूचना के अनुसार कोचिंग छात्र अभिषेक भागलपुर से कोटा आकर पीजी में रहकर निजी संस्थान से जेईई की कोचिंग ले रहा था। पुलिस को उसके कमरे से पीले पेपर पर सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा है-"पापा, मुझसे नहीं हो पायेगा, मैं जेईई नहीं कर पाऊंगा। मुझमें आपसे बोलने की हिम्मत नहीं है। आई क्विट। डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि छात्र ने विषाक्त दवाई की गोलियां खाई थीं। उसके कमरे पर एफएसएल की टीम भी पहुंची और जांच के लिए सैम्पल लिये। पुलिस ने मृतक के पिता प्रदीप मंडल को सूचना दे दी है। वे पश्चिम बंगाल में व्यवसायी हैं।

## लोकसभा चुनाव : कांग्रेस ने जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली सूची

## वायनाड से ही लड़ेंगे राहुल गांधी

### एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी की है। इसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी नेता शशि थरूर, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई नेताओं के नाम हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय से एच.आर. अलगुम (राजू), हावेरी से आनंदस्वामी गद्गदेकरा मठ, शिमोगा से गीता शिवराजकुमार, हासन से श्रेयस पटेल, मांड्या से एस.पी. मुद्दहनुमैगौड़ा वेंकटरामगौड़ा (स्वार चंद्र), बेंगलुरु ग्रामीण डीके सुरेश,

### छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ेंगे तिरुवनंतपुरम से डॉ. शशि थरूर और अलापुझा से केसी वेणुगोपाल का नाम शामिल

(एससी) से डॉ. शिवकुमार डहरिया, कोरवा से ज्योत्सना महंत, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू बीजापुर (एससी) से एच.आर. अलगुम (राजू), हावेरी से आनंदस्वामी गद्गदेकरा मठ, शिमोगा से गीता शिवराजकुमार, हासन से श्रेयस पटेल, मांड्या से एस.पी. मुद्दहनुमैगौड़ा वेंकटरामगौड़ा (स्वार चंद्र), बेंगलुरु ग्रामीण डीके सुरेश,



कासरगोड से राजमोहन उन्नीथन, कन्नूर से के. सुधाकरन, वडकारा से शफी परम्बिल का नाम है। वायनाड से राहुल गांधी कोझिकोड से एम.के. राघवन, पलक्कड़ से वी.के. श्रीकंदन, अलाथुर (एससी) से राम्या हरिदास, त्रिशूर से के. मुरलीधरन,

चलाकुडी से बेनी बेहनन, एनाकुलम से हिवी ईडन, इडुक्की से डॉन कुरियाकोस, अलपुझा से के.सी. वेणुगोपाल, मावेलिककरा (एससी) से कोडिकुन्निअल सुरेश, पथानमथिझा से एंटो एंटनी, अर्शिल से अदूर प्रकाश तिरुवनंतपुरम से डॉ. शशि थरूर, लक्षद्वीप (एसटी) से मो. हमदुल्लाह सईद, शिलांग (एसटी) से विसेंट एच. पाला, तुगु (एसटी) से सालेंग ए. संगमा, नगालैंड से एस. सुपोंगमेरेन जमोरी, सिक्किम से गोपाल छेत्री, जहीराबाद से सुरेश कुमार शेटकर, नलगोंडा से रघुवीर कुंडुरु, महबूबनगर से चल्ता वामशी चंद रेड्डी, महबूबाबाद (एसटी) से बलराम नाइक पोरिका और त्रिपुरा पश्चिम आशीष कुमार साहा का नाम है।

### शाहजहां के आवास पर सीबीआई की रेड

कोलकाता। सीबीआई के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के संदेशाखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक दल पर हमले की जांच के सिलसिले में शाहजहां शेख के आवास और कार्यालय पर शुक्रवार को छापे मारे। यह जानकारी अधिकारियों ने यहां दी। सीबीआई के अधिकारी हमले के संबंध में सबूत इकट्ठा करने के लिए संदेशाखाली स्थित सरबेरिया के अकुंचीपारा इलाके में शाहजहां के आवास के पास के इलाकों में भी गए। इसके बाद अधिकारी उसके कार्यालय गए।

**सूर्याश वैदिक ज्योतिष कार्यालय**  
**गिरधर गोपाल मिश्रा**  
**ज्योतिषाचार्य**  
जन्म कुण्डली, रत्न विज्ञान व वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा अपने समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान प्राप्त करें।  
S H103 Housing Colony Dhanbad Jharkhand 826001.  
Mob. 9525504033

**जय मां शक्ति सह**  
**होमियो चिकित्सा केंद्र**  
**डॉक्टर आर के पाठक**  
होमियोपैथिक दवा के द्वारा सभी रोगों का इलाज (सुबह 10 से 12, शाम 5 से 8 बजे तक)  
सम्पर्क : 8409363623  
कुम्हारपट्टी मनईटांड, धनबाद

**Verma's Today**  
मुखला की निम्न पुस्तकें सर्वत्र उपलब्ध हैं—

Class - X	Class - IX
Hindi ₹ 140	Hindi ₹ 140
English ₹ 140	English ₹ 140
Mathematics ₹ 140	Mathematics ₹ 140
Science ₹ 140	Science ₹ 140
Social Science ₹ 140	Social Science ₹ 140
Sanskrit ₹ 120	Sanskrit ₹ 120
Hindi - B ₹ 140	Hindi - B ₹ 80
Hindi Vyakaran- II ₹ 120	Hindi Vyakaran- II ₹ 120
English Grammar II ₹ 120	English Grammar II ₹ 120
Sanskrit Vyakaran-II ₹ 100	Sanskrit Vyakaran-II ₹ 100
Hindi Practical ₹ 55	Hindi Practical ₹ 55
English Practical ₹ 55	English Practical ₹ 55
Maths Practical ₹ 65	Maths Practical ₹ 55
Science Practical ₹ 65	Science Practical ₹ 70
S. Science Practical ₹ 65	S. Science Practical ₹ 65
Sanskrit Practical ₹ 55	Sanskrit Practical ₹ 55
Maths Practical (Combined) ₹ 90	Maths Practical (Combined) ₹ 75
Science Practical (Combined) ₹ 90	Science Practical (Combined) ₹ 75
English Medium	English Medium
Mathematics ₹ 200	Mathematics ₹ 180
Science ₹ 200	Science ₹ 200
Social Science ₹ 200	Social Science ₹ 180
Maths Practical ₹ 80	Maths Practical ₹ 80
Science Practical ₹ 80	Science Practical ₹ 80
S. Science Practical ₹ 80	S. Science Practical ₹ 80

मिलते जुलते नाम वाली नकली पुस्तकों से सावधान!